

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 अप्रैल 2015—चैत्र 27, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2015

क्र. ई. 1-76-2015-5-1-ए.—श्री जयदीप गोविन्द, भाप्रसे (1984) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग की सेवायें भारत सरकार को सौंपे जाने के फलस्वरूप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का प्रभार श्री एस. एस. बंसल, भाप्रसे (1998) वि.क.अ.-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (निर्वाचन) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्तोनी डिसा, मुख्य सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2015

फा. क्र. 1-5-96-(इक्कीस)-ब(एक)-186-2015.—भष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)4211-13, दिनांक 30 अक्टूबर 2013 एवं फा. क्रमांक 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)1158-2014, दिनांक 22 मई 2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा श्री राजीव अयाची, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना

अधिनियम 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन अन्वेषण किये गये अपराधों का विचारण करने के लिए, नीचे विविध किये गये राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय इन्हौर होगा, अर्थात् :—

राजस्व जिला

1. इन्हौर, 2. धार, 3. रत्नाम, 4. झाबुआ, 5. मंदसौर,
6. प. निमाड़ (मण्डलेश्वर) 7. उज्जैन, 8. देवास,
9. शाजापुर, 10. पू. निमाड़ (खण्डवा) 11. नीमच,
12. बड़वानी, 13. अलीराजपुर, 14. बुरहानपुर.

F.No. 1-5-96-XXI-B(One)-186-2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), and in supersession of this Department's Notification No. F. No.-1-5-96-XXI-B(1)-4211-13, dated 30th October, 2013, F. No.-1-5-96-XXI-B(One)-1158-13, dated 22nd May 2014 the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Rajeev Ayachi, IVth Additional Sessions Judge, Indore as a Special Judge with Headquarter at Indore for the area comprising of the Revenue Districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in Clauses (a) & (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said act investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation, namely :—

REVENUE DISTRICTS

1. Indore, 2. Dhar, 3. Ratlam, 4. Jhabua, 5. Mandsaur,
6. West Nimar (Mandleshwar) 7. Ujjain
8. Dewas, 9. Shajapur, 10. East Nimar (Khandwa) 11. Neemuch, 12. Barwani,
13. Alirazpur. 14. Burhanpur.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इककीस-ब (एक)-318-2015.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्याक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई)83-03-इककीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 91 तथा उनसे संबंधित

प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

| सारणी | | | |
|------------|-------------------|---|---|
| अनुक्रमांक | सिविल जिले का नाम | विशेष न्यायालय का नाम | विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 91 | शहडोल | विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निर्वारण) अधिनियम, शहडोल. | सिविल जिला शहडोल के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 92 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) |

टिप्पणी।—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अन्तरित हो जायेंगे.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 91 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

| S. No. | Name of the Civil District | Name of Special Court | Territorial jurisdiction of Special Court (According to electricity Area) |
|--------|----------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 91 | Shahdol | Special Judge, SC/ST (POA) Act Shahdol | All electricity area of Civil District Shahdol (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 92). |

Note.—The pending cases of the Special court shall be stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

फा. क्र. 17(ई) 83/03-इक्कीस-ब(एक)-318-2015.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 91 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

सारणी

| अनुक्रमांक | सिविल जिले का नाम | विशेष न्यायालय का नाम | विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम |
|------------|-------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 91 | शहडोल | विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शहडोल. | श्री एस. बी. वर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शहडोल. |
| | | | अधिनियम, शहडोल. |

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)318-2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment's in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the table, for serial numbers 91 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely:—

TABLE

| S. No. | Name of Civil District | Name of Special Court | Name of the Judge of the Special Court |
|--------|------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 91 | Shahdol | Special Judge, SC/ST (POA) Act Shahdol | Shri S. B. Verma, Special Judge SC/ST (POA) Act Shahdol |

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

फा. क्र. 3(ए)1-2015-इक्कीस-ब(एक)904.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्ते) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5(1)(ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रूपये 51550—1230—58930—1380—63070, के पद पर स्थानापन रूप से नियुक्त करता है।

1. श्रीमती नोरिन निगम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल.
2. श्रीमती किरण सिंह, ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल.
3. श्री विजय सिंह कावछा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विदिशा.
4. श्री संजय कुमार कास्तवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छतरपुर.
5. श्री गिरिश दीक्षित, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर.
6. कुमारी निवेदिता मुदगल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गयसेन.
7. श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्दौर.
8. श्री आशुतोष मिश्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी.
9. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (वरिष्ठ) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर.
10. श्री राजदीप सिंह ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी.
11. श्री विकेंद्र सिंह रघुवंशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्दौर.
12. श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर.
13. श्री धर्मपाल सिंह, शिवाच, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी.
14. श्री कुलदीप जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाबुआ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2015

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-1063.—कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालय का गठन करती है, जिसका मुख्यालय कॉलम (3) में वर्णित है, और जिसकी अधिकारिता उसके (सारणी के) कालम (4) में वर्णित है, अर्थात् :—

सारणी

| अनु. क्रमांक | कुटुम्ब न्यायालय का नाम | मुख्यालय (3) | क्षेत्र जिसकी अधिकारिता तक विस्तार होगा (4) |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|
| 1 | कुटुम्ब न्यायालय, रायसेन. | रायसेन | (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका रायसेन की सीमाएं. (दो) जिला मुख्यालय की तहसील (तहसील रायसेन) की सीमाएं, तथा (तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत (जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं), जिनका विचारण जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा था.'' |
| 2 | कुटुम्ब न्यायालय, डिण्डौरी. | डिण्डौरी | (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका डिण्डौरी की सीमाएं. (दो) जिला मुख्यालय की तहसील (तहसील डिण्डौरी) की सीमाएं, तथा (तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत (जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं), जिनका विचारण जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा था.'' |
| 3 | कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी. | बड़वानी | (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका बड़वानी की सीमाएं. (दो) जिला मुख्यालय की तहसील (तहसील बड़वानी) की सीमाएं, तथा (तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत (जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं), जिनका विचारण जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा था.'' |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------------------------------|-----------|---|
| 4 | कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर | अशोकनगर | <p>(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका अशोकनगर की सीमाएं.</p> <p>(दो) जिला मुख्यालय की तहसील (तहसील अशोकनगर) की सीमाएं, तथा</p> <p>(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं], जिनका विचारण जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा था.”</p> |
| 5 | कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर | बुरहानपुर | <p>(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका बुरहानपुर की सीमाएं.</p> <p>(दो) जिला मुख्यालय की तहसील (तहसील बुरहानपुर) की सीमाएं, तथा</p> <p>(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं], जिनका विचारण जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा था.”</p> |
| 6 | कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर. | सीहोर | <p>(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका सीहोर की सीमाएं.</p> <p>(दो) जिला मुख्यालय की तहसील (तहसील सीहोर) की सीमाएं, तथा</p> <p>(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं], जिनका विचारण जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा था.”</p> |
| 7 | कुटुम्ब न्यायालय, दतिया. | दतिया | <p>(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका दतिया की सीमाएं.</p> <p>(दो) जिला मुख्यालय की तहसील (तहसील दतिया) की सीमाएं, तथा</p> <p>(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं], जिनका विचारण जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा था.”</p> |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------------------------------|---------|---|
| 8 | कुटुम्ब न्यायालय, दमोह. | दमोह | (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका दमोह की सीमाएं. (दो) जिला मुख्यालय की तहसील (तहसील दमोह) की सीमाएं, तथा (तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं], जिनका विचारण जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा था।'' |
| 9 | कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी. | शिवपुरी | (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका शिवपुरी की सीमाएं. (दो) जिला मुख्यालय की तहसील (तहसील शिवपुरी) की सीमाएं, तथा (तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं], जिनका विचारण जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा था।'' |
| 10 | कुटुम्ब न्यायालय, अनूपपुर. | अनूपपुर | (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका अनूपपुर की सीमाएं. (दो) जिला मुख्यालय की तहसील (तहसील अनूपपुर) की सीमाएं, तथा (तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं], जिनका विचारण जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा था।'' |

F. No. I-I-2002-XXI-B-1.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, after consultation with the High Court, hereby, constitutes the Family Court specified in column (2) of the table below, the headquarter of which is mentioned in column (3) and jurisdiction is mentioned in Column (4) thereof, namely:—

TABLE

| S. No. | Name of the Family Court (1) | Head quarters (2) | Area to which the Jurisdiction shall extend (3) | (4) |
|--------|---------------------------------|----------------------|--|-----|
|--------|---------------------------------|----------------------|--|-----|

1. Family Court Raisen (i) Limits of Municipality, Raisen including Cantonment area, if any

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|----------------------------|------------|---|
| | Raisen. | | <ul style="list-style-type: none"> (ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Raisen); and (iii) Local limits of all such tehsil of the district, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes, covered by Section 7 of the family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974)] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter. |
| 2 | Family Court Dindori. | Dindori | <ul style="list-style-type: none"> (i) Limits of Municipality, Dindori including Cantonment area, if any (ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Dindori); and (iii) Local limits of all such tehsil of the district, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes, covered by Section 7 of the family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974)] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter. |
| 3 | Family Court Barwani. | Barwani | <ul style="list-style-type: none"> (i) Limits of Municipality, Barwani including Cantonment area, if any (ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Barwani); and (iii) Local limits of all such tehsil of the district, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes, covered by Section 7 of the family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974)] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter. |
| 4 | Family Court Ashoknagar | Ashoknagar | <ul style="list-style-type: none"> (i) Limits of Municipality, Ashoknagar including Cantonment area, if any (ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Ashoknagar); and (iii) Local limits of all such tehsil of the district, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes, covered by Section 7 of the family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974)] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter. |
| 5 | Family Court Burhanpur. | Burhanpur | <ul style="list-style-type: none"> (i) Limits of Municipality, Burhanpur including Cantonment area, if any (ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Burhanpur); and (iii) Local limits of all such tehsil of the district, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes, covered by Section 7 of the family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974)] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----------------------|----------|--|
| 6 | Family Court Sehore | Sehore | <p>Headquarter.</p> <p>(i) Limits of Municipality, Sehore including Cantonment area, if any</p> <p>(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Sehore); and</p> <p>(iii) Local limits of all such tehsil of the district, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes, covered by Section 7 of the family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974)] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.</p> |
| 7 | Family Court Datia | Datia | <p>(i) Limits of Municipality, Datia including Cantonment area, if any</p> <p>(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Datia); and</p> <p>(iii) Local limits of all such tehsil of the district, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes, covered by Section 7 of the family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974)] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.</p> |
| 8 | Family Court Damoh | Damoh | <p>(i) Limits of Municipality, Damoh including Cantonment area, if any</p> <p>(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Damoh); and</p> <p>(iii) Local limits of all such tehsil of the district, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes, covered by Section 7 of the family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974)] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.</p> |
| 9 | Family Court Shivpuri | Shivpuri | <p>(i) Limits of Municipality, Shivpuri including Cantonment area, if any</p> <p>(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Shivpuri); and</p> <p>(iii) Local limits of all such tehsil of the district, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes, covered by Section 7 of the family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974)] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.</p> |
| 10 | Family Court Anuppur | Anuppur | <p>(i) Limits of Municipality, Anuppur including Cantonment area, if any</p> <p>(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Anuppur and</p> <p>(iii) Local limits of all such tehsil of the district, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes, covered by Section 7 of the family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974)] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.</p> |

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2015

फा. क्र. 17(ई)51-2005-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी श्री रामलाल यादव, अपर जिला न्यायाधीश, मनसा जिला नीमच की सेवाएं अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने हेतु अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है।

फा. क्र. 17(ई)2-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री हौसला प्रसाद सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर की सेवाएं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को सौंपता है।

फा. क्र. 17(ई)28-2008-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री मोहम्मद सच्चिदानन्द अबरार अन्सारी, बाहरवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अमरपाटन जिला सतना की सेवाएं पीठासीन अधिकारी मध्यप्रदेश, वक्फ अधिकरण भोपाल के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग को सौंपता है।

फा. क्र. 17(ई)51-2005-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीण की सेवाएं, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 5-1-2015-उन्नीस(2), दिनांक 1 अप्रैल 2015 द्वारा उनकी नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के फलस्वरूप, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है:—

| | |
|--|---|
| 1. श्री कीर्ति कुमार वर्मा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 2 विद्युत् अधिनियम, 2003 भोपाल. | अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, छिन्दवाड़ा. |
| 2. श्री श्यामाचरण उपाध्यक्ष, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, पिपरिया जिला होशंगाबाद. | अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, रीवा. |
| 3. श्रीमती इन्द्रा सिंह, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, इन्दौर. | अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, खण्डवा. |
| 4. श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, ग्वालियर अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर. | अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर. |

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-975.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहप्रित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार, उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—

| क्र. | नाम | पदनाम/पदस्थापना |
|------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | श्री प्रताप कुमार तिवारी, प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी के स्थान पर. |
| 2 | श्री अखिलेश जोशी, प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शुजालपुर. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर के रिक्त पर. |

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, सचिव।

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्र. 5149-21-अ-वि.स.-2014.—राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 677-क-इक्कीस-अ (वि.स.) दिनांक 9 फरवरी, 2005 के अधीन पुनर्गठित मध्यप्रदेश शासन, हिन्दी विधायी समिति में विधान सभा के दो सदस्य:—

1. श्रीमती अर्चना चिट्ठीनीस, विधायक, बुरहानपुर
2. श्री जयभान सिंह पवैया, विधायक, ग्वालियर
को सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2014

फा. क्र. 1(सी)-13-2012-इक्कीस-ब(दो)संशोधन.—राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अगस्त 2013 द्वारा श्री मनोज द्विवेदी अतिरिक्त महाधिवक्ता उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष लंबित राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण व्यूहो मध्यप्रदेश के दण्डिक प्रकरणों अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विधिवादिक मामलों में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है।

राज्य शासन के उक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अगस्त 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री मनोज द्विवेदी, अतिरिक्त महाधिवक्ता उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर को रुपये 18,000/- प्रतिमाह की दर से पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाता है पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव।

विधि एवं विधायी (निर्वा.) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2015

क्र. 31-1-स्था-2002-2076.—विधायी पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 4 मार्च 2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके सम्मुख दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, के लिये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

| सरल क्रमांक | कर्मचारी का नाम | वर्तमान पद | पदोन्नति के उपरान्त पद का नाम | नवीन पद का वेतनमान |
|----------------|------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | श्री केशव ताम्रकार | सहायक ग्रेड-2 | सहायक ग्रेड-1 | 9300—34800/3200 |
| 2 | श्री सुरेश मुन | सहायक ग्रेड-2 | सहायक ग्रेड-1 | 9300—34800/3200 |
| 3 | श्री ओमप्रकाश आसनानी | सहायक ग्रेड-3 | सहायक ग्रेड-2 | 5200—20200/2400 |
| 4 | श्रीमती सविता महालहा | सहायक ग्रेड-3 | सहायक ग्रेड-2 | 5200—20200/2400 |
| 5 | श्रीमती हर्षा चांदवानी | सहायक ग्रेड-3 | सहायक ग्रेड-2 | 5200—20200/2400 |

इस पदोन्नति में आरक्षण संबंधी प्रचलित नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।

एस. एस. बंसल, सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2015

क्र. एफ 1(ए) 199-91-ब-2-दो.—श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, पी.टी.आर.आई, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 से 25 मार्च 2015 तक, कुल चौदह दिवस का चाईल्ड केयर अवकाश दिनांक 14-15 एवं 21-22 मार्च 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री के. एल. मीणा, भापुसे, महानिदेशक, (विशेष अभियान) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पी.टी.आर.आई, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. एफ-1(ए) 99-08-ब-2-दो.—विधायी समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जनवरी 2015 को निरस्त करते हुए श्री आर. एस. कौल, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक (शिकायत) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक/पुम//1भापुसे/303/2015, दिनांक 13 मार्च 2015 द्वारा स्वीकृत दिनांक 26 मार्च 2015 से 1 अप्रैल 2015 तक, कुल सात दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 28-29 मार्च 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2015 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ (गोवा) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|----------------------|---|-------|
| 1. श्री आर. एस. कौल | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती अनिता कौल | — | पत्नी |
| 3. श्री दुष्यंत कौल | — | पुत्र |
| 4. श्री ऋतिक कौल | — | पुत्र |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री आर. एस. कौल, भापुसे को 07 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

क्र. एफ-1(ए) 251-88-ब-2-दो.—श्री आलोक पटेरिया, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ओएसडी (सुरक्षा एवं समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 6 से 19 फरवरी 2015 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश के उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक पटेरिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ओएसडी (सुरक्षा एवं समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक पटेरिया, उक्त भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1-35-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन (Mid Career Training Programme Phase-III, 2015) मिड-केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस-3, 2015 के प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 9 फरवरी 2015 से 5 मार्च 2015 तक एन.पी.ए. हैदराबाद में तथा दिनांक 9 मार्च 2015 से 13 मार्च 2015 तक आस्ट्रेलिया में निम्नांकित भापुसे, अधिकारियों ने भाग लिया :—

1. श्री बी. पी. चन्द्रवंशी, भापुसे, सेनानी, 32वीं, वाहिनी विसबल, उज्जैन,
2. श्री पी. एस. उर्के, भापुसे, सेनानी 8वीं, वाहिनी, विसबल, छिंदवाड़ा,
3. श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे, सेनानी, 13वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर,
4. अशोक कुमार गोयल, भापुसे, सेनानी, 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर,
5. श्री आर.ए.चौबे, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल,
6. श्री एन. पी. बरकडे, भापुसे, सेनानी, 9वीं, वाहिनी, विसबल, रीवा।

(2) उक्त प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत उक्त भापुसे, अधिकारियों को दिनांक 16 मार्च 2015 से 19 मार्च 2015 तक चार दिवस का अर्जित अवकाश (एक्स इण्डिया लीव्ह) के रूप में दिनांक 14 एवं 15 मार्च 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality) स्वीकार नहीं करेंगे।

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(3) अवकाश से लौटने पर संबंधित भापुसे अधिकारियों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन रूप से उसी पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में संबंधित भापुसे अधिकारियों को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि संबंधित भापुसे, अधिकारी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2015

क्र. एफ-1(ए) 24-98-ब-2-दो.—श्री रघुवीर प्रसाद श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध इंडैर/उज्जैन जोन के अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 18 से 26 दिसम्बर 2014 तक, कुल नौ दिवस लघुकृत अवकाश उपभोग करने के पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री रघुवीर प्रसाद श्रीवास्तव, भापुसे, के अवकाश खाते से 18 दिवस का अर्धवैतनिक (HPL) अवकाश घटाया जायेगा।

(3) अवकाशकाल में श्री रघुवीर प्रसाद श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुवीर प्रसाद श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 400-88-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 मार्च 2015 द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस सुधार) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 4 से 10 अप्रैल 2015 तक, सात दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था।

(2) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, द्वारा उक्त अवकाश का किसी कारणवश लाभ नहीं ले सके अतः स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग न करने के कारण उक्त अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2015

क्र. एफ 1 (बी) 85-2014-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अन्तर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600—39100+5400/-में वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता हैः—

| क्र. | लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुच्य सूची का क्र. | अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता | पदस्थापना कार्यालय/स्थल |
|------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 03 | डॉ. राजीव दुआ, साक्षी नसिंग होम के पास एबी रोड, गुना, म. प्र., 473001. | जिला सीन ऑफ क्राईम मोबाईल यूनिट, राजगढ़. |
| 2 | 05 | डॉ. शर्मिला जैन, द्वारा श्री महावीर प्रसाद जैन, भवन क्र. 6811 वार्ड क्र. 20, गंगा, पब्लिक स्कूल के पास, सब्जी मण्डी रोड, दत्तपुरा, मुरैना म. प्र. 476001 | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर. |
| 3 | 06 | श्री संतोष कुमार गुप्ता, द्वारा प्रो. ए. पी. मिश्रा, रसायन विज्ञान विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर 470003, म. प्र. | क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल |
| 4 | 07 | श्रीमती नीता जैन, द्वारा श्री मंयक जैन, 425 संजीवनी नगर, गढ़ा, जबलपुर, म. प्र., 482002. | जिला सीन ऑफ क्राईम मोबाईल यूनिट, जबलपुर |
| 5 | 08 | डॉ. सिद्धि निगम, 429, सुरेश नगर, थाटीपुर, ग्वालियर म. प्र. 474011 | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर |
| 6 | 10 | श्रीमती अर्चना चतुर्वेदी, द्वारा श्री प्रद्युम्न चतुर्वेदी, श्रीराम आदर्श विद्यालय, शहीद वार्ड, कटंगी नाका के पास, जिला सिवनी, म.प्र., 480661. | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर |
| 7 | 14 | डॉ प्रिंस अजय सोनी, न्यू कालोनी न.1/224, बिरला नगर, ग्वालियर, म.प्र., 474004. | जिला सीन ऑफ क्राईम मोबाईल यूनिट, भिण्ड |
| 8 | 15 | डॉ माना पीपडा, 1- आनंद मंगल आपटमेंट, राजपूत बोडिंग केम्पस, रतलाम, म.प्र., 457001. | क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|--|---|
| 9 | 18 | कु. उमा एम भालेराव, रुम नं. 103, जेआरएफ, हॉस्टल, रक्षा विहार, अपोजिट तरण पुस्कर, नियर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, म.प्र., 474002 | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर |
| 10 | 24 | श्री संदीप कुमार मोर्य, मकान नं. 14/19 सदर बाजार, सागर म.प्र., 470002 | जिला सीन ऑफ क्राईम मोबाइल यूनिट, टीकमगढ़ |
| 11 | 27 | डॉ हरी सिंह बरहादिया, 705, चूू मेहरा कालोनी, ट्रान्सफार्मर के पास, मेहरा गांव रोड, ठाठीपुर मुरार, जिला ग्वालियर, म. प्र. 474011 | जिला सीन ऑफ क्राईम मोबाइल यूनिट, शिवपुरी |
| 12 | 28 | डॉ राजेन्द्र कुमार चौखारे द्वारा श्री राधेश्याम गोयल (शिक्षक) पलासिया रोड, गुलझरा, तहसील धरमपुरी, जिला धार म. प्र. 454552 | जिला सीन ऑफ क्राईम मोबाइल यूनिट, मन्दसौर |
| 13 | 29 | श्री प्रमोद कुमार, द्वारा श्री रामसेवक अनिल, गली नं. 4, सिद्धेश्वर नगर, मुरार ग्वालियर, म. प्र. 474006 | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर |
| 14 | 30 | डॉ विकास मुजाल्दा, ग्राम एवं पोस्ट नर्मदा नगर, तहसील कुक्शी, जिला धार, म. प्र. 454335 | जिला सीन ऑफ क्राईम मोबाइल यूनिट, खण्डवा |
| 15 | 33 | श्री सुनील मकवाने, 07, भाभा छात्रावास, डॉ. हरिसिंह गौर, विश्वविद्यालय, सागर, म. प्र. 470003 | जिला सीन ऑफ क्राईम मोबाइल यूनिट, खरगौन |

2. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

3. नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1993 से शासित होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्रे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे।

4. नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

7. परीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक “बाण्ड” शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

9. प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

10. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृष्ठियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

क्र. एफ 1 (बी) 84-2014-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अन्तर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रूपये 15600—39100+5400/-में वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है।

| क्र. | लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र. | अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता | पदस्थापना कार्यालय/स्थल क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल |
|------|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 03 | श्री सतीश कुमार, रमन लेब, यूजीसी-डीएई कॉनशोरटियम फॉर सार्विन्फिक रिसर्ज, डीएबीवी केम्पस, खण्डवा रोड, इंदौर, म. प्र., 452001 | क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल |
| 2 | 11 | श्री नितेन्द्र कुमार गौतम, द्वारा प्रो. मीरा रामरख्यानी, विभागाध्यक्ष, भौतिक शास्त्र विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, म. प्र., 482001 | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर |
| 3 | 13 | कु. पूनम सिंह, पुत्री श्री हेमन्त सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल कोर्ट, देपालपुर, जिला इंदौर, म. प्र. | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|---|---|
| 4 | 15 | श्रीमती श्वेता पाटनकर, 234, ब्रह्मपुरी कालोनी, भोलाराम उस्ताद मार्ग के पास, भैंवरकुआँ, इन्दौर, म. प्र. 452001 | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर |
| 5 | 16 | सुश्री वैशाली वैद्य, 15/19, अम्बर कालोनी, यंत्र महल मार्ग, उज्जैन, म. प्र. 456010. | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर |
| 6 | 19 | श्री निलेश निमजे, सी-10/01, सार्थक नगर, सॉवेर रोड, उज्जैन, म. प्र. 456010. | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर |
| 7 | 21 | श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित, शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, राघौगढ़, ए.बी. रोड, पगारा के पास, राघौगढ़, जिला गुना-473226 (म.प्र.) | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर |
| 8 | 22 | श्री कैलाश चन्द्र ए-7/11, ऋषि नगर, उज्जैन-456010 (म.प्र.) | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर |
| 9 | 23 | श्री प्रदीप कुमार अहिरवाल, पुत्र श्री कैलाश प्रसाद अहिरवाल, कछियाना मोहल्ला, नया बाजार, न. 05, दमोह-470661 (म.प्र.) | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर |
| 10 | 25 | डॉ. प्रीति गायकवाड़, 110/1, नार्थ मूसाखेड़ी मेन रोड, इन्दौर 456002(म.प्र.). | वैज्ञानिक अधिकारी, जिला सीन ऑफ क्राईम मोबाइल यूनिट, देवास. |

2. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

3. नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्ति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1993 से शासित होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्रे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे।

4. नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

7. परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक “बाण्ड” शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

9. प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

10. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृष्ठाओं रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

क्र. एफ 1 (बी) 83-2014-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अन्तर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रूपये 15600—39100+5400/-में वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के पद पर उनके नाम के समुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है।

| क्र. | लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र. | अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता | पदस्थापना कार्यालय/स्थल |
|------|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 02 | श्रीमती नीलू जैन, एलआईजी 35, सेक्टर बी, सोनागिरी, भोपाल, म. प्र., 462022 | क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल |
| 2 | 03 | डॉ. ज्योति तामसीकर, 10/12/पी-71 न्यू, रामनगर, आधारताल, जबलपुर, म. प्र., 482004. | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर |
| 3 | 05 | श्री प्रवीश भाटी, द्वारा श्री दिनेश भाटी, गुर्जर गौड धर्मशाला के पीछे, झरन कालोनी, ऊर्दूपुरा, उज्जैन, म. प्र., 456006 | राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर |
| 4 | 08 | श्रीमती अनुभा गांग, 61 छोटा सराफा, रामचन्द्र सेठ की गली, उज्जैन, म. प्र., 456006 | क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर |
| 5 | 22 | श्री पवन कुमार चौहान, | क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|--|---|
| | | 135, एमबी नगर, कस्तूरबा नगर, गली नं. 6 के पास रतलाम, म. प्र., 457001 | |
| 6 | 34 | श्री दिलीप कुमार एस्के, ग्राम बैलाली, पोस्ट लुनहेरा बुजुर्ग, तहसील मनावर, जिला धार, म. प्र. 454449 | क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, ग्वालियर |

2. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 4 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्त आदेय निरस्त माना जायेगा।

3. नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता पदोन्तति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1993 से शासित होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्रे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे।

4. नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

7. परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक “बाण्ड” शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

9. प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

10. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृष्ठाओं रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्र. एफ 5-4-2013-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की संख्यांक 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों, जिनकी सेवायें माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा दिनांक 20 मार्च, 2015 तथा विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 17 (ई) 51-05-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 24 मार्च, 2015 द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है, को चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

| क्र. | न्यायिक अधिकारी का नाम | पदस्थापन स्थान |
|------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | श्री कीर्ति कुमार वर्मा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 2, विद्युत् अधिनियम, 2003 भोपाल. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, छिन्दवाड़ा. |
| 2 | श्री श्यामाचरण उपाध्याय, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, पिपरिया, जिला होशंगाबाद. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रीवा. |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|---|
| 3 | श्रीमती इन्द्रा सिंह, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, इदौर. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता भोपाल, खण्डवा. |
| 4 | श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, ग्यारहवें अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्द्रेल, उपसचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2015

क्र. एफ-03-36-2006-3-जेल.—राज्य शासन, प्रिजन्स एक्स, 1894 की धारा 3 (1) सहपठित धारा 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चतुर्थ चरण में जिला मुख्यालय स्थित उप जेल अशोकनगर, श्योपुर, बैड़न (सिंगरौली), उमरिया, हरदा एवं डिण्डौरी को उन्नयन कर जिला जेल के समकक्ष घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रेमचन्द्र मीना, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 13 फरवरी 2015

क्र. 1473-जीएडी-2015.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-04 के पैरा 05 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक-एम-3-2-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हए, मैं, नीरज दुबे, कलेक्टर, जिला खरगोन वर्ष 2015 के लिये खरगोन जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार दर्शाई गई तिथियों में तीन स्थानीय अवकाश (LOCAL HOLIDAY) घोषित करता हूँ:—

| क्रमांक | दिनांक | वार | पर्व | अवधि | क्षेत्र |
|---------|------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 10-3-2015 | मंगलवार | रंगपंचमी | पूर्ण दिवस | सम्पूर्ण जिला |
| 2 | 19-8-2015 | बुधवार | नागपंचमी | पूर्ण दिवस | तहसील महेश्वर को छोड़कर सम्पूर्ण जिला |
| 3 | 12-9-2015 | शनिवार | अहिल्या उत्सव | पूर्ण दिवस | केवल तहसील महेश्वर के लिये |
| 4 | 13-11-2015 | शुक्रवार | भाई दूज | पूर्ण दिवस | सम्पूर्ण जिला |

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे।

नीरज दुबे, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 20 मार्च 2015

क्र. क्यू-स्टेना-एडीएम-124-2015.—दिनांक 10 फरवरी 2015 को क्षेत्रीय पार्षद वार्ड 47 श्रीमती अनीता जगराम सिंह सहित अन्य आरा मिल निवासीगण, जिला ग्वालियर द्वारा एक आवेदन-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आरामिल रोड से सीमेन्ट के 10 चक्का भारी वाहन के निकलने से प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें रोके जाने संबंधी आदेश प्रसारित करें।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के संबंध में उप पुलिस अधीक्षक यातायात, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से प्रतिवेदन बुलाया गया, जो क्रमशः उनके पत्र दिनांक 10 मार्च 2015, 20 फरवरी 2015 से प्राप्त हुआ।

उक्त प्राप्त प्रतिवेदनों में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लिखित तथ्यों से सहमत होते हुए आरामिल रोड से 10 चक्का भारी वाहनों का परिवहन प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाने तथा सीमेन्ट लेकर जाने वाले वाहनों को कांच मिल, बिरला नगर होकर पुरानी छावनी मार्ग से निकाले जाने संबंधी प्रस्ताव प्रेषित किये गये।

अतः, मैं, पी. नरहरि, जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर उक्त प्रतिवेदनों से सहमत होते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115, 116 (1) (ख) एवं मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 एवं 216 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यातायात के बढ़ते दबाव के कारण सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आरामिल रोड से 10 चक्का भारी वाहनों का परिवहन प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित (Prohibit) करता हूं तथा सीमेन्ट लेकर जाने वाले वाहनों का आवागमन कांच मिल, बिरला नगर होकर पुरानी छावनी मार्ग से किया जावे, गोले के मंदिर मार्ग का उपयोग पूर्ववत् प्रतिबंधित रहेगा, संबंधी आदेश देता हूं।

उक्तादेश के होते हुए भी किसी विशेष परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता या अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति प्रदाय की जा सकेगी।

पी. नरहरि, जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.), जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश
टीकमगढ़, दिनांक 27 मार्च 2015

क्र. 2533 मंडी निर्वा. 2015.—जिले की कृषि उपज मंडी समिति टीकमगढ़ के लिये दिनांक 07 जनवरी 2013 को आयोजित प्रथम सम्मेलन में अध्यक्ष पद पर श्रीमती जमुना बाई तिवारी, निवासी मौखरा, तहसील व जिला टीकमगढ़ को निर्वाचित घोषित करने उपरांत उक्त निर्वाचन के विरुद्ध श्री सूर्यप्रकाश मिश्रा नि. पुराना डाकखाना तहसील व जिला टीकमगढ़ के द्वारा न्यायालय कमिशनर सागर संभाग सागर के समक्ष निर्वाचन याचिका दायर की गई। न्यायालय कमिशनर सागर, संभाग सागर के याचिका प्रकरण क्रमांक 82-बी-121-12-13 में पारित आदेश दिनांक 24 जनवरी 2015 के द्वारा प्रति याचिकाकर्ता क्र. 1 श्रीमती जमुनाबाई तिवारी का कृषि उपज मंडी समिति 186-टीकमगढ़ का अध्यक्ष के पद पर हुआ निर्वाचन निरस्त/अपास्त (शून्य) घोषित करते हुये याचिकाकर्ता श्री सूर्यप्रकाश मिश्रा को कृषि उपज मंडी समिति 186-टीकमगढ़ का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है।

अतः, न्यायालय कमिशनर, सागर संभाग सागर के आदेश दिनांक 24 जनवरी 2015 अनुसार कृषि उपज मंडी समिति के लिये स्तम्भ क्र. (3) में उल्लेखित दिनांक से स्तम्भ क्र. (4) में अंकित अध्यक्ष पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित हुए हैं। अतः, मैं, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 12 (9) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम 1997 के नियम 84 (20) के अनुसरण में पद भार ग्रहण करने के दिनांक 06 फरवरी 2015 से माननीय न्यायालय कमिशनर सागर के आदेश के परिपालन में मंडी अधिनियम की धारा 13 (5) के अधीन अपने पूर्ववर्ती की अवधि के अन्वसित भाग के लिए श्री सूर्यप्रकाश मिश्रा को कृषि उपज मंडी समिति टीकमगढ़ के अध्यक्ष के लिए एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये पद भार ग्रहण करने के दिनांक से अधिसूचित करता हूं।

| क्रमांक | कृषि उपज मंडी समिति का क्रमांक एवं नाम | पदभार ग्रहण करने का दिनांक | अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम व पता |
|---------|---|-------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 186-टीकमगढ़ | 6-2-2015 | श्री सूर्य प्रकाश मिश्रा, नि. पुराना डाकखाना तह. व जिला टीकमगढ़। |

केदार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (मण्डी निर्वा.).

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
खरगोन, दिनांक 4 अप्रैल 2015

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिये]

क्र. 01-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|-------------------------------|--------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | बालाबाद /17 | 16/1 | 0.955 |
| | | | 17 | 1.580 |
| | | | 19 | 0.782 |
| | | | 20 | 0.579 |
| | | | 21 | 0.121 |
| | | | 71/2 | 0.016 |
| | | | 73 | 0.145 |
| | | | 74 | 0.016 |
| | | | 75/1 | 0.097 |
| | | | 75/2 | 0.097 |
| | | | 76/1 | 0.194 |
| | | | 76/2 | 0.061 |
| | | | 95/1 | 0.437 |
| | | | 95/2 | 0.008 |
| | | | 107/3 | 0.121 |
| | | | 108/1 | 0.283 |
| | | | 108/2 | 0.235 |
| | | | 108/3 | 0.024 |
| | | | 109/1 | 0.016 |
| | | | योग . . | 5.767 |

प्रस्तुति-ख

क्र. 02-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|-------------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | आरसी/12 | 353/2 353/3 354/1 354/2 355/2 355/3 377/3 377/4 379/1 379/2 379/3 380/1 | 0.008 0.162 0.332 0.389 0.178 0.355 0.462 0.097 0.461 0.101 0.012 0.036 |
| | | | | योग . . |
| | | | | 2.593 |

प्रस्तुति-ख

क्र. 03-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के लिए अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|---------------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | दाभड़ / 19 | 71 110 111 113/3 126/1 129/2 133/2 133/3 135/1 135/4 145 146/2 150/2 150/3 151/1 165 174/3 176/1 176/2 177/2 177/5 | 0.324 0.567 0.049 0.016 0.316 0.304 0.049 0.599 0.105 0.210 0.227 0.162 0.364 0.247 0.450 0.130 0.534 0.186 0.089 0.085 0.308 |
| | | | योग . . | 5.321 |

प्रस्तुप-ख

क्र. 04-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के लिए अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|---------------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | बेडिया / 21 | 545/2 588/2 590 591 597 598/1 626/1 626/2 628 630 631/3 639 640/1 640/2 643 644 645/1 645/2 648/1 648/2 | 0.072 0.494 0.405 0.178 0.405 0.105 0.461 0.008 0.324 0.259 0.105 0.004 0.332 0.041 0.162 0.389 0.081 0.028 0.182 0.178 |
| | | | | योग . . 4.213 |

प्रस्तुप-ख

क्र. 05-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध

में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|---------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | बागदा बुजुर्ग/24 | 7/1 7/2 8/1 8/4 11/3 12/1 17/2 17/3 18/1 31 32/1 33 34/1 34/2 34/3 34/4 48 49 50 53/3 78/3 80/1 81/1, 80/2 81/2 82 83 84/1 84/2 84/3 85 89 91 95 202/2 212/1 212/5 | 0.154 0.117 0.024 0.344 0.012 0.072 0.316 0.072 0.032 0.008 0.364 0.300 0.036 0.016 0.008 0.004 0.235 0.300 0.146 0.113 0.041 0.197 0.130 0.130 0.097 0.008 0.105 0.146 0.178 0.008 0.032 0.340 0.008 0.619 0.016 0.243 |
| | | | योग . . | 4.971 |

प्ररूप-ख

क्र. 06-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|-------------------------------|--------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | लछोरा/19 | 3 | 0.498 |
| | | | 8 | 0.332 |
| | | | 9 | 0.243 |
| | | | 10/1 | 0.146 |
| | | | 10/2 | 0.202 |
| | | | 24/2 | 0.397 |
| | | | 24/4 | 0.308 |
| | | | 25/1 | 0.101 |
| | | | 25/3 | 0.635 |
| | | | योग . . | <u>2.862</u> |

प्ररूप-ख

क्र. 07-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

| अनुसूची | | | | |
|---------|-------|---------------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | बागदा खुर्द/23 | 15/1 15/2 15/3 66 69/1 69/2 69/3 69/4 69/5 69/6 69/7 69/9 | 0.259 0.259 0.486 0.024 0.235 0.041 0.340 0.004 0.283 0.130 0.251 0.097 |
| | | | | योग . . 2.409 |

प्ररूप-ख

क्र. 08-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ऑकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

| अनुसूची | | | | |
|---------|-------|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | गोराड़िया/26 | 4 7/7 8/1 8/2 8/3 9/1 | 0.490 0.263 0.344 0.202 0.073 0.130 |
| | | | | योग . . 1.502 |

प्ररूप-ख

क्र. 09-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|-------------------------------|--------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | मोखनगांव/31 | 31 | 0.126 |
| | | | 43 | 0.024 |
| | | | 45/1 | 0.599 |
| | | | 47 | 0.397 |
| | | | 49/1 | 0.004 |
| | | | 49/3 | 0.131 |
| | | | 49/4 | 0.089 |
| | | | 49/5 | 0.008 |
| | | | 50/1 | 0.089 |
| | | | 77 | 0.032 |
| | | | 78/2 | 0.154 |
| | | | 78/3 | 0.178 |
| | | | 78/4 | 0.138 |
| | | | 78/5 | 0.182 |
| | | | 78/7 | 0.121 |
| | | | 78/8 | 0.251 |
| | | | 103/1 | 0.008 |
| | | | 103/3 | 0.567 |
| | | | 103/4 | 0.008 |
| | | | 110/4 | 0.219 |
| | | | 110/5 | 0.097 |
| | | | 110/8 | 0.097 |
| | | | 110/9 | 0.097 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------|-------|-------------|---------|-------|
| खरगोन | सनावद | मोखनगांव/31 | 110/10 | 0.202 |
| | | | 110/11 | 0.121 |
| | | | 110/12 | 0.109 |
| | | | 110/13 | 0.089 |
| | | | 117/2 | 0.680 |
| | | | 123 | 0.130 |
| | | | 124/1 | 0.065 |
| | | | 124/2 | 0.081 |
| | | | 126 | 0.065 |
| | | | 127 | 0.024 |
| | | | 128/1 | 0.210 |
| | | | 128/2 | 0.154 |
| | | | 140/10 | 0.024 |
| | | | 142/1 | 0.154 |
| | | | 142/2 | 0.130 |
| | | | 142/3 | 0.121 |
| | | | 142/4 | 0.065 |
| | | | 142/5 | 0.008 |
| | | | योग . . | 6.048 |

प्ररूप-ख

क्र. 10-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ऑंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|---------------------------------|--------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | बिराली/30 | 7 | 0.340 |
| | | | 8/1 | 0.340 |
| | | | 9 | 0.081 |
| | | | 12/2 | 0.178 |
| | | | 13/1 | 0.348 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------|-------|-----------|--------------|-----|
| खरगोन | सनावद | बिराली/30 | | |
| | | 17/1 | 0.425 | |
| | | 19/1 | 0.008 | |
| | | 166/2 | 0.036 | |
| | | 166/3 | 0.057 | |
| | | 166/8 | 0.008 | |
| | | 166/10 | 0.101 | |
| | | 166/11 | 0.198 | |
| | | 166/12 | 0.138 | |
| | | 166/13 | 0.138 | |
| | | 167/2 | 0.304 | |
| | | 171/1 | 0.142 | |
| | | 171/2 | 0.178 | |
| | | 173/1 | 0.061 | |
| | | 173/2 | 0.109 | |
| | | 173/4 | 0.057 | |
| | | 173/12 | 0.061 | |
| | | 174/3 | 0.020 | |
| | | 174/4 | 0.069 | |
| | | 176/1 | 0.615 | |
| | | 176/3 | 0.057 | |
| | | 187 | 0.728 | |
| | | योग . . | <u>4.797</u> | |

प्ररूप-ख

क्र. 11-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ऑकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि द्वितब्द्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|---------------------------------|--------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | ढकलगांव/40 | 31/1 | 0.291 |
| | | | 31/2 | 0.279 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------|-------|------------|-------|-----|
| खरगोन | सनावद | ढकलगांव/40 | | |
| | | 35/1 | 0.413 | |
| | | 37 | 0.429 | |
| | | 38/3 | 0.142 | |
| | | 40 | 0.283 | |
| | | 41, 42 | 0.251 | |
| | | 43/1 | 0.267 | |
| | | 43/2 | 0.150 | |
| | | 43/4 | 0.162 | |
| | | 44/2 | 0.259 | |
| | | 44/5 | 0.304 | |
| | | 47 | 0.040 | |
| | | 48 | 0.121 | |
| | | 49 | 0.049 | |
| | | 81/1 | 0.032 | |
| | | 81/2 | 0.332 | |
| | | 81/4 | 0.008 | |
| | | 81/5 | 0.012 | |
| | | 82/2 | 0.030 | |
| | | 82/3 | 0.089 | |
| | | 83/1 | 0.356 | |
| | | 83/6 | 0.142 | |
| | | 83/13 | 0.121 | |
| | | 83/14 | 0.030 | |
| | | 84/2 | 0.002 | |
| | | 85/2 | 0.280 | |
| | | 85/5 | 0.238 | |
| | | 130 | 0.020 | |
| | | 131 | 0.210 | |
| | | 132/1 | 0.291 | |
| | | 132/2 | 0.190 | |
| | | 133/2 | 0.227 | |
| | | 133/3 | 0.130 | |
| | | 135/1 | 0.255 | |
| | | 135/2 | 0.073 | |
| | | 137 | 0.130 | |
| | | 514/1 | 0.162 | |
| | | 514/2 | 0.121 | |
| | | 514/3 | 0.105 | |
| | | 515/1 | 0.041 | |
| | | 518/1 | 0.065 | |
| | | 520 | 0.030 | |
| | | 523/2 | 0.113 | |
| | | 524/1 | 0.097 | |
| | | 524/2 | 0.097 | |

| (1) खरगोन | (2) सनावद | (3) ढकलगांव/40 | (4) | (5) |
|--------------|--------------|-------------------|---------------|-----|
| | | 529/4, 529/5 | 0.202 | |
| | | 529/6 | 0.097 | |
| | | 529/7 | 0.020 | |
| | | 530 | 0.283 | |
| | | 534 | 0.290 | |
| | | 973/1 | 0.182 | |
| | | 973/2 | 0.186 | |
| | | 973/5 | 0.130 | |
| | | 974/4 | 0.049 | |
| | | 974/5 | 0.178 | |
| | | 974/6 | 0.049 | |
| | | 974/8 | 0.065 | |
| | | 974/9 | 0.130 | |
| | | 988/2 | 0.178 | |
| | | 988/4 | 0.166 | |
| | | 988/8 | 0.154 | |
| | | 988/9 | 0.352 | |
| | | 988/10 | 0.008 | |
| | | 1035/1 | 0.372 | |
| | | 1035/3 | 0.389 | |
| | | 1035/8 | 0.117 | |
| | | 1053/1 | 0.121 | |
| | | 1053/2 | 0.089 | |
| | | 1053/4 | 0.020 | |
| | | 1053/6 | 0.146 | |
| | | 1056/1 | 0.219 | |
| | | 1056/3 | 0.113 | |
| | | 1057/1 | 0.069 | |
| | | 1058/1 | 0.072 | |
| | | 1074 | 0.360 | |
| | | 1076/2 | 0.429 | |
| | | 1076/9 | 0.004 | |
| | | 1077/1 | 0.235 | |
| | | 1077/2 | 0.024 | |
| | | 1082/1 | 0.251 | |
| | | 1082/7 | 0.162 | |
| | | 1082/8 | 0.097 | |
| | | योग . . | <u>13.477</u> | |

प्ररूप-ख

क्र. 12-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|---------------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | रुखड़ी/40 | 90/1 90/2 90/4 90/5 90/8 90/9 90/10 90/11 90/19 99/1 99/2 99/7 99/9 104 105 106/2 | 0.202 0.061 0.134 0.036 0.223 0.250 0.280 0.340 0.240 0.097 0.202 0.263 0.162 0.016 0.350 0.532 |
| | | | योग . . | 3.388 |

प्ररूप-ख

क्र. 13-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध

में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|---------------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | बांसवा/47 | 5/1 6/1 7/1 7/2 72 73/1 73/3 73/4 73/6 74/1 113/1 114/1 | 0.304 0.089 0.065 0.453 0.186 0.186 0.113 0.089 0.020 0.032 0.494 0.024 |
| | | | | योग . . |
| | | | | 2.055 |

प्ररूप-ख

क्र. 14-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|---------------------------------|--------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | भोकर/49 | 9 12/2 | 0.162 0.223 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|-----|-----|---------|--------------|
| | | | 12/3 | 0.202 |
| | | | 12/6 | 0235 |
| | | | 15/1 | 0.368 |
| | | | 15/3 | 0.105 |
| | | | 16 | 0.708 |
| | | | 27/2 | 0.016 |
| | | | 39/2 | 0.121 |
| | | | 39/6 | 0.295 |
| | | | 40 | 0.250 |
| | | | 42 | 0.223 |
| | | | 43/1 | 0.316 |
| | | | 43/2 | 0.174 |
| | | | योग . . | <u>3.398</u> |

प्ररूप-ख

क्र. 15-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|---------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | खनगांव/47 | 63/1 63/13 63/14 63/15 64 65/1 65/3 | 0.020 0.072 0.081 0.130 0.036 0.223 0.283 |
| | | | योग . . | <u>0.845</u> |

प्ररूप-ख

क्र. 16-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है,

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|---------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | खेड़ी/47 | 107/4 107/5 108/4 108/5 110 | 0.113 0.004 0.085 0.113 0.113 <hr/> योग . . 0.428 |

प्ररूप-ख

क्र. 17-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|---------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | बावनी/49 | 1/1 1/2 3 4 5 11/1 11/2 13/1 | 0.416 0.499 0.143 0.048 0.024 0.107 0.356 0.249 योग . . . 1.842 |

प्ररूप-ख

क्र. 18-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं, डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|---------------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | जुनापानी/46 | 49/4 52/1 53/6 54/2 54/3 54/4 59/1 59/2 | 0.004 0.340 0.324 0.386 0.243 0.162 0.130 0.308 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------|-------|-------------|---------|-------|
| खरगोन | सनावद | जुनापानी/46 | 61/2 | 0.093 |
| | | | 62 | 0.194 |
| | | | 63/1 | 0.004 |
| | | | 63/2 | 0.105 |
| | | | 65/1 | 0.243 |
| | | | 67/1 | 0.072 |
| | | | 67/2 | 0.049 |
| | | | 67/3 | 0.057 |
| | | | 67/4 | 0.049 |
| | | | 69/2 | 0.008 |
| | | | 70 | 0.267 |
| | | | 74/1 | 0.247 |
| | | | 75/1 | 0.210 |
| | | | 75/5 | 0.016 |
| | | | 75/6 | 0.210 |
| | | | 84/2 | 0.202 |
| | | | 84/3 | 0.243 |
| | | | 84/4 | 0.291 |
| | | | 85/3 | 0.356 |
| | | | 93/1 | 0.097 |
| | | | 93/19 | 0.041 |
| | | | 93/2 | 0.008 |
| | | | 93/3 | 0.032 |
| | | | 104/1 | 0.056 |
| | | | 104/2 | 0.186 |
| | | | 104/3 | 0.146 |
| | | | 105/1 | 0.182 |
| | | | 105/2 | 0.162 |
| | | | 105/3 | 0.138 |
| | | | 105/4 | 0.210 |
| | | | 105/5 | 0.138 |
| | | | 106/3 | 0.024 |
| | | | 107/3 | 0.170 |
| | | | 108/1 | 0.008 |
| | | | 108/2 | 0.336 |
| | | | 109/2 | 0.041 |
| | | | 115/4 | 0.182 |
| | | | 119 | 0.021 |
| | | | 120/1 | 0.235 |
| | | | 120/2 | 0.008 |
| | | | 121/1 | 0.364 |
| | | | 121/4 | 0.053 |
| | | | 122/2 | 0.267 |
| | | | 155/3 | 0.016 |
| | | | योग . . | 7.934 |

प्रस्तुति—ख

क्र. 19-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़वाह जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|---------------------------------|--------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | राजपुरा/43 | 17 | 0.579 |
| | | | 31 | 0.049 |
| | | | 32/3 | 0.951 |
| | | | 32/4 | 0.016 |
| | | | 33 | 0.049 |
| | | | 83/5 | 0.004 |
| | | | 83/6 | 0.300 |
| | | | 92/2 | 0.105 |
| | | | 92/3 | 0.105 |
| | | | 92/4 | 0.105 |
| | | | 93/1 | 0.072 |
| | | | 93/3 | 0.089 |
| | | | 93/4 | 0.113 |
| | | | 93/5 | 0.130 |
| | | | 93/6 | 0.130 |
| | | | 93/7 | 0.130 |
| | | | 93/8 | 0.008 |
| | | | 94/8 | 0.057 |
| | | | 97/36 | 0.020 |
| | | | 98/2 | 0.388 |
| | | | 98/3 | 0.243 |
| | | | 99/1 | 0.089 |
| | | | 99/2 | 0.550 |
| | | | 100/1 | 0.170 |
| | | | योग . . | 4.452 |

प्रस्तुति-ख

क्र. 20-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ऑकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़वाह जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|---------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | अंजरूद/44 | 38/1 39 41/1 45 46 47 220/1 221/1 221/2 238/3 239/1 239/2 242 243/1 245/1 245/2 250 | 0.210 0.072 0.263 0.049 0.202 0.081 0.332 0.174 0.062 0.656 0.469 0.437 0.004 0.437 0.008 0.069 0.227 |
| | | | योग . . | 3.752 |

प्रस्तुति-ख

क्र. 21-अ-82-14-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ऑकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़वाह जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) |
|-------|-------|---------------------------------|--------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| खरगोन | सनावद | भोकरिया/44 | 10 | 0.445 |
| | | | 11 | 0.275 |
| | | | 15/2 | 0.243 |
| | | | 15/3 | 0.202 |
| | | | 16/2 | 0.186 |
| | | | 16/3 | 0.332 |
| | | | 16/4 | 0.227 |
| | | | 17/3 | 0.008 |
| | | | 21/3 | 0.243 |
| | | | 21/4 | 0.020 |
| | | | 22/1 | 0.210 |
| | | | 22/2 | 0.121 |
| | | | 22/3 | 0.243 |
| | | | 24/1 | 0.008 |
| | | | 24/2 | 0.073 |
| | | | 24/3 | 0.069 |
| | | | 24/5 | 0.016 |
| | | | 24/6 | 0.130 |
| | | | 25 | 0.291 |
| | | | 26/1 | 0.121 |
| | | | 26/2 | 0.097 |
| | | | योग . . | 3.560 |

सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

क्रमांक ४५० · २३-०२/२०१५/सा०/१९ मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 12 (१) के निबंधनों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निम्न अनुसूची के खण्ड-अ में वर्णित राजमार्ग के लिए खण्ड-ब में अंकित भूमि विवरण के अनुरूप भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखा की अधिसूचना जारी किया जाना प्रस्तावित है :-

I)

“खण्ड-अ”

| अ. क्र. | अधिसूचित मार्ग का नाम | सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में) | राजमार्ग में आने वाले जिले |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | टीकमगढ़ - शाहगढ़ मार्ग राज्य मार्ग - 37 | 27.00 | टीकमगढ़ |

खण्ड-“ब”

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|---------|---------|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ फिला | 2047, 2001, 1999, 1998, 1865, 1861, 1857, 1856, 1816, 1814, 2002, 2004, 2047, 2048, 2108, 2096, 2113, 2113/3, 2113 | 2047, 2001, 1999, 1998, 1865, 1861, 1857, 1856, 1816, 1814, 2002, 2004, 2047, 2048, 2108, 2096, 2113, 2113/3, 2113, 1846, 2812, 1847, 2007, 2002, 2004, 2012, 2042, 2044, 2100, 2098, 2107, 2097, 2094, 2113/1 |
| टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ ताल | 83/1, 82/3, 75, 74, 73, 70, 69, 48/2, 48/1, 47/2, 47/1, 45, 44, 42, 43, 37, 36, 35, 2200, 32, 26, 25, 23, 82/3, 83, 81/1, 84, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 261, 262/2, 264, 271, 270, 277, 305, 262/1 | 83/1, 82/3, 75, 74, 73, 70, 69, 48/2, 48/1, 47/2, 47/1, 45, 44, 42, 43, 37, 36, 35, 2200, 32, 26, 25, 23, 82/3, 83, 81/1, 84, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 261, 262/2, 264, 271, 270, 277, 305, 262/1, 31, 66, 77, 53, 52, 49/2, 50, 41, 39, 38, 2210, 265, 266, 269, 267, 7, 6, 79, 98, 102, 267, 261, 307, 308 |
| टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | माडूमरखास | 1/1/1, 1/1/2, 1/2, 1/3, 2/3, 186, 187, 188, 194, 2/5/2/2, 190, 192, 193, 194, 198, 199, 200, 215, 214, 216, 213, 217, 321, 3210, 323, 324, 476, 477, 479, 480, 481, 4880, 486, 937/2, 938/2, 938/1, 940, 941, 942, 943, 944, 947, 9450 | 1/1/1, 1/1/2, 1/2, 1/3, 2/3, 186, 187, 188, 194, 2/5/2/2, 190, 192, 193, 194, 198, 199, 200, 215, 214, 216, 213, 217, 321, 3210, 323, 324, 476, 477, 479, 480, 481, 4880, 486, 937/2, 938/2, 938/1, 940, 941, 942, 943, 944, 947, 9450201, 208, 209, 487, 486, , 937/2, 938/2, 935, 933, 94/976/2, |
| टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | माडूमर भाट | 14, 15, 13, 12, 11, 5, 4, 3, 2, 10, 44, 30, 2900, 25, 22, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 15, 8, 7, 5, 44, 30, 23, 290, , 31, 37, 39, 42, 43, 45, 76, 49, 50, 49, , 54, 58 | 14, 15, 13, 12, 11, 5, 4, 3, 2, 10, 44, 30, 2900, 25, 22, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 15, 8, 7, 5, 44, 30, 23, 290, , 31, 37, 39, 42, 43, 45, 76, 49, 50, 49, , 54, 58 |
| टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | पठा खास | 605, 606, 614, 615, 616, 618, 619, 620, 623, 624, 625/3, 625/2, 625/1, 514, 512, 510, 508, 505, 501, 500, 628, 702, 632, 631, 635, 637, 638, 636, 472, 473, 474/1, 481, 482, 1167, 1166, 1253, 1257, 1270, | 605, 606, 614, 615, 616, 618, 619, 620, 623, 624, 625/3, 625/2, 625/1, 514, 512, 510, 508, 505, 501, 500, 628, 702, 632, 631, 635, 637, 638, 636, 472, 473, 474/1, 481, 482, 1167, 1166, 1253, 1257, 1270, 1149, 1154, 1157, 1156, 1159, 1161, |

| जिला | तहसील | ग्राम | मवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|---------|---------|-----------|---|---|
| | | | 1149, 1154, 1157, 1156, 1159, 1161, 1162, 1163, 1165, 1132, 486, 487, 488, 489, 493, 496, 497, 498, 705/3, 703/3, 1143, 1142, 1114, 1113, 1112, 1107, 1104, 1053, 1051, 1039, 1166, 1253, 1257, 1270, 1266, 1276, 1275, 1281, 1283, 1286, 1287, 1288, 1291/1, 1295, 1298, 1299, 1303, 1304, 1291/1, 1295, 1301, 1302, 507, 596, 702, 706/2, 716, 717, 1136, 1173, 1170, 1172, 1180, 1182, 1183, 1186, 1101, 1108, 1100, 1249, 1306, 1305 | 1162, 1163, 1165, 1132, 486, 487, 488, 489, 493, 496, 497, 498, 705/3, 703/3, 1143, 1142, 1114, 1113, 1112, 1107, 1104, 1053, 1051, 1039, 1166, 1253, 1257, 1270, 1266, 1276, 1275, 1281, 1283, 1286, 1287, 1288, 1291/1, 1295, 1298, 1299, 1303, 1304, 1291/1, 1295, 1301, 1302, 507, 596, 702, 706/2, 716, 717, 1136, 1173, 1170, 1172, 1180, 1182, 1183, 1186, 1101, 1108, 1100, 1249, 1306, 1305 |
| टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | जटउवा खास | 290, 293, 299, 302, 304, 343, 345, 359, 358, 360, 365, 363, 362, 645, 641, 642, 141, 144, 145, 147, 148, 286, 283, 158, 284, 273, 280, 276, 279, 381, 267, 274, 279, 381, 267, 274, 266, 259, 258, 257, 647, 648, 342, 641, 640, 638, 636, 645, 635, 1105, 1107, 1118, 1115, 1114, 1113, 650, 651, 652, 653, 1102, 1103, 1120, 1122, 1121, 395, 301, 383, 386, 346, 351, 353, 354, 368, 377, 381, 382, 151, 157, 159, 281, 282, 166, 167, 273, 274, 268, 265, 284, 268, 649, 643, 639, 634, 653, 655, | 290, 293, 299, 302, 304, 343, 345, 359, 358, 360, 365, 363, 362, 645, 641, 642, 141, 144, 145, 147, 148, 286, 283, 158, 284, 273, 280, 276, 279, 381, 267, 274, 266, 259, 258, 257, 647, 648, 342, 641, 640, 638, 636, 645, 635, 1105, 1107, 1118, 1115, 1114, 1113, 650, 651, 652, 653, 1102, 1103, 1120, 1122, 1121, 395, 301, 383, 386, 346, 351, 353, 354, 368, 377, 381, 382, 151, 157, 159, 281, 282, 166, 167, 273, 274, 268, 265, 284, 268, 649, 643, 639, 634, 653, 655, |
| टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | गुदनवारा | 159, 161/1, 157, 146, 154, 153, 386, 385, 383, 369, 368, 367, 357, 358, 359, 354, 353, 383, 375, 373, 372, 371, 527, 526, 277, 275, 273, 270, 269, 336, 353, 354, 269, 336, 353, 354, 527, 526, 530, 1168, 334, 1203, 321, 316, 282, 281, 275, 273, 277, 278, 316, 282, 281, 275, 273, 277, 278, 316, 282, 281, 275, 273, 277, 278, 316, 282, 281, 384, 381, 380, 1197, 1191, 369, 368, 367, 357, 365, 363, 358, 359, 354, 360, 352, 353, 269, 268, 270, 272, 525, 538, 531, 532, 333, 332, 331, 1203, 1169, 283, 234, 273, 72, 277, 278, 284, 283, | 159, 161/1, 157, 146, 154, 153, 386, 385, 383, 369, 368, 367, 357, 358, 359, 354, 353, 383, 375, 373, 372, 371, 527, 526, 277, 275, 273, 270, 269, 336, 353, 354, 527, 526, 530, 1168, 334, 1203, 321, 316, 282, 281, 275, 273, 277, 278, 316, 282, 281, 384, 381, 380, 1197, 1191, 369, 368, 367, 357, 365, 363, 358, 359, 354, 360, 352, 353, 269, 268, 270, 272, 525, 538, 531, 532, 333, 332, 331, 1203, 1169, 283, 234, 273, 72, 277, 278, 284, 283, |
| टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | वसगोई | 11, 12, 13, 14, 16, 17, 40, 41, 39, 42, 43, 44, 44, 141, 139, 138, 130, 147, 144, 54, 55, 53, 52, 51, 46, 127, 126, 125, 129, 383, 384, 387, 388, 124, 119, 115 | 11, 12, 13, 14, 16, 17, 40, 41, 39, 42, 43, 44, 141, 139, 138, 130, 147, 144, 54, 55, 53, 52, 51, 46, 127, 126, 125, 129, 383, 384, 387, 388, 124, 119, 115, 10, 20, 15, 37, 148, 142, 131, 132, 60, 61, 63, 47, 124, 386, 129/0 |
| टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | समरा | 1879, 1878, 1877, 1876, 1874, 1874, 1852, 1853, 1856, 155, 1874, 1885, 1886, 1888, 1892, 1902, 1900, 2443, 1822, 1922, 1921, 1916, 1914, 1913, 1914, 1904, 1885/8, 1896, 2053, 1897, 2053, 1897, 2058, 1904, 2060, 1940/2449, 1904, 2050, 2049, 2049/8, 2075/3/2, 2075/1/3, 2076, 2076/25, 2076/25, 2076/12, 2076/28, 2049, 2044, 2043/1, 2043, 2078, 1880, 1873, 1849/2, 1856/2, 1870, 1869, 1864, 1873, 1897, 1864, 1915, 19, 2054, 2055, 2075/2/3, 2075/1/3, | 1879, 1878, 1877, 1876, 1874, 1874, 1852, 1853, 1856, 155, 1874, 1885, 1886, 1888, 1892, 1902, 1900, 2443, 1822, 1922, 1921, 1916, 1914, 1913, 1914, 1904, 1885/8, 1896, 2053, 1897, 2053, 1897, 2058, 1904, 2060, 1940/2449, 1904, 2050, 2049, 2049/8, 1880, 2075/3/2, 2075/1/3, 2076, 2076/25, 2076/12, 2076/28, 2049, 2044, 2043/1, 2043, 2078, 1880, 1873, 1849/2, 1856/2, 1870, 1869, 1864, 1873, 1897, 1864, 1915, 19, 2054, 2055, 2075/2/3, 2075/1/3, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|---------|---------|-------------|--|--|
| टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | अजनौर | 87, 88, 89, 90/1, 90/2, 220, 219, 218, 217, 216, 215/1, 215/2, 229, 222, 223, 238, 239, 242, 244, 245/1, 245/2, | 87, 88, 89, 90/1, 90/2, 220, 219, 218, 217, 216, 215/1, 215/2, 229, 222, 223, 238, 239, 242, 244, 245/1, 245/2, 86/2, 95, 230, 225, 224, 237, 243, 245, |
| टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | अमरपुर | 190, 137, 133, 139/2, 139, 140, 142/1, 144/1, 122/2, 168/2, 167/2, 163/1, 158, 159/1, 184/1, 164, 166, 137, 133, 139/121, 168/1, 169, 181, 182/1, 184/3, 197/2, 1881, 493, 186/1, 185/1, 481, 2060, 833, 838/1, 834, 493, 184/3, 192/1, 834, 493, 184/3, 192/1, 192/3, 190/1, 239, 242, 243, 485, 2059, 2059, 477/2, 867/2, 866, 186, 2060, 833, 834, 838/1, 840, 841/1, 845/2, 1887/2, 1888/1, 1895/1, 1915/1, 1913/1, 2059, 869, 867/2, 861, 853, 851, 848, 847, 1882, 1885, 1884/1, 2001, 1910, 842, 845, 866, 191/1, 1917, 1913/1, 1924, 2061, 1981/1, 1986/2, 1910, 1991/1, 1984/1, 1986/1, 1987, 1986/2, 132, 129, 127, 126, 143, 132, 131, 120, 200, 192/1, 200, 232/2, 236, 232/2, 2058, 185, 823, 824, 830, 828, 835, 823, 824, 830, 828, 835, 1890, 1894, 1917, 873, 860, 854, 849, 1876, 1905, 1894, 1925, 1929, 1982, 1984, 1990, 1987/3/4 | 190, 137, 133, 139/2, 139, 140, 142/1, 144/1, 122/2, 168/2, 167/2, 163/1, 158, 159/1, 184/1, 164, 166, 137, 133, 139/121, 168/1, 169, 181, 182/1, 184/3, 197/2, 1881, 493, 186/1, 185/1, 481, 2060, 833, 838/1, 834, 493, 184/3, 192/1, 192/3, 190/1, 239, 242, 243, 485, 2059, 2059, 477/2, 867/2, 866, 186, 2060, 833, 834, 838/1, 840, 841/1, 845/2, 1887/2, 1888/1, 1895/1, 1915/1, 1913/1, 2059, 869, 867/2, 861, 853, 851, 848, 847, 1882, 1885, 1884/1, 2001, 1910, 842, 845, 866, 191/1, 1917, 1913/1, 1924, 2061, 1981/1, 1986/2, 1910, 1991/1, 1984/1, 1986/1, 1987, 1986/2, 132, 129, 127, 126, 143, 132, 131, 120, 200, 192/1, 200, 232/2, 236, 232/2, 2058, 185, 823, 824, 830, 828, 835, 823, 824, 830, 828, 835, 1890, 1894, 1917, 873, 860, 854, 849, 1876, 1905, 1894, 1925, 1929, 1982, 1984, 1990, 1987/3/4 |
| टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | पराऊगढ़ | 31, 34, 134, 135, 30, 26, 21, 39, 2210, 39, 38, 37, 131/1, 132, 22, 28, 131/2, 137, 135, | 31, 34, 134, 135, 30, 26, 21, 39, 2210, 39, 38, 37, 131/1, 132, 22, 28, 131/2, 137, 135, 27, 29, 32, |
| टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | जमन्या खेडा | 3, 5, 6, 7, 83, 82, 84, 85, 155, 158, | 3, 5, 6, 7, 83, 82, 84, 85, 155, 158, 159 |
| टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | गनेशगंज | 1, 2, 13, 12, 23, 19, 18, 17, | 1, 2, 13, 12, 23, 19, 18, 17, 24, 22, 20 |

II)

"खण्ड-अ"

| अ. क्र. | अधिसूचित मार्ग का नाम | सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में) | राज्यमार्ग में आने वाले जिले |
|---------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1 | टीकमगढ़ – ओरछा मार्ग राज्य मार्ग – 37 | 72.00 | टीकमगढ़ |

"खण्ड-ब"

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|---------|---------|---------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| टीमकगढ़ | टीमकगढ़ | टीमकगढ़ | 634, 636, 638, 641, 642, 644, 578, 579, 577, 579, 577, 588, 586, 610, 612, 525, 525, 528, 530, 537, 537, 538, 568, 570 571, 572, 574, 575, 592, 482, 483, 490, 493, 494, 497, 498, 500, 585, 507, 504/2, 507, 504/2, 507, 510, 503/2, 513, 516, 517, 2055, 524, 468, 472, 473, 474/1, 477, 476, 482, 483, 592, 591, 607, 608, 632, 621, 523, 450, 489, 486, 437, 433, 432, 429, 2054/2, 522, 470, 475, 486, 489, 621, 567, 638, 592 | 634, 636, 638, 641, 642, 644, 578, 579, 577, 588, 586, 610, 612, 525, 525, 528, 530, 537, 538, 568, 570, 571, 572, 574, 575, 592, 482, 483, 490, 493, 494, 497, 498, 500, 585, 507, 504/2, 507, 510, 503/2, 513, 516, 517, 2055, 524, 468, 472, 473, 474/1, 477, 476, 482, 483, 592, 591, 607, 608, 632, 621, 523, 450, 489, 486, 437, 433, 432, 429, 2054/2, 522, 470, 475, 486, 489, 621, 567, 638, 592 |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली मूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली मूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|---------|---------|----------------|--|---|
| टीमकगढ़ | टीमकगढ़ | कुवंचपुरा | 741, 740, 735, 734, 715, 716, 718, 717, 723, 724, 731, 732, | 741, 740, 735, 734, 715, 716, 718, 717, 723, 724, 731, 732, 736, 713, 722, 725, 730, |
| टीमकगढ़ | टीमकगढ़ | तखा | 234/9, 270/1/2, 27204, 2720, 2 285, 135, 136, 138, 232/1, 231, 232/2/1, 234, 80/3/1, 95, 96/2, 118, 123, 130, 129, 118, 123, 130, 129, 132, 131, 78, 74, 75, 77, 80/3/1 | 234/9, 270/1/2, 27204, 2720, 285, 135, 136, 138, 232/1, 231, 232/2/1, 234, 80/3/1, 95, 96/2, 118, 123, 130, 129, 132, 131, 78, 74, 75, 77, 80/3/1, 167/2, 150, 139, 229, 230, 80, 81, 94/1, 94/2, 97/1, 97/3 107, 108, 117, 118, 71, 69, 76, 80 |
| टीमकगढ़ | टीमकगढ़ | अनन्तपुरा | 533/2/2/4/, 533/2/3, 533/2/3/2, 540/1, 553, 560, 561/1 561/2, 561, 563, 568, 563, 568, 126, 262, 2020, 263, 2020, 264/1/2, 264/1/1, 533/2/1, 533/2/2/1, 533/2/2/5, 25, 578, 580, 58, 584, 585, 588, 591, 8, 84, 82, 86, 85, 80, 87, 88, 89, 90, 94 95, 103, 106, 110, 111, 112, 117, 119, 121, 112, 117, 119, 121, | 533/2/2/4/, 533/2/3, 533/2/3/2, 540/1, 553, 560, 561/1 561/2, 561, 563, 568, 126, 262, 2020, 263, 2020, 264/1/2, 264/1/1, 533/2/1, 533/2/2/1, 533/2/2/5, 25, 578, 580, 58, 584, 585, 588, 591, 592, 6, 7, 8, 84, 82, 86, 85, 80, 87, 88, 89, 90, 94 95, 103, 106, 110, 111, 112, 117, 119, 121, 554, 559, 558, 2020, 625, 631, 589, 590, 9, 10 78, 79, 91, 94, 98, 101, 102, 107, 116, 115, 118, 590, 96, |
| टीमकगढ़ | टीमकगढ़ | पहाड़ी खुर्द | 275/5, 274/4, 274/3, 274/2, 273, 222/3, 222/4, 206/18/2/2, 206/18/2/1, 206/18/1, 206/18/2/1, 206/18/1, 206/17, 206/2, 206/16/2, 206/16/1, 206/12/2, 206/12/1, 205/2, 205/1, 120/1, 120/2/1, | 275/5, 274/4, 274/3, 274/2, 273, 222/3, 222/4, 206/18/2/2, 206/18/2/1, 206/18/1, 206/17, 206/2, 206/16/2, 206/16/1, 206/13/1, 206/12/2, 206/12/1, 205/2, 205/1, 120/1, 120/2/1, 274/6 |
| टीमकगढ़ | टीमकगढ़ | बड़ागांव खुर्द | 263/1, 260, 259, 249, 248, 263/5, 247, 246, 67, 7/3, 245, 140, 258, 7/2, 7/1, 8/1, 8/3, 12, 11, 13, 14, 18, 1720, 19/1, | 263/1, 260, 259, 249, 248, 263/5, 247, 246, 67, 7/3, 245, 140, 258, 7/2, 7/1, 8/1, 8/3, 12, 11, 13, 14, 18, 1720, 19/1, 257, 250, 251, 144, 139/2, 143/2, 139/1, 138, 137, 17, 19/2, |
| टीमकगढ़ | टीमकगढ़ | आलमपुरा | 395, 391/1, 391/2 392, 384/2, 384/1, 350, 349, 348, 345, 342, 338, 337, 385/2, 385/3, 284, 286, 609, 608, 607, 606, 605, 595, 594, 267, 238, 237, 236, 235, 233, 231, 229, 594, 585, 584, 579, 578, 577, 25, 24, 21, 20, 6, 5, 4, 353, 351, 347, 341, 340 339, 285/, 596, 611, 598, 593, 269, 265, 264, 266, 239, 241, 232, 230, 598, 593, 627, 583, 628, 28, 10, 9, 8, 7, 22, 19, | 395, 391/1, 391/2, 392, 384/2, 384/1, 350, 349, 348, 345, 342, 338, 337, 385/2, 385/3, 284, 286, 609, 608, 607, 606, 605, 595, 594, 267, 238, 237, 234, 236, 235, 233, 231, 229, 594, 585, 584, 579, 578, 577, 25, 24, 21, 20, 6, 5, 4, 353, 351, 347, 341, 340 339, 285/, 596, 611, 598, 593, 269, 265, 264, 266, 239, 241, 232, 230, 598, 593, 627, 583, 628, 28, 10, 9, 8, 7, 22, 19, |
| टीमकगढ़ | टीमकगढ़ | हीरानगर | 283, 284, 285, 497, 498, 499, 513, 512, 514, 526, 277, 275, 276, 225, 226, 225, 226, 234, 235, 236, 269, 268, 266, 283, 273, 280, 278, 277, 275, 276, | 283, 284, 285, 497, 498, 499, 513, 512, 514, 526, 277, 275, 276, 225, 226, 234, 235, 236, 269, 268, 266, 283, 273, 280, 278, 277, 275, 276, 515, 241, 237, 265, |
| टीमकगढ़ | टीमकगढ़ | बंधिया | 448, 2020, 452/6, 452/3/2, 452/3/1, 455, 535, 500, 536, 533, 541, 545, 544, 499, 543, | 448, 2020, 452/6, 452/3/2, 452/3/1, 455, 535, 500, 536, 533, 541, 545, 544, 499, 543, |
| टीमकगढ़ | टीमकगढ़ | कारीखास | 15, 17, 19, 21, 25, 30, 2, 3, 4, 6, 10, 12, | 15, 17, 19, 21, 25, 30, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 22, 24, 3753, 11 |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|---------|---------|------------|--|--|
| टीमकगढ़ | मोहनगढ़ | रमपुरा | 324, 304/1, 307/1, 304/2, 307/2, 310, 311/1/1, 311/1/8, 311/1/3, 319, 274, 273, 276, 278/3/4, 293/3, 279/2/4, 281/1, 281/2, 303, | 324, 304/1, 307/1, 304/2, 307/2, 310, 311/1/1, 311/1/8, 311/1/3, 319, 274, 273, 276, 278/3/4, 293/3, 279/2/4, 281/1, 281/2, 303, 301, 300, 306/2, 309/1, 309/3, 271, 272, 269, 278, 279/1, |
| टीमकगढ़ | मोहनगढ़ | विहारीपुरा | 441, 446, 7/3, 7/2, 14/1, 14/2, 22/2, | 441, 446, 7/3, 7/2, 14/1, 14/2, 22/2, 2/1, 5/1, 7/1, 12/1 |
| टीमकगढ़ | मोहनगढ़ | राम नगर | 1074/3, 1074/1, 1076, 1085, 1086, 1096, 1095, 1094, 1098, 1099, 1100, 1107, 1116, 1072/1, 1072, 1078, 1074/4, 1074/3, 1074/1, 1076, 1091, | 1074/3, 1074/1, 1076, 1085, 1086, 1096, 1095, 1094, 1098, 1099, 1100, 1107, 1116, 1072/1, 1072, , 1078, 1074/4, 1074/3, 1074/1, 1076, 1091, 1083, 540, 533, 1076, |
| टीमकगढ़ | मोहनगढ़ | भगवंतपुरा | 786/ 3, 786/2, 786/1, 774, 766, 765, 752, 750, 751, 787, | 786/ 3, 786/2, 786/1, 774, 766, 765, 752, 750, 751, 787, 786/4, 767, 763, 763, 749, 748, 747, |
| टीमकगढ़ | जतारा | कारी उत्तर | 19/1/6, 19/1/7, 19/1/8, 1/1, 1/2, | 19/1/6, 19/1/7, 19/1/8, 1/1, 1/2, |
| टीमकगढ़ | जतारा | बिलगांव | 59, 63, 64, 62, 65, 66, 69, 67, 5, 6, 3 10, 51, 54, 10, | 59, 63, 64, 62, 65, 66, 69, 67, 5, 6, 10, 51, 54, 10, 49 |
| टीमकगढ़ | जतारा | वर्माताल | 981/1, 981/2, 980, 975, 979, 977, 995, 999, 1001, 1003, 401, 404, 405, 406, 407 409, 410, 411, 412, 413, 955, 960, 964, 965, 886, 381, 1053, 388, 387, 1053, 388, 387, 987, 989, 990, 992, 995/2, 232, 230, 229, 420 393, 396, 1022, 398, 399, 300, 301, 373, 374, 375, 299, 255, 254, 253, 252, 246, 245, 242, 243, 235, 234, 211, 212, 233, 259, 260 265, 266, 267, 274, 275, 216, 297, 296, 973, 402, 403, 418, 416, 415, 954, 956, 958, 885, 386, 391, 247, 236, 240, 261, 264, 268, 273, 277, 278, | 981/1, 981/2, 980, 975, 979, 977, 995, 999, 1001, 1003, 401, 404, 405, 406, 407 409, 410, 411, 412, 413, 955, 960, 964, 965, 886, 381, 1053, 388, 387, 987, 989, 990, 992, 995/2, 232, 230, 229, 420 393, 396, 1022, 398, 399, 300, 301, 373, 374, 375, 299, 255, 254, 253, 252, 246, 245, 242, 243, 235, 234, 211, 212, 233, 259, 260 265, 266, 267, 274, 275, 216, 297, 296, 973, 402, 403, 418, 416, 415, 954, 956, 958, 885, 386, 391, 247, 236, 240, 261, 264, 268, 273, 277, 278, |
| टीमकगढ़ | जतारा | कुर्सई | 741, 746, 747, 745, 744, 717, 682, 678/2, 678/1, 1092, 677, 674, 675, 676, 666, 665, 667, 668, 664, 663, 662, 661, 609, 607, 608, 606, 605, 601, 603, 596, 604, 1028, 1034, 1027, 1035, 1028, 1025, 1023, 1021, 1022, 1119, 1120, 752, 751, 753, 754, 757, 756, 758, 759, 762, 766, 765, 767, 773, 768, 769, 770, 771, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 835, 834, 594, 593, 591, 592, 590, 1088, 506/1087, 506/2/2, 506/2/1, 503, 504, 502/2, 506/2/1, 503, 504, 502/1/3/1 , 502/1/2, 502/1/1, 836, 837, 838, 842, 844/1845/1, 844/2, 845/2, 844/3, 845/3, 846, 857/1, 743, 435, 734, 729, 733 732, 731, 730, 685, 684, 673, 672, 671, 670, 655, 669, 657, 658/2, 660, 659, 601, 611, 610, 602, 597, 595, 1033, 1038, 1039 1024/2, 1024/1, 1013, 1118, 1117, 1116, 761, 766/2, 766/1, 763/1, 774, 776, 781, 782, 772, 818, 819, 827, | 741, 746, 747, 745, 744, 717, 682, 678/2, 678/1, 1092, 677, 674, 675, 676, 666, 665, 667, 668, 664, 663, 662, 661, 609, 607, 608, 606, 605, 601, 603, 596, 604, 1028, 1034, 1027, 1035, 1028, 1025, 1023, 1021, 1022, 1119, 1120, 752, 751, 753, 754, 757, 756, 758, 759, 762, 766, 765, 767, 773, 768, 769, 770, 771, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 835, 834, 594, 593, 591, 592, 590, 1088, 506/1087, 506/2/2, 506/2/1, 503, 504, 502/2, 506/2/1, 503, 504, 502/1/3/1 , 502/1/2, 502/1/1, 836, 837, 838, 842, 844/1845/1, 844/2, 845/2, 844/3, 845/3, 846, 857/1, 743, 435, 734, 729, 733 732, 731, 730, 685, 684, 673, 672, 671, 670, 655, 669, 657, 658/2, 660, 659, 601, 611, 610, 602, 597, 595, 1033, 1038, 1039 1024/2, 1024/1, 1013, 1118, 1117, 1116, 761, 766/2, 766/1, 763/1, 774, 776, 781, 782, 772, 818, 819, 827, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|---------|--------|---------|--|--|
| टीमकगढ़ | जतारा | दिगोड़ा | 1975, 1974, 1976, 1970, 1969, 1968, 1967, 1965, 1964, 1955, 1954/1, 1954/2, 1954/3, 1948, 1947/2, 1981, 1980, 1994, 1996, 1995, 1998, 1997/1, 1997/2, 2000, 2001, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 33, 81, 2012/1, 2012/2, 2015, 2016, 2018, 1947/1, 1945, 1946, 1944, 1943, 1942, 1937, 1936, 1930, 1935, 1933, 1934, 1922, 1931, 1932, 1923, 1919, 1922, 1921, 1915, 1916, 1912, 1914, 1910, 1913, 1906, 1907, 1908, 1911, 900/4, 1900/3, 1900/2, 1899, 1900/1, 1900, 1898, 3529, 2017, 2034/2, 2035/1, 2035/2, 2035/3, 2037, 2038, 2130, 2131, 2132, 2133, 2129, 2134, 2135, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2150, 2151, 2149, 2153, 1893, 1892, 969, 966, 968/1, 968/1/2, 970, 971, 3350, 981, 3351, 386, 149, 204, 205, 219, 216, 206, 211, 215, 214, 212, 3525, 1889, 1890, 1894, 133, 1877, 1876, 1875, 1874, 1880, 1878, 1870, 1868, 1871, 1872, 1867, 1865, 1866, 1863, 1862, 1861, 1859, 985, 382, 377, 3409, 3408, 3407, 373, 371/1, 372, 354/2, 354/1, 370, 320, 367, 213, 199, 200, 198, 197, 195, 190, 191, 192, 193, 194, 188, 186, 187, 184, 170, 169, 167, 166/3, 166/2, 166/1, 154/1, 163, 161/2, 162/3, 152/2, 368, 366, 365, 364, 221, 222, 232/2, 232/1, 233, 234/2, 234/1, 235/2, 235/1, 236, 249, 250, 251, 252/2, 252/1, 254, 253, 262, 261/1, 261/2, 260/2, 260/1, 263, 264/2, 264/1, 265, 276, 277, 275/2, 275/1, 278, 279, 290/1/5, 1197/3, 1972, 1966, 1961, 1960, 1959, 1962, 1963, 3462, 3463, 3464, 1999, 2002, 2003, 2005, 2007/2, 2007/1 3473, | 1975, 1974, 1976, 1970, 1969, 1968, 1967, 1965, 1964, 1955, 1954/1, 1954/2, 1954/3, 1948, 1947/2, 1981, 1980, 1994, 1996, 1995, 1998, 1997/1, 1997/2, 2000, 2001, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 33, 81, 2012/1, 2012/2, 2015, 2016, 2018, 1947/1, 1945, 1946, 1944, 1943, 1942, 1937, 1936, 1930, 1935, 1933, 1934, 1922, 1931, 1932, 1923, 1919, 1922, 1921, 1915, 1916, 1912, 1914, 1910, 1913, 1906, 1907, 1908, 1911, 1900/4, 1900/3, 1900/2, 1899, 1900/1, 1900, 1898, 3529, 2017, 2034/2, 2035/1, 2035/2, 2035/3, 2037, 2038, 2130, 2131, 2132, 2133, 2129, 2134, 2135, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2150, 2151, 2149, 2153, 1893, 1892, 969, 966, 968/1, 968/1/2, 970, 971, 3350, 981, 3351, 386, 149, 204, 205, 219, 216, 206, 211, 215, 214, 212, 3525, 1889, 1890, 1894, 133, 1877, 1876, 1875, 1874, 1880, 1878, 1873, 1869, 1870, 1868, 1871, 1872, 1864, 1867, 1865, 1866, 1863, 1862, 1861, 1859, 985, 382, 377, 3409, 3408, 3407, 373, 371/1, 372, 354/2, 354/1, 370, 320, 367, 213, 199, 200, 198, 197, 195, 190, 191, 192, 193, 194, 188, 186, 187, 184, 170, 169, 171, 168/1, 166/3, 166/2, 166/1, 154/1, 163, 161/2, 162/3, 152/2, 368, 366, 365, 364, 221, 222, 232/2, 232/1, 233, 234/2, 234/1, 235/2, 235/1, 236, 249, 250, 251, 252/2, 252/1, 254, 253, 262, 261/1, 261/2, 260/2, 260/1, 263, 264/2, 264/1, 265, 276, 277, 275/2, 275/1, 278, 279, 290/1/5, 1197/3, 1972, 1966, 1961, 1960, 1959, 1962, 1963, 3462, 3463, 3464, 1999, 2002, 2003, 2005, 2007/2, 2007/1 3473, |
| टीमकगढ़ | लिधौरा | बम्होरी | 1478, 1476, 1474, 1472, 1470, 1469, 1468, 1464, 1463, 1625, 1626, 1617, 1616, 2424, 1514, 1482, 1481, 1484, 1485, 1486, 1501, 1502, 1504, 1462, 1461, 1460, 2067, 2068, 2066, 2065, 2077/4, 2077/3, 2077/5, 2080/2, 2080, 1508, 1509, 1513, 1514, 1516, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1525, 1526, 2062, 2106, 2107, 2105, 2104, 2101, 2477, 2469, 2094, 2095, 2097, | 1475, 1473, 1471, 1467, 1465, 1621, 1624, 1627, 2425, 1629, 1422, 2072, 2078, 1510, 1518, 1528, 1523, 1527, 2061, 2057, 2115, 2116, 2103, 2102, 2081, 2082, 2487, 2484, 2094, 2093, 2091, 1366, 1367, 1369, 794, 1051, 1052, 1054, 1056, 1065, 2102, 1335, 1341, 1343, 1104, 1105, 1097, 1091, 997, 1003, 1236, 1613, 1465, 1620, 1619, 1364, 1023, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|---------|-----------|-----------|---|--|
| | | | 675, 749, 672, 590, 586, 584, 583, 581, 749, 573, 572, 561, 543, 532, 485, 489, 490, 494, 936, 495, 440, 454, 458, 452, 459, 471, 461, 464, 464, 201, 200, 188, 198, 189, 196, 192, 139, 138, 92, 93, 106, 108, 102, 108, 107, 85, 83, 82, 52, 90, 87, 1, 51, 49, 48, 42, 41, 48, 35, 37, 36, 39, 35, 34, 32, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 858, 861, 863, 752, 754, 883, 869, 871, 874, 893, 892, 838, 839, 840, 837, 825, 804, 806, 800, 780, 782, 781, 773, 774, 765, 725, 717, 739, 740, 754, 90, 738, 740, 742, 744, 681, 669, 593, 595, 588, 587, 578, 574, 571, 558, 546, 539, 536, 531, 530, 591, 1493, 438, 447, 450, 451, 463, 462, 202, 187, 186, 185, 154, 182, 183, 140, 141, 94, 109, 84, 77, 80, 76, 79, 65, 63, 60, 59, 58, 53, 61, 62, 57, 47, 46, 44, 43, 33, 17, 14, 13, 10, 9 | 654, 653, 598/2/3, 596, 595, 594, 574, 346, 348, 345, 263, 245/1, 245/2, 246, 246, 217, 212, 213, 222, 223, 224, 225, 206, 252, 249, 259, 261, 248, 78/4/2, 78/3, 73/3, 63, 78, 74/4, 75, 74/2/2, 71/2, 71/6/2, 71/6/1, 68, 67, 69, 60, 52, 61, 50/1/2/1, 50/1, 60, 52, 654, 653, 598/2/3, 595/2, 595, 594, 574, 252, 261, 345, 263, 245/2, 245/1, 246, 212, 222, 223, 224, 225, 206, 259, 261, 78/4/2, 78/3, 63, 78, 74/4, 75, 74/2/2, 71/6/2, 67, 68, 63, 64/0, 60, 71/6/2, 71/6/1, 67, 68, 50/1/2/1, 60, 52, 596, 553/1/1, 598/1/2, 592, 590, 352, 351, 353, 358, 243, 240, 216, 215, 220, 228, 230, 226, 196, 197, 78/4/1/1, 78/4/1/2, 78/6, 66, 559/1/1, 598/1/2, 598/2/1, 596, 592, 590, 249, 346, 348, 293/0, 243, 240, 216, 217, 215, 226, 228, 230, 248, 78/4/1/2, 78/4/1/1, 73/3, 78/078/6, 71/2 71/6/1, 67 68, 61, 52, 66 |
| टीकमगढ़ | पृथ्वीपुर | अचरुमाता | 654, 653, 598/2/3, 596, 595, 594, 574, 346, 348, 345, 263, 245/1, 245/2, 246, 217, 212, 213, 222, 223, 224, 225, 206, 252, 249, 259, 261, 248, 78/4/2, 78/3, 73/3, 63, 78, 74/4, 75, 74/2/2, 71/2, 71/6/2, 71/6/1, 68, 67, 69, 64, 60, 52, 61, 50/1/2/1, 50/1, 60, 52, 654, 653, 598/2/3, 595/2, 595, 594, 574, 252, 261, 345, 263, 245/2, 245/1, 246, 212, 222, 223, 224, 225, 206, 259, 261, 78/4/2, 78/3, 63, 78, 74/4, 75, 74/2/2, 71/6/2, 67, 68, 63, 64/0, 60, 71/6/2, 71/6/1, 67, 68, 50/1/2/1, 60, 52, 596, 553/1/1, 598/1/2, 592, 590, 352, 351, 353, 358, 243, 240, 216, 215, 220, 228, 230, 226, 196, 197, 78/4/1/1, 78/4/1/2, 78/6, 66, 559/1/1, 598/1/2, 598/2/1, 596, 592, 590, 249, 346, 348, 293/0, 243, 240, 216, 217, 215, 226, 228, 230, 248, 78/4/1/2, 78/4/1/1, 73/3, 78/078/6, 71/2 71/6/1, 67 68, 61, 52, 66 | 1722/1, 1722, 1615/1, 1614/1, 1732/2, 1734/2, 1734/2, 1755, 1759, 1758, 1606/1, 1862/1 1862/3, 1875/1/2, 4610, 1871, 1916, 1922, 4296/1/2, 4296/1/1, 4291, 4292, 4290, 1799, 1798/2, 1836/2, 1837/1, 1837/2, 1838, 1846, 1848, 1849, 1850, 1732, 1732/1, 1734/1, 1736, 1756/2, 1756/1, 1757, 1763, 1796, 1607/1, 1614/2, 1606/2, 1876, 1869, 1870, 46914, 1875/1/1, 4615, 1873, 1872, 1854/1/2/3, 1853, 1917, 1918, 42, 1847, 1845, 4362/1, 4362/3, 4362/2, 4361, 4298, 4286, |
| टीकमगढ़ | पृथ्वीपुर | पृथ्वीपुर | 1722/1, 1722, 1615/1, 1614/1, 1732/2, 1734/2, 1734/2, 1755, 1759, 1758, 1606/1, 1862/1 1862/3, 1875/1/2, 4610, 1871, 1916, 1922, 4296/1/2, 4296/1/1, 4291, 4292, 4290, 1799, 1798/2, 1836/2, 1837/1, 1837/2, 1838, 1846, 1848, 1847, 1849, 1850, 1732, 1732/1, 1734/1, 1736, 1756/2, 1756/1, 1757, 1763, 1796, 1607/1, 1614/2, 1606/2, 1876, 1869, 1870, 46914, 1875/1/1, 4615, 1873, 1872, 1854/1/2/3, 1853, 1917, 1918, 42, 1847, 1845, 4362/1, 4362/3, 4362/2, 4361, 4298, 4286, | 1722/1, 1722, 1615/1, 1614/1, 1732/2, 1734/2, 1734/2, 1755, 1759, 1758, 1606/1, 1862/1 1862/3, 1875/1/2, 4610, 1871, 1916, 1922, 4296/1/2, 4296/1/1, 4291, 4292, 4290, 1799, 1798/2, 1836/2, 1837/1, 1837/2, 1838, 1846, 1848, 1847, 1849, 1850, 1732, 1732/1, 1734/1, 1736, 1756/2, 1756/1, 1757, 1763, 1796, 1607/1, 1614/2, 1606/2, 1876, 1869, 1870, 46914, 1875/1/1, 4615, 1873, 1872, 1854/1/2/3, 1853, 1917, 1918, 42, 1847, 1845, 4362/1, 4362/3, 4362/2, 4361, 4298, 4286, |

| जिला | तहसील | ग्राम | मवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|---------|-----------|------------|--|--|
| | | | 4362/1, 4362/3, 4362/2, 4361, 4298, 4286, 4285, 2130, 2120, 2111, 2095, 2093, 2084, 1134, 1133, 4583, 1211, 4316, 4317, 4318, 4319, 4277, 4279, 4281, 2145, 2141, 2139, 2170, 2169, 2188, 2179, 2185, 2187, 2194, 2195, 1130, 1129, 1214, 1087, 1055, 2170, 2169, 2188, 2179, 2185, 2187, 2194, 2195, 1130, 1129, 1214, 1087, 1055, 1048, 1052, 1029, 1028, 1027, 676, 677, 678, 681, 675, 728, 732, 734, 721, 720, 719, 735, 751, 738, 739, 741, 734, 745, 744, 790, 786, 791, 681, 675, 728, 732, 734, 721, 720, 719, 735, 751, 738, 739, 741, 734, 745, 744, 790, 786, 791, 788, 792, 789, 1116, 1108, 1103, 1092, 1090, 604, 605, 610, 609, 611, 612, 613, 614, 659, 661, 663, 660, 665, 670, 671, 292, 291, 282, 176, 173, 174, 167, 166, 164, 144, 145, 146, 143, 141, 147, 1463, 789, 792, 794, 793, 781, 795, 796, 799, 812, 813, 817, 816, 815, 814, 812, 142, 134, 135, 1725, 1725, 1609, 1745, 1746, 1761, 1762, 1764, 1605, 1603, 1862, 3, 1866, 1859, 1854/1/2/1, 1920, 1919, 817, 816, 815, 814, 142, 134, 135 | 4285, 2130, 2120, 2111, 2095, 2093, 2097, 2085, 2084, 1134, 1133, 4583, 1211, 4316, 4317, 4318, 4319, 4277, 4279, 4281, 2145, 2141, 2139, 2170, 2169, 2188, 2179, 2185, 2187, 2194, 2195, 1130, 1129, 1214, 1087, 1055, 1048, 1052, 1029, 1028, 1027, 676, 677, 678, 681, 675, 728, 732, 734, 721, 720, 719, 735, 751, 738, 739, 741, 734, 745, 744, 790, 786, 791, 788, 792, 789, 1116, 1108, 1103, 1092, 1090, 604, 605, 610, 609, 611, 612, 613, 614, 659, 661, 663, 660, 665, 670, 671, 292, 291, 282, 176, 173, 174, 167, 166, 164, 144, 145, 146, 143, 141, 147, 1463, 789, 792, 794, 793, 781, 795, 796, 799, 812, 813, 817, 816, 815, 814, 812, 142, 134, 135, 1725, 1725, 1609, 1745, 1746, 1761, 1762, 1764, 1605, 1603, 1862, 3, 1866, 1859, 1854/1/2/1, 1920, 1919, 1921, 1923, 4291 |
| टीकमगढ़ | पृथ्वीपुर | लडवारी खास | 535, 533, 540, 541/2, 521, 511/1, 487, 486, 485, 487, 531, 523, | 535, 533, 540, 541/2, 521, 511/1, 487, 486, 485, 487, 531, 523, 536, 537, 517, 516/3, 510, 488, 490, 524, |
| टीकमगढ़ | पृथ्वीपुर | विन्दपुरा | 708, 694, 688, 686, 683, 491/2/2, 493, 491, 489, 647, 649/1, 671, 674, 676, 679, 481, 479, 477, 476, 116, 113, 98, 99/2, 84, 85, 82/1, 46, 45/2, 45/1, 44, 32, 31, 29/2, 29/1, 107, 108, 137, 136, 138, 139, 27, 26, 24/1, 23/2, 21/2/3, 21/2, 23/1, 6, 5, 4/3, 3/3 | 708, 694, 688, 686, 683, 491/2/2, 493, 491, 489, 647, 649/1, 671, 674, 676, 679, 678, 495, 487, 481, 479, 477, 476, 116, 113, 98, 99/2, 84, 85, 82/1, 46, 45/2, 45/1, 44, 32, 31, 29/2, 29/1, 107, 108, 137, 136, 138, 139, 27, 26, 24/1, 23/2, 21/2/3, 21/2, 23/1, 6, 5, 4/3, 3/3, 517, 490/1, 490/2, 490, 693, 692, 689, 690, 653, 677, 496, 1038/4, 497, 485, 473, 472, 471, 470, 469, 94, 95, 92, 936, 91, 90, 87, 86, 81, 80, 48, 39, 43, 42, 41, 33, 34, 30, 115, 111, 109, 132, 135, 134, 25, 21/1, 8/2, 8/3 |
| टीकमगढ़ | पृथ्वीपुर | नैगुवा खास | 978, 978/1, 978/1/1/3, 1085/2, 1085/1/4, 1244/1/2, 1244/1/1, 1218/2, 1218/3, 12818/2, 1218, 1206/1/7, 1034, 1085/1, 1192, 1190, 1189, 1187, 1186, 1164, 1206, 1205, 1204, 1203, 1196, 978/1/7, 978/1/6, 978/1/1/2, 1014, 1018, 1017, 1019, 1020, 1030, 1244 | 978, 978/1, 978/1/1/3, 1085/2, 1085/1/4, 1244/1/2, 1244/1/1, 1218/2, 1218/3, 12818/2, 1218, 1206/1/7, 1034, 1085/1, 1192, 1190, 1189, 1187, 1186, 1164, 1206, 1205, 1204, 1203, 1196, 978/1/7, 978/1/6, 978/1/1/2, 1014, 1018, 1017, 1019, 1020, 1030, 1244 |
| टीकमगढ़ | पृथ्वीपुर | पनिहारी | 898, 822, 823, 885, 887, 890, 676, 901, 902/1, 902/2, 903, 896, 894, 895/2, 640, 641, 638, 675, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 249, 24/8, 637, 635, 627, 649, 650, 217/1, 215, 625/5, 623/2/3, 623/2/1, 623/2, 623/3, 623/4, 621 | 898, 822, 823, 885, 887, 890, 676, 901, 902/1, 902/2, 903, 896, 894, 895/2, 640, 641, 638, 675, 644, 645, 647, 648, 649, 650, 249, 24/8, 637, 635, 627, 649, 650, 217/1, 215, 625/5, 623/2/3, 623/2/1, 623/2, 623/3, 623/4, 621, 814, 815, 884, 879, 87, 902/3, 820, 816, 817, 807, 673, 671, 670, 652, 653, 651, 224, 632, 628, 626, |

| जिला | तहसील | ग्राम | मवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|---------|-------|-------|---|---|
| | | | | 627/3, 625/1/6, 25/3, 625/4, 623/5, 623/2, 250, 223, 111, 627/3, 625/3, 625/4, 816, 817, 807 |
| टीकमगढ़ | ओरछा | ओरछा | 45, 455/10, 457, 814, 812, 810, 805, 803, 802, 466, 468, 560, 561, 562, 801, 800, 799, 773, 774, 772, 771, 762, 557, 563, 564, 565, 566, 638, 719, 721, 718, 717, 715, 640/3, 640/1/1, 640/4, 701, 670, 675, 674, 677, 676, 667, 683, 666/1, 666/2/1, 456, 819, 804, 458, 460, 472, 795, 796, 770, 769, 768, 733, 573, 667, 683, 666/1, 666/2/1 | 45, 455/10, 457, 814, 812, 810, 805, 803, 802, 466, 468, 560, 561, 562, 801, 800, 799, 773, 774, 772, 771, 762, 557, 563, 564, 565, 566, 638, 719, 721, 718, 717, 715, 640/3, 640/1/1, 640/4, 701, 670, 675, 674, 677, 676, 667, 683, 666/1, 666/2/1, 456, 819, 804, 458, 460, 472, 795, 796, 770, 769, 768, 733, 573, 720, 724, 723, 728, 680, 684 |

राज्य राजमार्ग अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन से एक माह के अंतर्गत या ग्राम में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इनमें से जो भी कालावधि पश्चातवर्ती हो कोई व्यक्ति लिखित में अपनी आपत्ति या सुझाव राजमार्ग प्राधिकारी (प्रबंध संचालक / संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सड़क विकास निगम) को प्रस्तुत कर सकता है या राजमार्ग प्राधिकारी के समक्ष उपरिथत हो सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

पृ. क्र. एफ-23-2-2015-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-23-2-2015-सा-उन्नीस, दिनांक 7 अप्रैल 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

No. F-23-02/2015/Gen/19

Bhopal, the 7th April 2015

In exercise of the powers conferred by clause (1) of section 12 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam 2004 (No. 11 of 2005) the State Government hereby propose for the roads as specified in Part-A of the schedule as per specification given below in Part-B of the schedule to be the Building line and Control line.

S C H E D U L E**I****Part-A**

| S.No. | Name of State Highway | Total Length (in Km.) | Name of Districts on the way |
|-------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Tikamgarh-Shahgarh (SH-37) | 27.00 | Tikamgarh |

Part-B**Details of land in between Building Lines and Control Lines**

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|-----------|-----------|----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Tikamgarh Kila | 2047, 2001, 1999, 1998, 1865, 1861, 1857, 1856, 1816, 1814, 2002, 2004, 2047, 2048, 2108, 2096, 2113, 2113/3, 2113 | 2047, 2001, 1999, 1998, 1865, 1861, 1857, 1856, 1816, 1814, 2002, 2004, 2047, 2048, 2108, 2096, 2113, 2113/3, 2113, 1846, 2812, 1847, 2007, 2002, 2004, 2012, 2042, 2044, 2100, 2098, 2107, 2097, 2094, 2113/1 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Tikamgarh Tal | 83/1, 82/3, 75, 74, 73, 70, 69, 48/2, 48/1, 47/2, 47/1, 45, 44, 42, 43, 37, 36, 35, 2200, 32, 26, 25, 23, 82/3, 83, 81/1, 84, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 261, 262/2, 264, 271, 270, 277, 305, 262/1, 31, 66, 77, 53, 52, 49/2, 50, 41, 39, 38, 2210, 265, 266, 269, 267, 7, 6, 79, 98, 102, 267, 261, 307, 308 | 83/1, 82/3, 75, 74, 73, 70, 69, 48/2, 48/1, 47/2, 47/1, 45, 44, 42, 43, 37, 36, 35, 2200, 32, 26, 25, 23, 82/3, 83, 81/1, 84, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 261, 262/2, 264, 271, 270, 277, 305, 262/1, 31, 66, 77, 53, 52, 49/2, 50, 41, 39, 38, 2210, 265, 266, 269, 267, 7, 6, 79, 98, 102, 267, 261, 307, 308 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Madumar Khas | 1/1/1, 1/1/2, 1/2, 1/3, 2/3, 186, 187, 188, 194, 2/5/2/2, 190, 192, 193, 194, 198, 199, 200, 215, 214, 216, 213, 217, 321, 3210, 323, 324, 476, 477, 479, 480, 481, 4880, 486, 937/2, 938/2, 938/1, 940, 941, 942, 943, 944, 947, 9450 | 1/1/1, 1/1/2, 1/2, 1/3, 2/3, 186, 187, 188, 194, 2/5/2/2, 190, 192, 193, 194, 198, 199, 200, 215, 214, 216, 213, 217, 321, 3210, 323, 324, 476, 477, 479, 480, 481, 4880, 486, 937/2, 938/2, 938/1, 940, 941, 942, 943, 944, 947, 9450201, 208, 209, 487, 486, , 937/2, 938/2, 935, 933, 94/976/2, |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Madumar Bhat | 14, 15, 13, 12, 11, 5, 4, 3, 2, 10, 44, 30, 2900, 25, 22, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 15, 44, 450, 470, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 58 | 14, 15, 13, 12, 11, 5, 4, 3, 2, 10, 44, 30, 2900, 25, 22, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 15, 8, 7, 5, 44, 30, 23, 290, , 31, 37, 39, 42, 43, 45, 76, 49, 50, 49, , 54, 58 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Patha Khas | 605, 606, 614, 615, 616, 618, 619, 620, 623, 624, 625/3, 625/2, 625/1, 514, 512, 510, 508, 505, 501, 500, 628, 702, 632, 631, 635, 637, 638, 636, 472, 473, 474/1, 481, 482, | 605, 606, 614, 615, 616, 618, 619, 620, 623, 624, 625/3, 625/2, 625/1, 514, 512, 510, 508, 505, 501, 500, 628, 702, 632, 631, 635, 637, 638, 636, 472, 473, 474/1, 481, 482, 1167, 1166, 1253, 1257, 1270, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|-----------|-----------|-------------|---|--|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| | | | 1167, 1166, 1253, 1257, 1270, 1149, 1154, 1157, 1156, 1159, 1161, 1162, 1163, 1165, 1132, 486, 487, 488, 489, 493, 496, 497, 498, 705/3, 703/3, 1143, 1142, 1114, 1113, 1112, 1107, 1104, 1053, 1051, 1039, 1166, 1253, 1257, 1270, 1266, 1276, 1275, 1281, 1283, 1286, 1287, 1288, 1291/1, 1295, 1298, 1299, 1303, 1304, 1291/1, 1295, 1301, 1302, 507, 596, 702, 706/2, 716, 717, 1136, 1173, 1170, 1172, 1180, 1182, 1183, 1186, 1101, 1108, 1100, 1249, 1306, 1305 | 1149, 1154, 1157, 1156, 1159, 1161, 1162, 1163, 1165, 1132, 486, 487, 488, 489, 493, 496, 497, 498, 705/3, 703/3, 1143, 1142, 1114, 1113, 1112, 1107, 1104, 1053, 1051, 1039, 1166, 1253, 1257, 1270, 1266, 1276, 1275, 1281, 1283, 1286, 1287, 1288, 1291/1, 1295, 1298, 1299, 1303, 1304, 1291/1, 1295, 1301, 1302, 507, 596, 702, 706/2, 716, 717, 1136, 1173, 1170, 1172, 1180, 1182, 1183, 1186, 1101, 1108, 1100, 1249, 1306, 1305 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Jataua Khas | 290, 293, 299, 302, 304, 343, 345, 359, 358, 360, 365, 363, 362, 645, 641, 642, 141, 144, 145, 147, 148, 286, 283, 158, 284, 273, 280, 276, 279, 381, 267, 274, 266, 259, 258, 257, 647, 648, 342, 641, 640, 638, 636, 645, 635, 1105, 1107, 1118, 1115, 1114, 1113, 650, 651, 652, 653, 1102, 1103, 1120, 1122, 1121, 395, 301, 383, 386, 346, 351, 353, 354, 368, 377, 381, 382, 151, 157, 159, 281, 282, 166, 167, 273, 274, 268, 265, 284, 268, 649, 643, 639, 634, 653, 655, | 290, 293, 299, 302, 304, 343, 345, 359, 358, 360, 365, 363, 362, 645, 641, 642, 141, 144, 145, 147, 148, 286, 283, 158, 284, 273, 280, 276, 279, 381, 267, 274, 266, 259, 258, 257, 647, 648, 342, 641, 640, 638, 636, 645, 635, 1105, 1107, 1118, 1115, 1114, 1113, 650, 651, 652, 653, 1102, 1103, 1120, 1122, 1121, 395, 301, 383, 386, 346, 351, 353, 354, 368, 377, 381, 382, 151, 157, 159, 281, 282, 166, 167, 273, 274, 268, 265, 284, 268, 649, 643, 639, 634, 653, 655, |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Gudan wara | 159, 161/1, 157, 146, 154, 153, 386, 385, 383, 369, 368, 367, 357, 358, 359, 354, 353, 383, 375, 373, 372, 371, 527, 526, 277, 275, 273, 270, 269, 336, 353, 354, 527, 526, 530, 1168, 334, 1203, 321, 316, 282, 281, 275, 273, 277, 278, 316, 282, 281, | 159, 161/1, 157, 146, 154, 153, 386, 385, 383, 369, 368, 367, 357, 358, 359, 354, 353, 383, 375, 373, 372, 371, 527, 526, 277, 275, 273, 270, 269, 336, 353, 354, 527, 526, 530, 1168, 334, 1203, 321, 316, 282, 281, 275, 273, 277, 278, 316, 282, 281, 384, 381, 380, 1197, 1191, 369, 368, 367, 357, 365, 363, 358, 359, 354, 360, 352, 353, 269, 268, 270, 272, 525, 538, 531, 532, 333, 332, 331, 1203, 1169, 283, 234, 273, 72, 277, 278, 284, 283, |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Basgoee | 11, 12, 13, 14, 16, 17, 40, 41, 39, 42, 43, 44, 141, 139, 138, 130, 147, 144, 54, 55, 53, 52, 51, 46, 127, 126, 125, 129, 383, 384, 387, 388, 124, 119, 115 | 11, 12, 13, 14, 16, 17, 40, 41, 39, 42, 43, 44, 141, 139, 138, 130, 147, 144, 54, 55, 53, 52, 51, 46, 127, 126, 125, 129, 383, 384, 387, 388, 124, 119, 115, 10, 20, 15, 37, 148, 142, 131, 132, 60, 61, 63, 47, 124, 386, 129/0 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Samarra | 1879, 1878, 1877, 1876, 1874, 1874, 1852, 1853, 1856, 155, 1874, 1885, 1886, 1888, 1892, 1902, 1900, 2443, 1822, 1922, 1921, 1916, 1914, 1913, 1312, 1914, 1904, 1885/8, 1896, 2053, 1897, 2053, 1897, 2058, 1904, 2060, 1940/2449, 1904, 2050, 2049, 2049/8, 2075/3/2, 2075/1/3, 2076, 2076/25, 2076/25, 2076/12, 2076/28, 2049, 2044, 2043/1, 2043, 2078, | 1879, 1878, 1877, 1876, 1874, 1874, 1852, 1853, 1856, 155, 1874, 1885, 1886, 1888, 1892, 1902, 1900, 2443, 1822, 1922, 1921, 1916, 1914, 1913, 1312, 1914, 1904, 1885/8, 1896, 2053, 1897, 2053, 1897, 2058, 1904, 2060, 1940/2449, 1904, 2050, 2049, 2049/8, 1880, 2075/3/2, 2075/1/3, 2076, 2076/25, 2076/12, 2076/28, 2049, 2044, 2043/1, 2043, 2078, 1880, 1873, 1849/2, 1856/2, 1870, 1869, 1864, 1873, 1897, 1864, 1915, 19, 2054, 2055, 2075/2/3, 2075/1/3, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|-----------|-----------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Ajnour | 87, 88, 89, 90/1, 90/2, 220, 219, 218, 217, 216, 215/1, 215/2, 229, 222, 223, 238, 239, 242, 244, 245/1, 245/2, | 87, 88, 89, 90/1, 90/2, 220, 219, 218, 217, 216, 215/1, 215/2, 229, 222, 223, 238, 239, 242, 244, 245/1, 245/2, 86/2, 95, 230, 225, 224, 237, 243, 245, |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Amarpur | 190, 137, 133, 139/2, 139, 140, 142/1, 144/1, 122/2, 168/2, 167/2, 163/1, 158, 159/1, 184/1, 164, 166, 137, 133, 139/121, 168/1, 169, 181, 182/1, 184/3, 197/2, 1881, 493, 186/1, 185/1, 481, 186/1, 185/1, 481, 2060, 833, 838/1, 834, 493, 184/3, 192/1, 190/1, 239, 242, 243, 485, 2059, 2059, 477/2, 867/2, 866, 186, 2060, 833, 834, 838/1, 840, 841/1, 845/2, 1887/2, 1888/1, 1895/1, 1915/1, 1913/1, 2059, 869, 867/2, 861, 853, 851, 848, 847, 1882, 1885, 1884/1, 2001, 1910, 842, 845, 866, 191/1, 1917, 1913/1, 1924, 2061, 1981/1, 1986/2, 1910, 1991/1, 1984/1, 1986/1, 1987, 1986/2 | 190, 137, 133, 139/2, 139, 140, 142/1, 144/1, 122/2, 168/2, 167/2, 163/1, 158, 159/1, 184/1, 164, 166, 137, 133, 139/121, 168/1, 169, 181, 182/1, 184/3, 197/2, 1881, 493, 186/1, 185/1, 481, 2060, 833, 838/1, 834, 493, 184/3, 192/1, 192/3, 190/1, 239, 242, 243, 485, 2059, 2059, 477/2, 867/2, 866, 186, 2060, 833, 834, 838/1, 840, 841/1, 845/2, 1887/2, 1888/1, 1895/1, 1915/1, 1913/1, 2059, 869, 867/2, 861, 853, 851, 848, 847, 1882, 1885, 1884/1, 2001, 1910, 842, 845, 866, 191/1, 1917, 1913/1, 1924, 2061, 1981/1, 1986/2, 1910, 1991/1, 1984/1, 1986/1, 1987, 1986/2, 132, 129, 127, 126, 143, 132, 131, 120, 200, 192/1, 200, 232/2, 236, 232/2, 2058, 185, 823, 824, 830, 828, 835, 823, 824, 830, 828, 835, 1890, 1894, 1917, 873, 860, 854, 849, 1876, 1905, 1894, 1925, 1929, 1982, 1984, 1990, 1987/3/4 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Parau Garh | 31, 34, 134, 135, 30, 26, 21, 39, 2210, 39, 38, 37, 131/1, 132, 22, 28, 131/2, 137, 135, | 31, 34, 134, 135, 30, 26, 21, 39, 2210, 39, 38, 37, 131/1, 132, 22, 28, 131/2, 137, 135, 27, 29, 32, |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Jamanya Kheda | 3, 5, 6, 7, 83, 82, 84, 85, 155, 158, | 3, 5, 6, 7, 83, 82, 84, 85, 155, 158, 159 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Ganesh Ganj | 1, 2, 13, 12, 23, 19, 18, 17, | 1, 2, 13, 12, 23, 19, 18, 17, 24, 22, 20 |

II**Part-A**

| S.No. | Name of State Highway | Total Length (in Km.) | Name of Districts on the way |
|-------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Tikamgarh -Orchha (SH-37) | 72.00 | Tikamgarh |

Part-B**Details of land in between Building Lines and Control Lines**

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|-----------|-----------|-----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Tikamgarh | 634, 636, 638, 641, 642, 644, 578, 579, 577, 588, 586, 610, 612, 524, 525, 525, 528, 530, 537, 538, 568, 570 571, 572, 574, 575, 592, 482, 483, 490, 493, 494, 497, 498, 500, 585, 507, 504/2, 507, 510, 503/2, 513, 516, 513, 516, 517, 2055, 524, 468, 472, 473, 474/1, 477, 476, 482, 483, 592, 591, 607, 608, 632, 621, 523, 450, 489, 486, 437, 433, 432, 429, 2054/2, 522, 470, 475, 486, 489, 621, 567, 638, 592 | 634, 636, 638, 641, 642, 644, 578, 579, 577, 588, 586, 610, 612, 525, 525, 528, 530, 537, 538, 568, 570 571, 572, 574, 575, 592, 482, 483, 490, 493, 494, 497, 498, 500, 585, 507, 504/2, 507, 510, 503/2, 513, 516, 517, 2055, 524, 468, 472, 473, 474/1, 477, 476, 482, 483, 592, 591, 607, 608, 632, 621, 523, 450, 489, 486, 437, 433, 432, 429, 2054/2, 522, 470, 475, 486, 489, 621, 567, 638, 592 |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|-----------|-----------|----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Kunwar pura | 741, 740, 735, 734, 715, 716, 718, 717, 723, 724, 731, 732, | 741, 740, 735, 734, 715, 716, 718, 717, 723, 724, 731, 732, 736, 713, 722, 725, 730, |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Takha | 234/9, 270/1/2, 27204, 2720, 285, 135, 136, 138, 232/1, 231, 232/2/1, 234, 80/3/1, 95, 96/2, 118, 123, 130, 129, 132, 131, 78, 74, 75, 77, 80/3/1, 167/2, 150, 139, 229, 230, 80, 81, 94/1, 94/2, 97/1, 97/3 107, 108, 117, 118, 71, 69, 76, 80 | 234/9, 270/1/2, 27204, 2720, 285, 135, 136, 138, 232/1, 231, 232/2/1, 234, 80/3/1, 95, 96/2, 118, 123, 130, 129, 132, 131, 78, 74, 75, 77, 80/3/1, 167/2, 150, 139, 229, 230, 80, 81, 94/1, 94/2, 97/1, 97/3 107, 108, 117, 118, 71, 69, 76, 80 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Ananta pura | 533/2/2/4/, 533/2/3/, 533/2/3/2, 540/1, 553, 560, 561/1 561/2, 561, 563, 568, 126, 262, 2020, 263, 2020, 264/1/2, 264/1/1, 533/2/1, 533/2/2/1, 533/2/2/5, 25, 578, 580, 58, 584, 585, 588, 591, 592, 6, 7, 8, 84, 82, 86, 85, 80, 87, 88, 89, 90, 94 95, 103, 106, 110, 111, 112, 117, 119, 121, 554, 559, 558, 2020, 625, 631, 589, 590, 9, 10 78, 79, 91, 94, 98, 101, 102, 107, 116, 115, 118, 590, 96, | 533/2/2/4/, 533/2/3/, 533/2/3/2, 540/1, 553, 560, 561/1 561/2, 561, 563, 568, 126, 262, 2020, 263, 2020, 264/1/2, 264/1/1, 533/2/1, 533/2/2/1, 533/2/2/5, 25, 578, 580, 58, 584, 585, 588, 591, 592, 6, 7, 8, 84, 82, 86, 85, 80, 87, 88, 89, 90, 94 95, 103, 106, 110, 111, 112, 117, 119, 121, 554, 559, 558, 2020, 625, 631, 589, 590, 9, 10 78, 79, 91, 94, 98, 101, 102, 107, 116, 115, 118, 590, 96, |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Pahadi Khurd | 275/5, 274/4, 274/3, 274/2, 273, 222/3, 222/4, 206/18/2/2, 206/18/2/1, 206/18/1, 206/17, 206/2, 206/16/2, 206/1, 6/1, 206/13/1, 206/12/2, 206/12/1, 205/2, 205/1, 120/1, 120/2/1, | 275/5, 274/4, 274/3, 274/2, 273, 222/3, 222/4, 206/18/2/2, 206/18/2/1, 206/18/1, 206/17, 206/2, 206/16/2, 206/16/1, 206/13/1, 206/12/2, 206/12/1, 205/2, 205/1, 120/1, 120/2/1, 274/6 |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Badagaon Khurd | 263/1, 260, 259, 249, 248, 263/5, 247, 246, 67, 7/3, 245, 140, 258, 7/2, 7/1, 8/1, 8/3, 12, 11, 13, 14, 18, 1720, 19/1, | 263/1, 260, 259, 249, 248, 263/5, 247, 246, 67, 7/3, 245, 140, 258, 7/2, 7/1, 8/1, 8/3, 12, 11, 13, 14, 18, 1720, 19/1, 257, 250, 251, 144, 139/2, 143/2, 139/1, 138, 137, 17, 19/2, |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Alampura | 395, 391/1, 391/2 392, 384/2, 384/1, 350, 349, 348, 345, 342, 338, 337, 385/2, 385/3, 284, 286, 609, 608, 607, 606, 605, 595, 594, 267, 238, 237, 234, 236, 235, 233, 231, 229, 594, 585, 584, 579, 578, 577, 25, 24, 21, 20, 6, 5, 4, 353, 351, 347, 341, 340 339, 285/, 596, 611, 598, 593, 269, 265, 264, 266, 239, 241, 232, 230, 598, 593, 627, 583, 628, 28, 10, 9, 8, 7, 22, 19, | 395, 391/1, 391/2, 392, 384/2, 384/1, 350, 349, 348, 345, 342, 338, 337, 385/2, 385/3, 284, 286, 609, 608, 607, 606, 605, 595, 594, 267, 238, 237, 234, 236, 235, 233, 231, 229, 594, 585, 584, 579, 578, 577, 25, 24, 21, 20, 6, 5, 4, 353, 351, 347, 341, 340 339, 285/, 596, 611, 598, 593, 269, 265, 264, 266, 239, 241, 232, 230, 598, 593, 627, 583, 628, 28, 10, 9, 8, 7, 22, 19, |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Heera Nagar | 283, 284, 285, 497, 498, 499, 513, 512, 514, 526, 277, 275, 276, 225, 226, 234, 235, 236, 269, 268, 266, 283, 273, 280, 278, 277, 275, 276, | 283, 284, 285, 497, 498, 499, 513, 512, 514, 526, 277, 275, 276, 225, 226, 234, 235, 236, 269, 268, 266, 283, 273, 280, 278, 277, 275, 276, 515, 241, 237, 265, |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Bandhiya | 448, 2020, 452/6, 452/3/2, 452/3/1, 455, 535, 500, 536, 533, 541, 545, 544, | 448, 2020, 452/6, 452/3/2, 452/3/1, 455, 535, 500, 536, 533, 541, 545, 544, 499, 543, |
| Tikamgarh | Tikamgarh | Karikhas | 15, 17, 19, 21, 25, 30, 2, 3, 4, 6, 10, 12, | 15, 17, 19, 21, 25, 30, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 22, 24, 3753, 11 |
| Tikamgarh | Mohangarh | Rampura | 324, 304/1, 307/1, 304/2, 307/2, | 324, 304/1, 307/1, 304/2, 307/2, 310, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|-----------|-----------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 310, 311/1/1, 311/1/8, 311/1/3, 319, 274, 273, 276, 278/3/4, 293/3, 279/2/4, 281/1, 281/2, 303, | 311/1/1, 311/1/8, 311/1/3, 319, 274, 273, 276, 278/3/4, 293/3, 279/2/4, 281/1, 281/2, 303, 301, 300, 306/2, 309/1, 309/3, 271, 272, 269, 278, 279/1, |
| Tikamgarh | Mohangarh | Vihari pura | 441, 446, 7/3, 7/2, 14/1, 14/2, 22/2, | 441, 446, 7/3, 7/2, 14/1, 14/2, 22/2, 2/1, 5/1, 7/1, 12/1 |
| Tikamgarh | Mohangarh | Ram Nagar | 1074/3, 1074/1, 1076, 1085, 1086, 1096, 1095, 1094, 1098, 1099, 1100, 1107, 1116, 1072/1, 1072, 1078, 1074/4, 1074/3, 1074/1, 1076, 1091, | 1074/3, 1074/1, 1076, 1085, 1086, 1096, 1095, 1094, 1098, 1099, 1100, 1107, 1116, 1072/1, 1072, , 1078, 1074/4, 1074/3, 1074/1, 1076, 1091, 1083, 540, 533, 1076, |
| Tikamgarh | Mohangarh | Bhagwant pura | 786/ 3, 786/2, 786/1, 774, 766, 765, 752, 750, 751, 787, | 786/ 3, 786/2, 786/1, 774, 766, 765, 752, 750, 751, 787, 786/4, 767, 763, 763, 749, 748, 747, |
| Tikamgarh | Jatara | Kari Uttar | 19/1/6, 19/1/7, 19/1/8, 1/1, 1/2, | 19/1/6, 19/1/7, 19/1/8, 1/1, 1/2, |
| Tikamgarh | Jatara | Bilgaon | 59, 63, 64, 62, 65, 66, 69, 67, 5, 6, 3 10, 51, 54, 10, | 59, 63, 64, 62, 65, 66, 69, 67, 5, 6, 10, 51, 54, 10, 49 |
| Tikamgarh | Jatara | Vermatal | 981/1, 981/2, 980, 975, 979, 977, 995, 999, 1001, 1003, 401, 404, 405, 406, 407 409, 410, 411, 412, 413, 955, 960, 964, 965, 886, 381, 1053, 388, 387, 987, 989, 990, 992, 995/2, 992, 995/2, 232, 230, 229, 420 393, 396, 1022, 398, 399, 300, 301, 373, 374, 375, 299, 255, 254, 253, 252, 246, 245, 242, 243, 235, 234, 234, 211, 212, 233, 259, 260 265, 266, 267, 274, 275, 216, 297, 296, 973, 402, 403, 418, 416, 415, 954, 956, 958, 885, 386, 391, 247, 236, 240, 261, 264, 268, 273, 277, 278, | 981/1, 981/2, 980, 975, 979, 977, 995, 999, 1001, 1003, 401, 404, 405, 406, 407 409, 410, 411, 412, 413, 955, 960, 964, 965, 886, 381, 1053, 388, 387, 987, 989, 990, 992, 995/2, 232, 230, 229, 420 393, 396, 1022, 398, 399, 300, 301, 373, 374, 375, 299, 255, 254, 253, 252, 246, 245, 242, 243, 235, 234, 211, 212, 233, 259, 260 265, 266, 267, 274, 275, 216, 297, 296, 973, 402, 403, 418, 416, 415, 954, 956, 958, 885, 386, 391, 247, 236, 240, 261, 264, 268, 273, 277, 278, |
| Tikamgarh | Jatara | Kurrace | 741, 746, 747, 745, 744, 717, 682, 678/2, 678/1, 1092, 677, 674, 675, 676, 666, 665, 667, 668, 664, 663, 662, 661, 609, 607, 608, 606, 605, 601, 603, 596, 604, 1028, 1034, 1027, 1035, 1028, 1025, 1023, 1021, 1022, 1119, 1120, 752, 751, 753, 754, 757, 756, 758, 759, 762, 766, 765, 767, 773, 768, 769, 770, 771, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 835, 834, 594, 593, 591, 592, 590, 1088, 506/1087, 506/2/2, 506/2/1, 503, 504, 502/2, 502/1/3/1 , 502/1/2, 502/1/1, 836, 837, 838, 842, 844/1845/1, 844/2, 845/2, 844/3, 844/3, 845/3, 846, 857/1, 743, 435, 734, 729, 733 732, 731, 730, 685, 684, 673, 672, 671, 670, 655, 669, 657, 658/2, 660, 659, 601, 611, 610, 602, 597, 595, 1033, 1038, 1039 1024/2, 1024/1, 1013, 1118, 1117, 1116, 761, 766/2, 766/1, 763/1, 774, 776, 781, | 741, 746, 747, 745, 744, 717, 682, 678/2, 678/1, 1092, 677, 674, 675, 676, 666, 665, 667, 668, 664, 663, 662, 661, 609, 607, 608, 606, 605, 601, 603, 596, 604, 1028, 1034, 1027, 1035, 1028, 1025, 1023, 1021, 1022, 1119, 1120, 752, 751, 753, 754, 757, 756, 758, 759, 762, 766, 765, 767, 773, 768, 769, 770, 771, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 835, 834, 594, 593, 591, 592, 590, 1088, 506/1087, 506/2/2, 506/2/1, 503, 504, 502/2, 502/1/3/1 , 502/1/2, 502/1/1, 836, 837, 838, 842, 844/1845/1, 844/2, 845/2, 844/3, 845/3, 846, 857/1, 743, 435, 734, 729, 733 732, 731, 730, 685, 684, 673, 672, 671, 670, 655, 669, 657, 658/2, 660, 659, 601, 611, 610, 602, 597, 595, 1033, 1038, 1039 1024/2, 1024/1, 1013, 1118, 1117, 1116, 761, 766/2, 766/1, 763/1, 774, 776, 781, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m, either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m, either sides of the road) |
|-----------|----------|---------|---|---|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| Tikamgarh | Jatara | Digoda | 1975, 1974, 1976, 1970, 1969, 1968, 1967, 1965, 1964, 1955, 1954/1, 1954/2, 1954/3, 1948, 1947/2, 1981, 1980, 1994, 1996, 1995, 1998, 1997/1, 1997/2, 2000, 2001, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 33, 81, 2012/1, 2012/2, 2015, 2016, 2018, 1947/1, 1945, 1946, 1944, 1943, 1942, 1937, 1936, 1930, 1935, 1933, 1934, 1922, 1931, 1932, 1923, 1919, 1922, 1921, 1915, 1916, 1912, 1914, 1910, 1913, 1906, 1907, 1908, 1911, 1900/4, 1900/3, 1900/2, 1899, 1900/1, 1900, 1898, 3529, 2017, 2034/2, 2035/1, 2035/2, 2035/3, 2037, 2038, 2130, 2131, 2132, 2133, 2129, 2134, 2135, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2143, 2144, 2145, 2146, 2150, 2151, 2149, 2153, 1893, 1892, 969, 966, 968/1, 968/1/2, 970, 971, 3350, 981, 3351, 386, 149, 204, 205, 219, 216, 206, 211, 215, 214, 212, 3525, 1889, 1890, 1894, 133, 1877, 1876, 1875, 1874, 1880, 1878, 1873, 1869, 1870, 1868, 1871, 1872, 1864, 1871, 1872, 1864, 1867, 1865, 1866, 1863, 1862, 1861, 1859, 985, 382, 377, 3409, 3408, 3407, 373, 371/1, 372, 354/2, 354/1, 370, 320, 367, 213, 199, 200, 198, 197, 195, 190, 191, 192, 193, 194, 188, 186, 187, 184, 170, 169, 171, 187, 184, 170, 169, 171, 168/1, 167, 166/3, 166/2, 166/1, 154/1, 163, 161/2, 162/3, 152/2, 368, 366, 365, 364, 221, 222, 232/2, 232/1, 233, 234/2, 234/1, 235/2, 236, 249, 250, 251, 252/2, 252/1, 254, 253, 262, 261/1, 261/2, 260/2, 260/1, 263, 264/2, 264/1, 265, 276, 277, 275/2, 275/1, 278, 279, 290/1/5 | 782, 772, 818, 819, 827, 833, 588, 589, 1089, 1086, 840, 841, 862, 844/5, 844/4, 849, 854, 847, 849, 848, 850, 853, 854, 1975, 1974, 1976, 1970, 1969, 1968, 1967, 1965, 1964, 1955, 1954/1, 1954/2, 1954/3, 1948, 1947/2, 1981, 1980, 1994, 1996, 1995, 1998, 1997/1, 1997/2, 2000, 2001, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 33, 81, 2012/1, 2012/2, 2015, 2016, 2018, 1947/1, 1945, 1946, 1944, 1943, 1942, 1937, 1936, 1930, 1935, 1933, 1934, 1922, 1931, 1932, 1923, 1919, 1922, 1921, 1915, 1916, 1912, 1914, 1910, 1913, 1906, 1907, 1908, 1911, 1900/4, 1900/3, 1900/2, 1899, 1900/1, 1900, 1898, 3529, 2017, 2034/2, 2035/1, 2035/2, 2035/3, 2037, 2038, 2130, 2131, 2132, 2133, 2129, 2134, 2135, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2150, 2151, 2149, 2153, 1893, 1892, 969, 966, 968/1, 968/1/2, 970, 971, 3350, 981, 3351, 386, 149, 204, 205, 219, 216, 206, 211, 215, 214, 212, 3525, 1889, 1890, 1894, 133, 1877, 1876, 1875, 1874, 1880, 1878, 1873, 1869, 1870, 1868, 1871, 1872, 1864, 1867, 1865, 1866, 1863, 1862, 1861, 1859, 985, 382, 377, 3409, 3408, 3407, 373, 371/1, 372, 354/2, 354/1, 370, 320, 367, 213, 199, 200, 198, 197, 195, 190, 191, 192, 193, 194, 188, 186, 187, 184, 170, 169, 171, 168/1, 167, 166/3, 166/2, 166/1, 166/1, 154/1, 163, 161/2, 162/3, 152/2, 261/1, 261/2, 260/2, 260/1, 263, 264/2, 264/1, 265, 276, 277, 275/2, 275/1, 278, 279, 290/1/5, 1475, 1473, 1471, 1467, 1465, 1621, 1624, 1627, 2425, 1629, 1422, 2072, 2078, 1510, 1518, 1528, 1523, 1527, 2061, 2057, 2115, 2116, 2103, 2102, 2081, 2082, 2487, 2484, 2094, 2093, 2091, 1366, 1367, 1369, 794, 1051, 1052, 1054, 1056, 1065, 2102, 1335, |
| Tikamgarh | Lidhaura | Bamhori | 1478, 1476, 1474, 1472, 1470, 1469, 1468, 1464, 1463, 1625, 1626, 1617, 1616, 2424, 1514, 1482, 1481, 1484, 1485, 1486, 1501, 1502, 1504, 1462, 1461, 1460, 2067, 2068, 2066, 2065, 2077/4, 2077/3, 2077/5, 2080/2, | 1475, 1473, 1471, 1467, 1465, 1621, 1624, 1627, 2425, 1629, 1422, 2072, 2078, 1510, 1518, 1528, 1523, 1527, 2061, 2057, 2115, 2116, 2103, 2102, 2081, 2082, 2487, 2484, 2094, 2093, 2091, 1366, 1367, 1369, 794, 1051, 1052, 1054, 1056, 1065, 2102, 1335, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|-----------|------------|--------------|--|--|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| Tikamgarh | Prithvipur | Jyora Moura | 2080, 1508, 1509, 1513, 1514, 1516, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1525, 1526, 2062, 2106, 2107, 2105, 2104, 2101, 2477, 2469, 2094, 2095, 2097, 1365, 1359, 1055, 2450, 1332, 1333, 1334, 1335, 1337, 1345, 1355, 1103, 1093, 1238, 1232, 1050, 1055, 1073, 1079, 1023, 1027, 1024, 1022, 1020, 1009, 1233, 1235, 1465, 1620, 1619, 1364, 1023, | 1341, 1343, 1104, 1105, 1097, 1091, 997, 1003, 1236, 1613, 1465, 1620, 1619, 1364, 1023, |
| | | | 1776, 1785, 1788, 1789, 1790, 1816, 1816, 1735, 1730, 1656, 1645, 1650, 1093, 2026, 2026, 2026, 2021, 1937, 1933, 1927, 2019, 1024, 1825, 1840, 1841, 1842, 1090, 1085, 1070, 1072, 882, 888, 1000/1, 958, 915, 904, 906, 912, 911/3, 2292/4/3, 1296, 2292/4/2, 914, 2266, 2274, 2278, 2288, 2289, 2287, 2301, 1727, 1091, 889, 890, 891, 895, 866, 863, 864, 853, 852, 847, 901, 903, 904, 886, 885, 867, 854, 1069, 1065, 916, 1778, 1807, 1808, 1811, 2018, 2010, 1953, 1925, 1831, 1869, 1076, 1094, 881, 885, 868, 851, 848, 846, 843, 1068, 1063, 1064, 1013, 1015, 997, 999, 958, 957, 956, 952, 950, 1916, 906/1, 611/6, 2292/3, 2293/2/2, 2019, 2040, 2054, | |
| Tikamgarh | Prithvipur | Biroura Khet | 1333/1/1, 1326, 1346, 1307/2, 1307/3/2, 1310/2/2, 1310/2, 1280, 1284, 1285, 1288, 1287, 1292, 1293, 1013, 1304/1/4, 1304/3, 1304/2, 1301/3, 1301/1, 1299, 1297, 1296, 1294, 991, 993, 1014, 1013, 1010, 1011, 109, 1001, 1000, 726, 723, 722, 738, 734, 737, 741, 774, 900, 1060, 994, 930, 927, 926, 929, 922, 782, 781, 917, 779, 776, 752, 749, 751, 742, 743, 1374, 686, 685, 683, 677/2, 678, 679, 680, 681, 68/2, 68, 68/3, 747, 845, 852/2, 852/1, 853, 24, 25/14, 24, 185/1, 177/1, 176/1, 175/1, 151, 149, 147, 145/1, 144/1, 140/1, 138/1, 66/1376, 661, 65, 70/1, 71/1, 74/1, 78/1, 79/1, 84/1, 105/1, 106/1, 107/1, 110/1, 111/1, 117/1, 137/1, 132/1, 129/1, 131/1, | 1333/1/1, 1326, 1346, 1307/2, 1307/3/2, 1310/2/2, 1310/2, 1280, 1284, 1285, 1288, 1287, 1292, 1293, 1013, 1304/1/4, 1304/3, 1304/2, 1301/3, 1301/1, 1299, 1297, 1296, 1294, 991, 993, 1014, 1013, 1010, 1011, 109, 1001, 1000, 726, 723, 722, 738, 734, 737, 741, 774, 900, 1060, 994, 930, 927, 926, 929, 922, 782, 781, 917, 779, 776, 752, 749, 751, 742, 743, 1374, 686, 685, 683, 677/2, 678, 679, 680, 681, 68/2, 68, 68/3, 747, 845, 852/2, 852/1, 853, 24, 25/14, 24, 185/1, 177/1, 176/1, 175/1, 151, 149, 147, 145/1, 144/1, 140/1, 138/1, 66/1376, 661, 65, 70/1, 71/1, 74/1, 78/1, 79/1, 84/1, 105/1, 106/1, 107/1, 110/1, 111/1, 117/1, 137/1, 132/1, 129/1, 131/1, 1307/3/3, 1278, 1281, 1289, 1269/1, 982/1, 1269, 1002, 1003, 999, 725, 721, 708, 736, 737, 741, 693, 1374, 939, 931, 932, 933, 784, 788, 791, 754, 755, 759, 761, 688, 670/8, 338, 846, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|-----------|------------|-------------|---|---|
| | | | 4 | 5 |
| Tikamgarh | Prithvipur | Madiya Khas | 865, 864, 863, 850, 758, 852, 851, 751, 868, 878, 879, 890, 848, 891, 841, 838, 835, 834, 829, 833, 830, 831, 832, 824, 817, 802, 803, 812, 810, 779, 808, 778, 777, 761, 762, 724, 723, 751, 477, 476, 478, 482, 473, 87, 734, 735, 675, 676, 680, 675, 749, 672, 590, 586, 584, 583, 581, 749, 573, 572, 561, 543, 532, 485, 489, 490, 494, 936, 495, 440, 454, 458, 452, 459, 471, 461, 464, 201, 200, 188, 198, 189, 196, 192, 139, 138, 92, 93, 106, 108, 102, 108, 107, 85, 83, 82, 52, 90, 87, 1, 51, 49, 48, 42, 41, 48, 35, 37, 36, 39, 35, 34, 32, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 | 849, 850, 178, 179, 180, 174, 73, 75, 76, 81, 112, 115, 116, 119, 865, 864, 863, 850, 758, 852, 851, 751, 868, 878, 879, 890, 848, 891, 841, 838, 835, 834, 829, 833, 830, 831, 832, 824, 817, 802, 803, 812, 810, 779, 808, 778, 777, 761, 762, 724, 723, 751, 477, 476, 478, 482, 473, 87, 734, 735, 675, 676, 680, 675, 749, 672, 590, 586, 584, 583, 581, 749, 573, 572, 561, 543, 532, 485, 489, 490, 494, 936, 495, 440, 454, 458, 452, 459, 471, 461, 464, 201, 200, 188, 198, 189, 196, 192, 139, 138, 92, 93, 106, 108, 102, 108, 107, 85, 83, 82, 52, 90, 87, 1, 51, 49, 48, 42, 41, 48, 35, 37, 36, 39, 35, 34, 32, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 858, 861, 863, 752, 754, 883, 869, 871, 874, 893, 892, 838, 839, 840, 837, 825, 804, 806, 800, 780, 782, 781, 773, 774, 765, 725, 717, 739, 740, 754, 90, 738, 740, 742, 744, 681, 669, 593, 595, 588, 587, 578, 574, 571, 558, 546, 539, 536, 531, 530, 591, 1493, 438, 447, 450, 451, 463, 462, 202, 187, 186, 185, 154, 182, 183, 140, 141, 94, 109, 84, 77, 80, 76, 79, 65, 63, 60, 59, 58, 53, 61, 62, 57, 47, 46, 44, 43, 33, 17, 14, 13, 10, 9 |
| Tikamgarh | Prithvipur | Achhrumata | 654, 653, 598/2/3, 596, 595, 594, 574, 346, 348, 345, 263, 245/1, 245/2, 246, 217, 212, 213, 222, 223, 224, 225, 206, 252, 249, 259, 261, 248, 78/4/2, 78/3, 73/3, 63, 78, 74/4, 75, 74/2/2, 71/2, 71/6/2, 71/6/1, 68, 67, 69, 64, 60, 52, 61, 50/1/2/1, 50/1, 60, 52, 654, 653, 598/2/3, 595/2, 595, 594, 574, 252, 261, 345, 263, 245/2, 245/1, 246, 212, 222, 223, 224, 225, 206, 259, 261, 78/4/2, 78/3, 63, 78, 74/4, 75, 74/2/2, 71/6/2, 67, 68, 63, 64/0, 60, 71/6/2, 71/6/1, 67, 68, 50/1/2/1, 60, 52, 596, 553/1/1, 598/1/2, 592, 590, 352, 351, 353, 358, 243, 240, 216, 215, 220, 228, 230, 226, 196, 197, 78/4/1/1, 78/4/1/2, 78/6, 66, 559/1/1, 598/1/2, 598/2/1, 596, 592, 590, 249, 346, 348, 293/0, 243, 240, 216, 217, 215, 226, 228, 230, 248, 78/4/1/2, 78/4/1/1, 73/3, 78/078/6, 71/2 71/6/1, 67 68, 61, 52, 66 | 654, 653, 598/2/3, 596, 595, 594, 574, 346, 348, 345, 263, 245/1, 245/2, 246, 217, 212, 213, 222, 223, 224, 225, 206, 252, 249, 259, 261, 248, 78/4/2, 78/3, 73/3, 63, 78, 74/4, 75, 74/2/2, 71/2, 71/6/2, 71/6/1, 68, 67, 69, 64, 60, 52, 61, 50/1/2/1, 50/1, 60, 52, 654, 653, 598/2/3, 595/2, 595, 594, 574, 252, 261, 345, 263, 245/2, 245/1, 246, 212, 222, 223, 224, 225, 206, 259, 261, 78/4/2, 78/3, 63, 78, 74/4, 75, 74/2/2, 71/6/2, 67, 68, 63, 64/0, 60, 71/6/2, 71/6/1, 67, 68, 50/1/2/1, 60, 52, 596, 553/1/1, 598/1/2, 592, 590, 352, 351, 353, 358, 243, 240, 216, 215, 220, 228, 230, 226, 196, 197, 78/4/1/1, 78/4/1/2, 78/6, 66, 559/1/1, 598/1/2, 598/2/1, 596, 592, 590, 249, 346, 348, 293/0, 243, 240, 216, 217, 215, 226, 228, 230, 248, 78/4/1/2, 78/4/1/1, 73/3, 78/078/6, 71/2 71/6/1, 67 68, 61, 52, 66 |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|-----------|------------|--------------|--|--|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| Tikamgarh | Prithvipur | Prithvipur | 1722/1, 1722, 1615/1, 1614/1, 1732/2, 1734/2, 1755, 1759, 1758, 1606/1, 1862/1 1862/3, 1875/1/2, 4610, 1871, 1916, 1922, 4296/1/2, 4296/1/1, 4291, 4292, 4290, 1799, 1798/2, 1836/2, 1837/1, 1837/2, 1838, 1846, 1848, 1847, 1849, 1850, 1732, 1732/1, 1734/1, 1736, 1756/2, 1756/1, 1757, 1763, 1796, 1607/1, 1614/2, 1606/2, 1876, 1869, 1870, 46914, 1875/1/1, 4615, 1873, 1872, 1854/1/2/3, 1853, 1917, 1918, 42, 1847, 1845, 4362/1, 4362/3, 4362/2, 4361, 4298, 4286, 4285, 2130, 2120, 2111, 2095, 2093, 2097, 2085, 2084, 1134, 1133, 4583, 1211, 4316, 4317, 4318, 4319, 4277, 4279, 4281, 2145, 2141, 2139, 2170, 2169, 2188, 2179, 2185, 2187, 2194, 2195, 1130, 1129, 1214, 1087, 1055, 1048, 1028, 1027, 676, 677, 678, 681, 675, 728, 732, 734, 721, 720, 719, 735, 751, 738, 739, 741, 734, 745, 744, 790, 786, 791, 788, 789, 1116, 1108, 1103, 1092, 1090, 604, 605, 610, 609, 611, 612, 613, 614, 659, 661, 663, 660, 665, 670, 671, 292, 291, 282, 176, 173, 174, 167, 166, 164, 144, 145, 146, 143, 141, 147, 1463, 789, 792, 794, 793, 781, 795, 796, 799, 812, 813, 817, 816, 815, 814, 142, 134, 135, 1725, 1725, 1609, 1745, 1746, 1761, 1762, 1764, 1605, 1603, 1862, 3, 1866, 1859, 1854/1/2/1, 1920, 1919, 1921, 1923, 4291 | 1722/1, 1722, 1615/1, 1614/1, 1732/2, 1734/2, 1755, 1759, 1758, 1606/1, 1862/1 1862/3, 1875/1/2, 4610, 1871, 1916, 1922, 4296/1/2, 4296/1/1, 4291, 4292, 4290, 1799, 1798/2, 1836/2, 1837/1, 1837/2, 1838, 1846, 1848, 1847, 1849, 1850, 1732, 1732/1, 1734/1, 1736, 1756/2, 1756/1, 1757, 1763, 1796, 1607/1, 1614/2, 1606/2, 1876, 1869, 1870, 46914, 1875/1/1, 4615, 1873, 1872, 1854/1/2/3, 1853, 1917, 1918, 42, 1847, 1845, 4362/1, 4362/3, 4362/2, 4361, 4298, 4286, 4285, 2130, 2120, 2111, 2095, 2093, 2097, 2085, 2084, 1134, 1133, 4583, 1211, 4316, 4317, 4318, 4319, 4277, 4279, 4281, 2145, 2141, 2139, 2170, 2169, 2188, 2179, 2185, 2187, 2194, 2195, 1130, 1129, 1214, 1087, 1055, 1048, 1028, 1027, 676, 677, 678, 681, 675, 728, 732, 734, 721, 720, 719, 735, 751, 738, 739, 741, 734, 745, 744, 790, 786, 791, 788, 789, 1116, 1108, 1103, 1092, 1090, 604, 605, 610, 609, 611, 612, 613, 614, 659, 661, 663, 660, 665, 670, 671, 292, 291, 282, 176, 173, 174, 167, 166, 164, 144, 145, 146, 143, 141, 147, 1463, 789, 792, 794, 793, 781, 795, 796, 799, 812, 813, 817, 816, 815, 814, 142, 134, 135, 1725, 1725, 1609, 1745, 1746, 1761, 1762, 1764, 1605, 1603, 1862, 3, 1866, 1859, 1854/1/2/1, 1920, 1919, 1921, 1923, 4291 |
| Tikamgarh | Prithvipur | Ladwari Khas | 535, 533, 540, 541/2, 521, 511/1, 487, 486, 485, 487, 531, 523, | 535, 533, 540, 541/2, 521, 511/1, 487, 486, 485, 487, 531, 523, 536, 537, 517, 516/3, 510, 488, 490, 524, |
| Tikamgarh | Prithvipur | Vindpura | 708, 694, 688, 686, 683, 491/2/2, 493, 491, 489, 647, 649/1, 671, 674, 676, 679, 678, 495, 487, 481, 479, 477, 476, 116, 113, 98, 99/2, 84, 85, 82/1, 46, 45/2, 45/1, 44, 32, 31, 29/2, 29/1, 107, 108, 137, 136, 138, 139, 27, 26, 24/1, 23/2, 21/2/3, 21/2, 23/1, 6, 5, 4/3, 3/3, 517, 490/1, 490/2, 490, 693, 692, 689, 690, 653, 677, 496, 1038/4, 497, 485, 473, 472, 471, 470, 469, 94, 95, 92, 936, 91, 90, 87, 86, 81, 80, 48, 39, 43, 42, 41, 33, 34, 30, 115, 111, 109, 132, 135, 134, 25, 21/1, 8/2, 8/3 | 708, 694, 688, 686, 683, 491/2/2, 493, 491, 489, 647, 649/1, 671, 674, 676, 679, 678, 495, 487, 481, 479, 477, 476, 116, 113, 98, 99/2, 84, 85, 82/1, 46, 45/2, 45/1, 44, 32, 31, 29/2, 29/1, 107, 108, 137, 136, 138, 139, 27, 26, 24/1, 23/2, 21/2/3, 21/2, 23/1, 6, 5, 4/3, 3/3, 517, 490/1, 490/2, 490, 693, 692, 689, 690, 653, 677, 496, 1038/4, 497, 485, 473, 472, 471, 470, 469, 94, 95, 92, 936, 91, 90, 87, 86, 81, 80, 48, 39, 43, 42, 41, 33, 34, 30, 115, 111, 109, 132, 135, 134, 25, 21/1, 8/2, 8/3 |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m, either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m, either sides of the road) |
|-----------|------------|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tikamgarh | Prithvipur | Naiguva Khas | 978, 978/1, 978/1/1/3, 1085/2, 1085/1/4, 1244/1/2, 1244/1/1, 1218/2, 1218/3, 12818/2, 1218, 1206/1/7, 1034, 1085/1, 1192, 1190, 1189, 1187, 1186, 1164, 1206, 1205 1204, 1203, 1196 | 978, 978/1, 978/1/1/3, 1085/2, 1085/1/4, 1244/1/2, 1244/1/1, 1218/2, 1218/3, 12818/2, 1218, 1206/1/7, 1034, 1085/1, 1192, 1190, 1189, 1187, 1186, 1164, 1206, 1205 1204, 1203, 1196, 978/1/7, 978/1/6, 978/1/1/2, 1014, 1018, 1017, 1019, 1020, 1030, 1244 |
| Tikamgarh | Prithvipur | Panihari | 898, 822, 823, 885, 887, 890, 676, 901, 902/1, 902/2, 903, 896, 894, 895/2, 640, 641, 638, 675, 644, 645, 647, 648, 649, 650, 249, 24/8, 637, 635, 627, 649, 650, 217/1, 215, 625/5, 623/2/3, 623/2/1, 623/2, 623/3, 623/4, 621 | 898, 822, 823, 885, 887, 890, 676, 901, 902/1, 902/2, 903, 896, 894, 895/2, 640, 641, 638, 675, 644, 645, 647, 648, 649, 650, 249, 24/8, 637, 635, 627, 649, 650, 217/1, 215, 625/5, 623/2/3, 623/2/1, 623/2, 623/3, 623/4, 621, 814, 815, 884, 879, 87, 902/3, 820, 816, 817, 807, 673, 671, 670, 652, 653, 651, 224, 632, 628, 626, 627/3, 625/1/6, 25/3, 625/4, 623/5, 623/2, 250, 223, 111, 627/3, 625/3, 625/4, 816, 817, 807 |
| Tikamgarh | Orchha | Orchha | 45, 455/10, 457, 814, 812, 810, 805, 803, 802, 466, 468, 560, 561, 562, 801, 800, 799, 773, 774, 772, 771, 762, 557, 563, 564, 565, 566, 638, 719, 721, 718, 717, 715, 640/3, 640/1/1, 640/4, 701, 670, 675, 674, 677, 676, 667, 683, 666/1, 666/2/1, 666/1, 666/2/1 | 45, 455/10, 457, 814, 812, 810, 805, 803, 802, 466, 468, 560, 561, 562, 801, 800, 799, 773, 774, 772, 771, 762, 557, 563, 564, 565, 566, 638, 719, 721, 718, 717, 715, 640/3, 640/1/1, 640/4, 701, 670, 675, 674, 677, 676, 667, 683, 666/1, 666/2/1, 456, 819, 804, 458, 460, 472, 795, 796, 770, 769, 768, 733, 573, 720, 724, 723, 728, 680, 684 |

Under Section 12(2) of Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, any or all persons affected by such notification who may wish to make any objection or suggestion with respect to the issue of such notification, may submit their objections or suggestions in writing to the Highway Authority (Managing Director/Divisional Manager M.P. Road Development Corporation Ltd.) or appear before such authority within one month of the publication of the notification in the official Gazette or within 15 days from the date of the publication of the notification in the village, whichever period expires later.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

क्रमांक ए.23.2/15/आ) मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 12 (1) के निबंधनों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निम्न अनुसूची के खण्ड-अ में वर्णित राज्य राजमार्ग के लिए खण्ड-ब में अंकित भूमि विवरण के अनुरूप भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखा की अधिसूचना जारी किया जाना प्रस्तावित है :—

I)

“खण्ड-अ”

| अ. क्र. | अधिसूचित मार्ग का नाम | सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में) | राज्यमार्ग में आने वाले ज़िले |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | बीना — खिमलासा — मालथौन मार्ग, राज्यमार्ग कं.42 ए | 37.60 | सागर |

खण्ड — “ब”

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

| ज़िला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|-------|-------|-------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| सागर | बीना | बरदौरा | 166, 164, 163, 161/1, 187/3, 187/2, 187/1, 186/1, 182, 178/1, 177/1, 176, 175, 176, 175, 168, | 166, 164, 163, 161/1, 187/3, 187/2, 187/1, 186/1, 182, 178/1, 177/1, 176, 175, 168, 161/3, 161/4, 178/3, 169 |
| सागर | बीना | धनोरा | 378, 375, 380/1, 287/2, 387/1, 389, 405, 408, 407, 406, 409, 410, 411, 412, 423, 424, 370, 373/1, 372/2, 344, 342, 341, 340, 294, 295, 293, 425, 426, 427, 428/1, 440/1, 513/2, 512, 511, 517, 510, 502, 508, 503, 501, 500, 499, 498, 293, 292, 285, 284, 283, 443, 442, 444, 447/1, 447/2, 448/2, 448/4, 448/3, 449/1, 483/2, 484, 488, 489, 496, 494, 385, 391/2, 391/3, 367/5, 338, 307, 306 305 429/5, 506, 504, 505, 490/2, 495, 493, 282, 286, 287, 288/2, 291, 305, 341, 343, | 378, 375, 380/1, 287/2, 387/1, 389, 405, 408, 407, 406, 409, 410, 411, 412, 423, 424, 370, 373/1, 372/2, 344, 342, 341, 340, 294, 295, 293, 425, 426, 427, 428/1, 440/1, 513/2, 512, 511, 517, 510, 502, 508, 503, 501, 500, 499, 498, 293, 292, 285, 284, 283, 443, 442, 444, 447/1, 447/2, 448/2, 448/4, 448/3, 449/1, 483/2, 484, 488, 489, 496, 494, 385, 391/2, 391/3, 367/5, 338, 307, 306 305 429/5, 506, 504, 505, 490/2, 495, 493, 282, 286, 287, 288/2, 291, 305, 341, 343, |
| सागर | बीना | बम्होरी शेख | 37, 39, 40, 60/2, 69/2, 69/1, 69/3, 70, 72/2-3, 74/2, 35, 33, 27, 28, 18/3, 21/2, 21/1, 19, 74/1, 75/1, 76/1, 76/2, 18/2, 16, | 37, 39, 40, 60/2, 69/2, 69/1, 69/3, 70, 72/2-3, 74/2, 35, 33, 27, 28, 18/3, 21/2, 21/1, 19, 74/1 75/1, 76/1, 76/2, 18/2, 16, 60/1, 67, 72/1 |
| सागर | खुरई | बसारी | 2726, 2725, 1127, 1129, 1130, 1131, 1140, 1141, 1147, 1148, 1149, 1075, 1076, 1077, 1081, 1085/1, 1085/2, 1086, 1087, 1094, 1095/5, 1095/4, 1100, 1109, 1124, 1177, 1176, 1174/1, 1164, 1165, 1171, 1162, 1161, 1159/3, 1159/1-2, 1158, 1987, 1102/1, 1121, 1179, 1180/2, 1102/1, 1121, 1179, 1180/2, 1181/2, 1520, 1523, 1524, 1525, 1530, 1531, 1532, 1540, 1541, 1548, 1989, 1998, 1997, 1996, 1994 1999, 2005, 1531, 1532, 1540, 1541, 1548, 1989, 1998, 1997, 1996, 1994 1999, 2005, 2000, 2002, 2018, 2017, 2020, 2019, 1548, 1989, 1998, 1997, 1996, | 2726, 2725, 1127, 1129, 1130, 1131, 1140, 1141, 1147, 1148, 1149, 1075, 1076, 1077, 1081, 1085/1, 1085/2, 1086, 1087, 1094, 1095/5, 1095/4, 1100, 1109, 1124, 1177, 1176, 1174/1, 1164, 1165, 1171, 1162, 1161, 1159/3, 1159/1-2, 1158, 1987, 1102/1, 1121, 1179, 1180/2, 1181/2, 1520, 1523, 1524, 1525, 1530, 1531, 1532, 1540, 1541, 1548, 1989, 1998, 1997, 1996, 1994 1999, 2005, 2000, 2002, 2018, 2017, 2020, 2019, 2022, 2023, 2024, 2026, 2027, 2028, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|-----------------|--|--|
| | | | 1994, 1999, 2005, 2000, 2002, 2018, 2017, 2020, 2019, 2022, 2023, 2024, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 1595, 1594, 1596, 1597, 1599, 1587, 1588, 1601/1, 1602, 1603, 1862, 1864/2, 1864/3, 1865, 1906, 1907, 1908, 1984, 2041/2, 2041/1, 2042, 2147/1, 2147/2, 2148, 2161/1, 2162/2, 2163/3, 2163/2, 2163/4, 2169, 2170, 1864/3, 1865, 1906, 1907, 1908, 1984, 2041/2, 2041/1, 2042, 2147/1, 2147/2, 2148, 2161/1, 2162/2, 2163/3, 2163/2, 2163/4, 2169, 2170, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 2047, 2046, 2045, 2044, 2145, 2144, 2724, 1132, 1074, 1084, 1175, 1173, 1172, 1171, 1167, 1157, 1190/3191/1, 1534, 1589, 1533, 1546, 1545, 2006, 2004, 2003, 2016, 2015, 1593, 1591, 1592, 1588, 1606, 1861, 1871, 1866, 1905, 1909, 1983, 2040, 2159, 1975, 1977, | 2029, 2030, 1595, 1594, 1596, 1597, 1599, 1587, 1588, 1601/1, 1602, 1603, 1862, 1864/2, 1864/3, 1865, 1906, 1907, 1908, 1984, 2041/2, 2041/1, 2042, 2147/1, 2147/2, 2148, 2161/1, 2162/2, 2163/3, 2163/2, 2163/4, 2169, 2170, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 2047, 2046, 2045, 2044, 2145, 2144, 2724, 1132, 1074, 1084, 1175, 1173, 1172, 1171, 1167, 1157, 1190/3191/1, 1534, 1589, 1533, 1546, 1545, 2006, 2004, 2003, 2016, 2015, 1593, 1591, 1592, 1588, 1606, 1861, 1871, 1866, 1905, 1909, 1983, 2040, 2159, 1975, 1977, |
| सागर | खुरई | माला सुनेटी | 517, 516, 515, 514/2, 514/4, 514/3, 514/1, 513, 511, 538, 853, 854, 503, 504, 507, 510, 509, 556, 550, 552, 851, 850/2-3, 849, 506, 859, 860, 865, 866, 867, 876, 877, 880, 881, 848, 847, 846, 845, 844, 843/1-3-4, 842, 841, 840, 839/3, 839/2, 512, 537 | 517, 516, 515, 514/2, 514/4, 514/3, 514/1, 513, 511, 538, 853, 854, 503, 504, 507, 510, 509, 556, 550, 552, 851, 850/2-3, 849, 506, 859, 860, 865, 866, 867, 876, 877, 880, 881, 848, 847, 846, 845, 844, 843/1-3-4, 842, 841, 840, 839/3, 839/2, 519/1, 519/2, 536, 539, 855, 508, 879/1, 882, 875, 512, 537 |
| सागर | खुरई | खिमलासा | 158, 160, 161, 162, 163, 273, 274/2, 274/1, 276, 278, 119, 120, 156, 155, 164, 165, 167, 168, 173/1, 173/2, 280, 281, 282, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 784, 783, 782, 785, 786, 787, 792, 867, 870, 875, 876, 877, 878, 879, 712, 709, 707, 706, 705, 703, 268, 267, 266, 265, 262, 263, 788, 775, 774, 772, 773, 767, 768, 760, 759, 764, 752, 751, 746, 745, 752, 751, 746, 745, 742, 744, 723, 722, 724, 726, 727, 578, 574, 570, 235, 701, 700, 687, 686, 666, 665/2, 663, 662, 702/1, 702/2, 579, 627, 629, 638, 634, 635, 636, 658, 657, 653, 552, 651, 649, 660, 947, 948, 951, 952, 956, 270, 272, 154/1, 271, 313, 318, 793, 865, 864, 713/2, 713/1, 714, 260, 259, 252, 776, 777, 770, 322, 750, 747, 741, 739, 738, 736, 731, 703, 697, 684, 664, 614, 630, 632, 637, 656, 172, 178/4, 261, 261/1, 661/2, 958, 261, 261/1, 661/2, 958, | 158, 160, 161, 162, 163, 273, 274/2, 274/1, 276, 278, 119, 120, 156, 155, 164, 165, 167, 168, 173/1, 173/2, 280, 281, 282, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 784, 783, 782, 785, 786, 787, 792, 867, 870, 875, 876, 877, 878, 879, 712, 709, 707, 706, 705, 703, 268, 267, 266, 265, 262, 263, 788, 775, 774, 772, 773, 767, 768, 760, 759, 764, 752, 751, 746, 745, 752, 751, 746, 745, 742, 744, 723, 722, 724, 726, 727, 578, 574, 570, 235, 701, 700, 687, 686, 666, 665/2, 663, 662, 702/1, 702/2, 579, 627, 629, 638, 634, 635, 636, 658, 657, 653, 552, 651, 649, 660, 947, 948, 951, 952, 956, 270, 272, 154/1, 271, 313, 318, 793, 865, 864, 713/2, 713/1, 714, 260, 259, 252, 776, 777, 770, 322, 750, 747, 741, 739, 738, 736, 731, 703, 697, 684, 664, 614, 630, 632, 637, 656, 172, 178/4, 261, 261/1, 661/2, 958, 866, 765, 748, 698, 699 |
| सागर | खुरई | इनायत पुरा | 14/1, 14/2, 16, 1, 18, 17, 15 | 14/1, 14/2, 16, 1, 18, 17, 15, 2 |
| सागर | खुरई | गढ़ोली जवाहर | 33, 34, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 40., 41, 46, 47/2, 47/1 47/3 48/2, 48/1 94, 3, 4, 94, 3, 4, 9/5, 9/4, 10, 11, 13, 14/3, 15, 16, 18, 19, 22/1 22/2, 104, 23, 103, 95, 97/1, 100, 350, 349, 344/4, 344/2, 340, 334, 121, 122, 125, 175, 174, 176, 180, 179, 331, 294, 293, 391, 290/2, | 33, 34, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 40., 41, 46, 47/2, 47/1 47/3 48/2, 48/1 94, 3, 4, 9/5, 9/4, 10, 11, 13, 14/3, 15, 16, 18, 19, 22/1 22/2, 104, 23, 103, 95, 97/1, 100, 350, 349, 344/4, 344/2, 340, 334, 121, 122, 125, 175, 174, 176, 180, 179, 331, 294, 293, 391, 290/2, 290/1, 286, 287, 288, 96, 42/387, 42, 49, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|--------|-------------|--|---|
| | | | 290/1, 286, 287, 288, 96 | 9/3, 97/2, 347, 345, 136, 172, 182, 325, 324, 326, 321, 301, 296, 297, 284, |
| सागर | मालथौन | बरुआ | 29, 28, 27, 26, 39, 32, 38, 44, 12, 13, 14, 15, 20, 32, 189, 21, 173, 114, 115/2, 40, 136, 131, 130, 124, 123, 45, 47, 46, 117, 116, 118, 119, 121, 80, 79/3, 79/2, 79/1, 78, 77, 30, 31, 79/2, 79/1, 78, 77, | 29, 28, 27, 26, 39, 32, 38, 44, 12, 13, 14, 15, 20, 32, 189, 21, 173, 114, 115/2, 40, 136, 131, 130, 124, 123, 45, 47, 46, 117, 116, 118, 119, 121, 80, 79/3, 79/2, 79/1, 78, 77, 30, 31, 37, 42, 129, 22, 9/3, |
| सागर | मालथौन | लौंगर | 470, 469, 468, 465, 463, 460/1, 458/2, 458/3, 450, 454, 441, 440, 425, 438, 411, 413, 414, 416, 417, 241, 239, 158, 155, 153, 123, 423, 419, 420, 122, 115, 116, 118, 119, 121, 80, 460/3, 460/4, 458/1, 448, 447, 415, 160, 81, 445 | 470, 469, 468, 465, 463, 460/1, 458/2, 458/3, 450, 454, 441, 440, 425, 438, 411, 413, 414, 416, 417, 241, 240, 239, 158, 155, 153, 123, 423, 419, 420, 122, 115, 116, 118, 119, 121, 80, 461, 460/3, 460/4, 458/1, 448, 447, 415, 160, 81, 445 |
| सागर | मालथौन | बम्होरी लाल | 147, 148, 146, 120, 119, 118, 115, 110, 103, 47, 46, 45, 44, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 40, 41, 39, 37, 25, 20, 21, 22, 23, 150, 125, 50, 49, 48, 43, 42, 26, 101, 114, 98 | 147, 148, 146, 120, 119, 118, 115, 110, 103, 47, 46, 45, 44, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 40, 41, 39, 37, 25, 20, 21, 22, 23, 150, 125, 50, 49, 48, 43, 42, 26, 101, 114, 98 |
| सागर | मालथौन | देवपुरा | 289, 287, 266, 112, | 289, 287, 266, 112, |
| सागर | मालथौन | खिरियाकला | 330, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 298, 297, 299, 300, 263, 264, 265, 266, 265, 266, 276, 277, 280, 284, 288, 206, 208, 203, 205, 303, 307, 305, 205, 303, 307, 305, 314, 311, 427, 328, 426, 435, 444, 445, 446, 447, 470, 669, 668, 664, 663, 660, 659, 448, 179, 180, 177, 178, 176, 171, 174, 173, 177, 178, 176, 171, 174, 173, 151, 150, 143, 144, 140, 139, 138, 136, 133, 132, 103, 105, 473, 535, 533, 536, 539, 657, 652, 653, 654, 651, 614, 594, 593, 573, 574, 527, 558, 538, 540, 543, 553, 547, 662, 666, 102, 550, 332, 331, 335, 329, 293, 268, 278, 207, 210, 209, 301, 302, 318, 325, 328, 437, 438, 441, 469, 670, 202, 181, 170, 149, 131, 129, 534, 101, 658, 617, 545, 319, 534, 546 | 330, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 298, 297, 299, 300, 263, 264, 265, 266, 276, 277, 280, 284, 288, 206, 208, 203, 205, 303, 307, 305, 314, 311, 427, 328, 426, 435, 444, 445, 446, 447, 470, 669, 668, 664, 663, 660, 659, 448, 179, 180, 177, 178, 176, 171, 174, 173, 151, 150, 143, 144, 140, 139, 138, 136, 133, 134, 132, 103, 105, 473, 535, 533, 536, 539, 657, 652, 653, 654, 651, 614, 594, 593, 573, 574, 527, 558, 538, 540, 543, 553, 547, 662, 666, 102, 550, 332, 331, 335, 329, 293, 268, 278, 207, 210, 209, 301, 302, 318, 325, 328, 437, 438, 441, 469, 670, 202, 181, 170, 149, 131, 129, 534, 101, 658, 617, 545, 319, 534, 546 |
| सागर | मालथौन | बेसरा | 392/2, 393, 394/2, 395, 426, 427, 429, 433, 435, 436, 437, 449, 450, 451, 452, 453, 378, 385, 387, 389, 353, 352, 351/1, 351/2, 350, 331, 332, 330, 470, 469, 466, 467, 583, 582, 581, 613, 600, 611, 618, 619, 621, 623, 624, 628, 629/1, 627, 454, 468, 483, 484, 485, 506, 546, 548, 549, 550/3, 578, 577, 629/2, 633, 634, 575, 573, 425, 383, 465, 614, 615, 505, 397, 431, 438, 380, 354, 585, 608, 627, 487, 547 550/5, 632, 635/2, | 392/2, 393, 394/2, 395, 426, 427, 429, 433, 435, 436, 437, 449, 450, 451, 452, 453, 378, 385, 387, 389, 353, 352, 351/1, 351/2, 350, 331, 332, 330, 470, 469, 466, 467, 583, 582, 581, 613, 600, 611, 618, 619, 621, 623, 624, 628, 629/1, 627, 454, 468, 483, 484, 485, 506, 546, 548, 549, 550/3, 578, 577, 629/2, 633, 634, 575, 573, 425, 383, 465, 614, 615, 505, 397, 431, 438, 380, 354, 585, 608, 627, 487, 547 550/5, 632, 635/2, |
| सागर | मालथौन | अण्डेला | 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 136/2, 135, 130, | 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 136/2, 135, 130, 128, 127/1, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|--------|-----------|--|---|
| | | | 128, 127/1, 125/2, 125/1, 124/2, 124/1, 18/1, 18/2, 19, 21/2, 20, 21/4, 21/3, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39/1, 39/2, 43, 49, 51, 52, 123, 120, 119, 116, 115/1, 112, 113, 57, 62, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 102/1, 102/8, 103, 106, 107, 109/2, 110/2, 110/1, 21/1, 135, 97, 414/1, | 125/2, 125/1, 124/2, 124/1, 18/1, 18/2, 19, 21/2, 20, 21/4, 21/3, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39/1, 39/2, 43, 49, 51, 52, 123, 120, 119, 116, 115/1, 112, 113, 57, 62, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 102/1, 102/8, 103, 106, 107, 109/2, 110/2, 110/1, 21/1, 135, 97, 414/1, 144, 136/1, 131, 126, 271, 221, 18/3, 18/4, 23, 22, 30, 40, 41, 44, 50, 53, 54, 118, 413/1, 84, 68, 69, 105, 110/3, 125/1, 121, 47, 413/3, |
| सागर | मालथौन | गौधा | 7, 8/1, 11, 10, 1 | 7, 8/1, 11, 10, 1, 8/2, 5, 12, |
| सागर | मालथौन | चकबगोनिया | 39/1, 39/2, 38, 48, 53, 56, 55, 33, 36, 34, 35, 35/72, 24, 23, | 39/1, 39/2, 38, 48, 53, 56, 55, 33, 36, 34, 45, 35/72, 24, 23, 52, 59, 57, |
| सागर | मालथौन | बगोनिया | 20, 19, 157, 169, 14, 17, 11, 9, 6, 5, | 21, 20, 19, 157, 169, 14, 17, 11, 9, 6, 5, 10, 7, 3 |
| सागर | मालथौन | मालथौन | 183/1, 180, 179, 188, 193/4, 192/1, 192/2, 193/3, 193/1, 177, 175, 176/1, 176/2, 222/2, 189/1, 187/1, 187/2, 193/2, 187/2, 193/2, | 183/1, 180, 179, 188, 193/4, 192/1, 192/2, 193/3, 193/1, 177, 175, 176/1, 176/2, 222/2, 189/1, 187/1, 187/2, 193/2, 170, 174, 182, 173, 221/4 |

II)

"खण्ड-अ"

| अ. क्र. | अधिसूचित मार्ग का नाम | सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में) | राज्यमार्ग में आने वाले जिले |
|---------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1 | राहतगढ़ - खुरई - खिमलासा मार्ग, राज्यमार्ग 42 | 47.6 | सागर |

"खण्ड-ब"

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|---------|-----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| सागर | राहतगढ़ | चंद्रापुर | 70, 72, 73, 74, 76, 84, 89, 90/2, 91/1, 93/1, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 94, 95, 96, 100, 98, 101, 103, 126, 129, 146, 147, 150, 166, 167, 25, 26, 68, 205, 268, 269, 271, 272, 281, 282, 294, 321, 322, 323, 203, 202, 201, 291, 189, 188, 186, 185, 177, 176, 191, 329, 328, 175, 187, 61, 295, 77, 75, 90/1 | 70, 72, 73, 74, 76, 84, 89, 90/2, 91/1, 93/1, 10, 9, 13, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 27, 26, 23, 93/2, 94, 95, 96, 100, 106, 98, 102, 101, 103, 126, 129, 146, 147, 150, 166, 164, 66, 65, 205, 268, 269, 275, 271, 281, 282, 294, 321, 322, 323, 203, 167, 203, 202, 201, 191, 193, 180, 188, 186, 165, 177, 176, 91/2, |
| सागर | राहतगढ़ | गढ़ाघाट | 5, 3, 4 69, 73, 74, 79, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 119, 120, 121, 123, 126, 124/1, 133, 134, 147, 149, 113, 114, 115/1, 117, 278/1, 148, 154/2, 154/1, 156/2, 156/3, 157, 158, 156/4, 169, 165, 277, | 5, 3, 4 69, 73, 74, 79, 78, 80, 81, 82, 75, 84, 86, 6, 9, 10, 11, 33, 34, 35, 31, 30, 12, 39, 38, 36, 37, 44, 45, 42, 48, 61, 62, 63, 65, 67, 43 |
| सागर | राहतगढ़ | झिला | 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 119, 120, 121, 123, 126, 124/1, 133, 134, 147, 149, 113, 114, 115/1, 117, 278/1, 148, 154/2, 154/1, 156/2, 156/3, 157, 158, 156/4, 169, 165, 277, | 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 119, 120, 121, 123, 126, 124/1, 133, 134, 147, 149, 113, 114, 115/1, 117, 278/1, 148, 154/2, 154/1, 156/2, 156/3, 157, 158, 156/4, 169, 165, 277, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|--------------------|---|--|
| | | | 256, 252, 247, 253, 254, 243, 271, 185, 186, 187, 188, 193, 194/2, 244, 242, 241, 722/1001, 722, 721, 720/2, 236, 237, 238, 239, 240, 749, 750, 747, 746, 745, 743, 733, 372, 730 731, 725, 691, 690, 685, 664, 663, 609, 608, 612, 607, 506/1103, 506, 506/1104, 600, 724, 863, 866, 867, 868, 869, 907, 909, 974, 975, 976, 977, 978, 589, 588, 587, 585, 979, 980, 981, 982, 127, 132, 131, 96, 154/1076/1-2, 155/1078, 164, 246, 168, 189, 193, 195 719, 196, 197, 235, 756, 757 753, 858, 735, 734, 729, 662, 610, 978, 970, 978/1135, 584, 983 | 271, 185, 186, 187, 188, 193, 194/2, 244, 242, 241, 722/1001, 722, 721, 720/2, 236, 237, 238, 239, 240, 749, 750, 747, 746, 745, 743, 733, 372, 730 731, 725, 691, 690, 685, 664, 663, 609, 608, 612, 607, 506/1103, 506, 506/1104, 600, 724, 863, 866, 867, 868, 869, 907, 909, 974, 975, 976, 977, 978, 589, 588, 587, 585, 979, 980, 981, 982, 127, 132, 131, 96, 154/1076/1-2, 155/1078, 164, 246, 168, 189, 193, 195 719, 196, 197, 235, 756, 757 753, 858, 735, 734, 729, 662, 610, 978, 970, 978/1135, 584, 983 |
| सागर | खुरई | बरौदिया नौनागिर | 47, 48, 53, 54/1, 179/1-2, 175, 55/1, 173, 169/1, 55/2, 169/2, 56, 57/2, 59/2, 59/1 60, 145, 146, 168, 163, 162, 351/2, 164, 161, 160, 159, 149, 148, 436, 438, 439/1, 439, 439/3, 448, 439/2, 449, 451, 460, 453, 454, 457, 458, 455, 490, 472, 147, 435, 406, 407, 404, 409, 408, 411, 412, 490 491/2, 491/1, 489, 493, 492, 494, 496, 497, 418/2, 418/1, 419, 420, 422/2, 423/1, 424/1, 425/1, 426, 427, 430, 431, 502, 503, 505, 506, 507/2, 507/3, 432, 579, 578, 577, 580/1, 576, 574, 165, 456, 49, 50, 52, 55/2, 57/1, 69, 123, 129, 473, 499, 497, 421, 429/2, 580/2, 66, 65, 64, 62, 498, 504, 172, 421 | 47, 48, 53, 54/1, 179/1, 179/1-2, 175, 55/1, 173, 169/1, 55/2, 169/2, 56, 57/2, 59/2, 59/1 60, 145, 146, 168, 163, 162, 151/2, 164, 161, 160, 159, 149, 148, 436, 438, 439/1, 439, 439/3, 448, 439/2, 449, 451, 460, 453, 454, 457, 458, 455, 490, 472, 147, 435, 406, 407, 404, 409, 408, 411, 412, 490 491/2, 491/1, 489, 493, 492, 494, 496, 497, 418/2, 418/1, 419, 420, 422/2, 423/1, 424/1, 425/1, 426, 427, 430, 431, 502, 503, 505, 506, 507/2, 507/3, 432, 579, 578, 577, 580/1, 576, 574, 165, 456, 49, 50, 52, 55/2, 57/1, 69, 123, 129, 473, 499, 497, 421, 429/2, 580/2, 66, 65, 64, 62, 498, 504, 172, 421 |
| सागर | खुरई | गवारी | 7, 8/2, 8/3, 8/4, 12/1-2, 3, 4, 13, 64, 15, 17/1, 16, 19, 20, 22, 21, 63, 58, 57, 59, 56, 55, 54, 52, 49, 45, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/2, 33/1, 43, 146, 166, 165/1, 44, 148/1, 148/5, 148/2, 158, 159, 160, 164 | 7, 8/2, 8/3, 8/4, 12/1-2, 3, 4, 13, 64, 15, 17/1, 16, 19, 20, 22, 21, 23/1, 23/2, 63, 58, 57, 59, 62, 61/1, 61/2, 52, 56, 66, 54, 49, 45, 46, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35/1, 33/2, 33/1, 43, 45, 145, 146, 144, 166, 165/1, 165/2, 44, 148/1, 148/5, 148/2, 158, 159, 160, 164, 25 |
| सागर | खुरई | सच्चा | 10, 11, 12, 27, 28, 29, 44, 45, 46, 47, 30, 212, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 257, 68, 72, 73, 78, 90, 81, 80, 84, 86, 87, 158, 160, 210, 209, 259/2, 259/1, 260, 262, 280, 281, 282, 283, 299, 300, 319, 208, 205, 204, 320, 322, 323, 324/1, 325, | 10, 11, 12, 27, 28, 29, 44, 45, 46, 47, 30, 212, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 257, 68, 72, 73, 78, 90, 81, 80, 84, 86, 87, 158, 160, 210, 209, 259/2, 259/1, 260, 262, 280, 281, 282, 283, 299, 300, 319, 208, 205, 204, 320, 322, 323, 324/1, 325, 13, 26, 25, 24, 31, 32, 48, 70, 91, 162, 50, 7, 318, |
| सागर | खुरई | कठेली | 391, 390, 385, 384, 380, 382, 373, 372, 369, 367, 368, 366, 365, 363, 361, 359, 355, 356, | 391, 390, 385, 384, 380, 382, 373, 372, 369, 367, 368, 366, 365, 363, 361, 359, 355, 356, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|---------------|--|---|
| | | | 352, 545, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 489, 539, 527/2, 527/1, 522, 513, 514, 503/1, 503/2, 691/1, 692, 492, 486, 477, 475, 474, 501, 497, 500, 499, 498, 454, 744, 743, 742, 737, 736, 694/1, 695, 635, 717, 716, 715, 713, 702, 701, 707, 353, 540, 521, 523, 517, 475, 745, 735, 372, 375, 374, 370, 348, 350, 351, 404, 400, 399, 401, 579, 156, 473, 472, 496, 746, 739, 733, 734, 700, 706, 389, 516, 690, 530 | 393, 394, 395, 396, 397, 398, 489, 490, 539, 527/2, 527/1, 522, 513, 514, 503/1, 502/2, 691/1, 691/2, 692, 492, 486, 477, 475, 474, 501, 497, 500, 499, 498, 454, 744, 743, 742, 737, 736, 694/1, 695, 635, 717, 716, 715 713, 702, 701, 707, 353, 540, 521, 523, 517, 475, 745, 735, 372, 375, 374, 370, 348, 350, 351, 404, 400, 399, 401, 579, 156, 473, 472, 496, 746, 739, 733, 734, 700, 706, 389, 516, 690, 530 |
| सागर | खुरई | मुकारमपुर | 3/4, 6, 7, 8, 10, 11, 78, 13, 76, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 74, 79, 80/1, 80/2, 14, 517, 516, 514, 513, 508, 507, 496, 495, 494, 83/2, 83/1, 85, 88, 90, 130, 132, 136, 140/1, 140/2, 145, 144, 493/1, 493/2, 488, 487, 486, 231, 230, 228, 226, 224, 218, 176, 175, 171, 170, 160, 217, 147, 159/1, 159/2, 152/1, 9, 12, 515/2, 502, 84, 128/2, 131, 142, 489, 490, 200, 213, 215, 153/1, 518, | 3/4, 6, 7, 8, 10, 11, 78, 13, 76, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 74, 79, 80/1, 80/2, 14, 517, 516, 514, 513, 508, 507, 496, 495, 494, 83/2, 83/1, 85, 88, 90, 130, 132, 136, 140/1, 140/2, 145, 144, 493/1, 493/2, 488, 487, 486, 231, 230, 228, 226, 224, 218, 176, 175, 171, 170, 160, 217, 147, 159/1, 159/2, 152/1, 9, 12, 515/2, 502, 84, 128/2, 131, 142, 489, 490, 200, 213, 215, 153/1, 518, |
| सागर | खुरई | जरवास | 216, 208, 207, 206, 205, 204, 191, 179, 218, 222/2, 222/1, 223, 224, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 230, 231, 260, 262, 178, 173, 171, 170, 169, 132, 134/1, 134/2, 137, 152, 264, 275, 270, 318, 316, 323, 329, 331, 333, 334, 474, 469, 473, 480, 481, 140, 141, 142, 141, 142, 148, 147, 482, 485, 487, 179, 262, 487, 179, 262, 475, 137, 209/1, 209/2, 210, 130, 131, 174, 275, 283, 180, 279, 299, 271, 324, 322, 327, 341, 337, 365, 366, 470, 261, 283, 280, 465, 468, 144, 470 | 216, 208, 207, 206, 205, 204, 191, 179, 218, 222/2, 222/1, 223, 224, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 230, 231, 260, 262, 178, 173, 171, 170, 169, 132, 134/1, 134/2, 137, 152, 264, 275, 270, 318, 316, 323, 329, 331, 333, 334, 474, 469, 473, 480, 481, 140, 141, 142, 148, 147, 482, 485, 487, 179, 262, 475, 137, 209/1, 209/2, 210, 130, 131, 174, 275, 283, 180, 279, 299, 271, 324, 322, 327, 341, 337, 365, 366, 470, 261, 283, 280, 465, 468, 144, 470 |
| सागर | खुरई | खुरई | 251, 248, 253, 255, 256, 259, 261, 511, 510, 509, 508, 476, 477, 472, 262, 263, 264, 269, 270, 450, 449, 439, 438, 437, 435, 433, 431, 418, 417, 274, 275, 277, 418, 417, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 256, 26 | 251, 248, 253, 255, 256, 259, 261, 511, 510, 509, 508, 476, 477, 472, 262, 263, 264, 269, 270, 450, 449, 448, 440, 271, 439, 438, 437, 435, 433, 431, 418, 417, 274, 275, 277, 272, 278, 279, 280, 249, 246, 234, 476, 441, 416, 281, 401 |
| सागर | खुरई | मुहली बुजुर्ग | 7, 8, 17, 18, 19, 20/2, 20/1, 27, 28/1, 29, 52/1, 57, 61/2, 65, 66, 68, 69/4, 69/3, 69/2 87/2, 87/3, 87/7, 52/1, 52/2, 53, 54, 55, 266, 267, 286, 288, 289, 300, 301 87/3, 88/2, 89/2, 90/1, 90/2, 91/2, 91/1, 92, 182, 254, 253, 257, 259, 260, 263, 264, 203, 315, 314, 313, 312, 311 310, 317, 318, 320, | 7, 8, 17, 18, 19, 20/2, 20/1, 27, 281, 29, 52/1, 57, 61/2, 65, 66, 68, 69/4, 69/3, 69/2 87/2, 87/3, 87/7, 52/1, 52/2, 53, 54, 55, 266, 267, 286, 288, 289, 300, 301 88/3, 88/2, 89/2, 90/1, 90/2, 91/2, 91/1, 92, 182, 254, 253, 257, 259, 260, 263, 264, 203, 315, 314, 313, 312, 311 310, 317, 318, 320, 323, 325, 326, 327, 329, 330, 331, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|-------------|---|---|
| | | | 318, 320, 323, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 302, 89/1, | 332, 334, 50, 62, 64, 67, 69/1, 258, 324, 9, 63, 51 |
| सागर | खुरई | धांगर | 345, 349, 350/2, 350/1, 350/3, 355, 356, 357, 381, 380/2, 380/3, 380/1, 366/2, 366/1, 368/1, 368/2, 370, 371, 364, 471, 481/1, 481/2, 484, 576, 577, 590, 593, 630, 617, 418, 436, 438, 439, 466, 468, 470, 621, 622, 623, 626, 625, 656, 657, 675, 676, 675, 676, 469, 706, 703, 702, 701, 697, 696, 689, 692, 691, 690, 482, 575, 584, 586, 600, 599, 616, 618, 619, 629, 465, 628, 627, 626, 693, 372, 482, | 345, 349, 350/2, 350/1, 350/3, 355, 356, 357, 381, 380/2, 380/3, 380/1, 366/2, 366/1, 368/1, 368/2, 370, 371, 364, 471, 481/1, 481/2, 484, 576, 577, 590, 593, 630, 617, 418, 436, 438, 439, 466, 468, 470, 621, 622, 623, 626, 625, 656, 657, 675, 676, 675, 676, 469, 706, 703, 702, 701, 697, 696, 689, 692, 691, 690, 482, 575, 584, 586, 600, 599, 616, 618, 619, 629, 465, 628, 627, 626, 693, 372, 482, |
| सागर | खुरई | तेवरा | 105, 106, 103/2, 103/1, 102, 91, 90, 89, 87, 108, 114, 115, 117, 118/1, 118/2 118/3, 193, 197, 195, 259, 261, 262, 264, 265, 263, 547, 548, 549, 552, 553, 617, 267, 265, 266, 279, 297, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 379, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 618, 609, 638, 639/1, 640/1, 649/2, 543, 542, 618, 619, 639/2, 639/3, 539, 642/1, 188, 651, 648, 647, 649/2, 104, 101, 88, 16, 109, 116, 192, 201, 256, 554, 257, 550, 551, 255, 269, 279, 271, 261, 282, 283, 293, 294, 311, 312, 371, 378, 382, 538/2, 538/4, 538/1, 532, 531, 530, 529/2, 529/1, 527, 649, | 105, 106, 103/2, 103/1, 102, 91, 90, 89, 87, 108, 114, 115, 117, 118/1, 118/2 118/3, 193, 197, 195, 259, 261, 262, 264, 265, 263, 547, 548, 549, 552, 553, 617, 267, 265, 266, 279, 297, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 379, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 618, 609, 638, 639/1, 640/1, 649/2, 543, 542, 618, 619, 639/2, 639/3, 539, 642/1, 188, 651, 648, 647, 649/2, 104, 101, 88, 16, 109, 116, 192, 201, 256, 554, 257, 550, 551, 255, 269, 279, 271, 261, 282, 283, 293, 294, 311, 312, 371, 378, 382, 538/2, 538/4, 538/1, 532, 531, 530, 529/2, 529/1, 527, 649, |
| सागर | खुरई | तलापार | 59, 72, 73, 74, 329, 330, 326, 324, 316, 332/1, 334, 336, 340/1, 341, 344, 345, 346, 347, 315, 314, 311, 310, 309, 308, 348, 349, 350, 351, 352/2-2-4 | 59, 72, 73, 74, 329, 330, 326, 324, 316, 332/1, 334, 336, 340/1, 341, 344, 345, 346, 347, 315, 314, 311, 310, 309, 308, 348, 349, 350, 351, 352/2-2-4, 327, 326, 337, 313 |
| सागर | खुरई | पथरिया बोधा | 118, 120, 145, 146, 144, 135, 147, 132, 130, 129, 128, 110, 67/4, 66, 116/1, 140/4, 164, 166, 170, 172, 174, 175, 176, 180, 162, 195, 196, 197, 198, 65, 64, 63, 62, 60, 227, 228, 285, 289, 290, 291/1, 292/1, 298/4, 298/3, 298/2, 298/1, 303, 304, 121, 138, 137, 136, 134, 133, 131, 182, 187, 177, 57, 58, | 118, 120, 145, 146, 144, 135, 147, 132, 130, 129, 128, 110, 67/4, 66, 116/1, 140/4, 164, 166, 170, 172, 174, 175, 176, 180, 162, 195, 196, 197, 198, 65, 64, 63, 62, 60, 227, 228, 299, 229, 285, 289, 290, 291/1, 292/1, 298/4, 298/3, 298/2, 298/1, 303, 304, 121, 138, 137, 136, 134, 133, 131, 182, 187, 177, 57, 58, |
| सागर | खुरई | करमपुर | 13, 14, 16, 19, 21, 24, 35, 25, 33, 31, 96, 95, 94, 93/1, 93/2, 92, 91, 89, 83, 85, 87, 80, 78, 81, 77, 68, 67, 162, 65, 183, 184/2, 184/1, 184/904, 187, 72, 71, 193/2, 193/1, 192, 191, 212/1, 213, 190, 214, 188, 189/1, 215, 216, 215, 217, 158, 159, | 13, 14, 16, 19, 21, 24, 35, 25, 33, 31, 96, 95, 94, 93/1, 93/2, 92, 91, 89, 83, 85, 87, 80, 78, 81, 77, 68, 67, 162, 65, 183, 184/2, 184/1, 184/904, 187, 72, 71, 70, 161, 193/2, 193/1, 192, 191, 212/1, 213, 190, 214, 188, 189/1, 215, 216, 217, 12, 15, 17, 18, 20, 36, 76, 63, 64, 184/4, 158, 159, 194/3, 61, 59, 83, 194/1 |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|----------------|---|---|
| सागर | खुरई | पथरिया जेगन | 332/1, 332/2, 331, 329, 328/1, 327, 326/5, 322, 323/1, 81, 53/1, 54/3, 54/1, 57, 70, 76, 77, 655, 665, 691, 692, 702, 704, 705, 654, /6, 654/2-3, 654/5, 654/4, 650, 648, 239, 236, 232, 79, 90/5-6, 90/8, 90/7, 90/9, 93, 94, 71 | 332/1, 332/2, 331, 329, 328/1, 327, 326/5, 322, 323/1, 81, 53/1, 54/3, 54/1, 57, 70, 76, 77, 655, 665, 691, 692, 702, 704, 705, 654, /6, 654/2-3, 654/5, 654/4, 650, 648, 239, 236, 232, 79, 90/5-6, 90/8, 90/7, 90/9, 93, 94, 333, 326/1, 54/2, 55/1, 56, 75, 649, 91, 90/1, 89, 82, 71, 656, 55/2, |
| सागर | खुरई | खिमलासा | 792, 793, 798, 800, 799, 801, 815, 813, 812, 802, 867, 866, 871, 865, 860, 854, 852, 844, 839, 835, 834, 832, 831, 830, 828, 825, 823, 822, 816, 817, 818, 814, 812, 810/3, 810/2, 818, 812, 810/3, 810/2, 811/2, 810/1, 909/3, 916, 918, 811/1, 909/4/2, 909/4 | 792, 793, 798, 800, 799, 801, 815, 813, 812, 802, 867, 866, 871, 865, 860, 854, 852, 844, 839, 835, 834, 832, 831, 830, 828, 825, 823, 822, 816, 817, 818, 814, 812, 810/3, 810/2, 811/2, 810/1, 909/3, 916, 918, 787, 786, 785, 875, 876, 853, 844, 843, 838, 836, 833, 820, 819, 907, 908, 909/1, 811/1, 803, 861, 842, |

III)

“खण्ड-अ”

| अ. क्र. | अधिसूचित मार्ग का नाम | सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में) | राज्यमार्ग में आने वाले जिले |
|---------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1 | सागर — रहली मार्ग (राज्य राजमार्ग क्र.-15ए) | 42.2 | सागर |

खण्ड-“ब”**भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण**

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|--------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| सागर | सागर | पथरिया | 3, 4, 2, 5, 6, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 129/1, 129/2, 130, 424, 127, 431, 432, 434, 444/2, 444/3, 448/3, 448, 153, 152, 141, 138, 137, 138/4, 138/5, 135, 134, 133, 132, 406, 408, 410, 411, 418, 414, 417, 416, 350/3, 350/4, 350/5, 349, 347, 435, 357, 423/2, 450/2, 769/1, 769/3, 775, 779, 780, 781, 782/2, 345, 344, 343, 795, 793, 790, 780, 847, 846, , 827, 828, 830, 831, 836, 842/1, 841/1, 840, 837, 829, 144, 771, 796, 791, 839/1, 147 | 13/2, 13/1, 17, 19, 129/4, 129/2, 129/1, 130, 425, 127, 434, 433, 438, 437, 443, 444/3, 444/1, 448, 448/3, 3, 4, 2, 5, 6, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 424, 431, 432, 444/2, 153, 152, 141, 138, 137, 138/4, 138/5, 135, 134, 133, 132, 406, 408, 410, 411, 418, 414, 417, 416, 350/3, 350/5, 349, 347, 152, 142, 143, 146, 137, 404, 402, 396, 357, 350/6, 351, 352, 347, 432/2, 450/2, 764/1, 764/3, 768, 769/1, 769/3, 775, 777, 778, 781/1, 782/1, 345, 343, 342, 795, 196, 793, 790, 780, 847, 846, 785, 827, 828, 830, 831, 832, 835, 842/1, 841/1, 840, 837, 829, 144, 771, 796, 791, 839/1, 147 |
| सागर | सागर | सिरोजा | 291, 292, 293/2, 293/1 295, 293/3, 319, 317, 323/2, 323/1, 334, 311, 312/1, 312/2, 341, 342, 343/2, 346, 347/4, 357, 348, 349, 350, 374, 373, 379/2, 379/1, 380, 381/2, 394/1, 394/2, 395, 400/4, 400/2, 400/3, 401, 403, 294/1, 351/1, 401, 403 | 291, 292, 293/2, 293/1 295, 293/3, 319, 317, 323/2, 323/1, 334, 311, 312/1, 312/2, 341, 342, 343/2, 346, 347/4, 357, 348, 349, 350, 374, 373, 376, 377, 378, 379/2, 379/1, 380, 381/2, 394/1, 394/2, 395, 400/4, 400/2, 400/3, 401, 403, 294/1, 351/1, 366/4, 396, 290, 294/1-2, 294/2 |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|--------------|---|---|
| सागर | सागर | बम्होरी बीका | 186/1, 184, 187/1, 189, 190, 197/1, 199, 191, 192, 193, 15/1, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19/2, 79, 80, 84, 85, 86, 89/2, 89/1, 90, 207/3, 217, 218, 222, 223, 224, 259, 258, 287, 257, 245, 242, 243, 247, 250, 356, 358, 357, 361/1, 362, 364, 366/2, 366/1, 371, 376/1, 382, 704, 705, 706, 707, 708/2, 710, 711, 712, 654, 655, 701/2, 702, 719, 732, 748, 216, 185, 384, 385, 386/1, 383, 387, 389, 388, 396, 395, 453, 401, 533, 532, 532, 534, 542, 547, 543, 545, 544, 653, 196/2, 195, 20, 21, 81, 221, 175, 262, 253, 254, 255, 251, 355, 354/1, 367, 370, 372, 397, 453, 530, 531, 537, 539, 541, 548, 546, 375/2, 375/1, 381, 709, 713, 700, 176, 383, 458, 403, | 186/1, 184, 187/1, 189, 190, 197/1, 199, 191, 192, 193, 15/1, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19/2, 79, 80, 84, 85, 86, 89/2, 89/1, 90, 207/3, 217, 218, 222, 223, 224, 259, 258, 287, 257, 245, 242, 243, 247, 250, 356, 358, 357, 361/1, 362, 364, 366/2, 366/1, 371, 376/1, 382, 704, 705, 706, 707, 708/2, 710, 711, 712, 654, 655, 701/2, 702, 719, 732, 748, 216, 185, 384, 385, 386/1, 383, 387, 389, 388, 396, 395, 453, 401, 533, 532, 532, 534, 542, 547, 543, 545, 544, 653, 196/2, 195, 20, 21, 81, 221, 175, 262, 253, 254, 255, 251, 355, 354/1, 367, 370, 372, 397, 453, 530, 531, 537, 539, 541, 548, 546, 375/2, 375/1, 381, 709, 713, 700, 176, 383, 458, 403, |
| सागर | सागर | बन्नाद | 65, 66, 67, 91, 92, 93/2, 93/1, 94, 95, 96, 104, 103, 396, 399, 560, 561, 564, 112, 111, 110, 108, 107/2, 107/1, 106/1 105, 214, 215/2, 216, 218, 217, 394, 393, 739, 586, 587, 591, 590, 626, 628, 639, 747, 713, 713/3, 713/2, 713/1, 844, 911, 912, 913, 914, 395, 109, 215/2, 720, 721, 915, 918, 924, 925/1-2, 926, 927, 928, 938, 934, 935, 739, 738, 737, 730, 729, 751, 802, 803, 804/2, 805, 806, 808, 807, 843, 821, 822, 823, 824, 825/1, 831/1, 832, 838, 839, 841, 840, 821, 822, 823, 824, 825/1, 831/1, 832, 838, 839, 841, 840, 832, 838, 839, 841, 840, 109 | 64, 68, 69, 91, 92, 93/2, 93/1, 95, 96, 104, 103, 396, 397, 399, 560, 561, 112, 111, 110, 116, 108, 118, 106/2, 106/1, 212, 105, 214, 215/2, 216, 218, 394, 393, 740, 563, 565, 591, 639, 711, 713/2, 713/1, 844, 911, 912, 913, 908, 917, 918, 924, 923, 922, 929, 928, 932, 395, 109, 215/2, 720, 721, 915, 918, 924, 925/1-2, 926, 927, 928, 938, 934, 935, 739, 738, 737, 730, 729, 751, 802, 803, 804/2, 805, 806, 808, 807, 843, 821, 822, 823, 824, 825/1, 831/1, 832, 838, 839, 841, 840, 741, 783, 845, 742, 744, 745, 750, 804, 809, 830, 829/1, 834, 837/2, 109 |
| सागर | सागर | चैतपुर | 384, 386, 387, 390, 389, 433 | 384, 385, 386, 387, 390, 389, 433, 434 |
| सागर | सागर | ढाना | 71, 72/1, 75, 76, 77, 78, 83/2, 83/1, 84, 86/2, 86/1, 87, 99/1, 100/1, 70, 66, 65, 64 62, 119, 118, 123, 125/2, 125/1, 128, 129/1, 129/2, 142, 143, 146, 61, 248, 247/1, 216, 215, 207, 201, 193, 196, 188, 189, 179/1, 178, 569/4, 801, 808, 806, 811, 812, 814, 819, 823, 824, 825/2, 571, 573, 574, 573, 574, 790, 796, 795, 794, 792, 791, 789, 792, 791, 789, 775/2, 788, 787/2, 786, 785/1, 784, 783/2, 783/1, 826, 839, 840, 841, 896, 786, 785/1, 784, 897, 895, 893, 892, 891, 890, 887, 826, 839, 840, 841, 896, 855, 854, 857, 861/2, 860/2, 859, 895, 893, 892, 891, 890, 887, 855, 854, 857, 861/2, 860/2, 859, 859, 876, 877, 878/1, 878/2 878/3, 883, 859, 876, 877, 878/1, 878/2, 875, 820, 144, 179/2, 176, 570, 175, 172, 145, 148, 147, 802, 804, 805, | 71, 72/1, 75, 76, 77, 78, 83/2, 83/1, 84, 86/2, 86/1, 87, 99/1, 100/1, 70, 66, 65, 64 62, 119, 118, 123, 125/2, 125/1, 128, 129/1, 129/2, 142, 143, 146, 61, 248, 247/1, 216, 215, 207, 201, 193, 196, 188, 189, 179/1, 178, 569/4, 801, 808, 806, 811, 812, 814, 819, 823, 824, 825/2, 571, 573, 574, 573, 574, 790, 796, 795, 794, 792, 791, 789, 792, 791, 789, 775/2, 788, 787/2, 786, 785/1, 784, 783/2, 783/1, 826, 839, 840, 841, 896, 786, 785/1, 784, 897, 895, 893, 892, 891, 890, 887, 826, 839, 840, 841, 896, 855, 854, 857, 861/2, 860/2, 859, 895, 893, 892, 891, 890, 887, 855, 854, 857, 861/2, 860/2, 859, 859, 876, 877, 878/1, 878/2 878/3, 883, 859, 876, 877, 878/1, 878/2, 875, 820, 144, 179/2, 176, 570, 175, 172, 145, 148, 147, 802, 804, 805, |

| | | | | |
|------|-------|----------------------|---|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
| | | | 878/3, 883, 875, 820, 144, 179/2, 176, 570, 778 | 813, 569/1-3, 578/4, 579, 773, 775/3, 787/3, 780, 782, 130, 830, 829, 827, 747, 856, 875, 879/6, 879/1, 879/2, 127, 205, 191, 778 |
| सागर | सागर | घाटमपुर | 451, 455, 453, 457, 458, 459, 460, 464, 462, 528, 532, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 447, 440, 449, 222, 223, 221, 220, 213, 212, 210, 534, 535, 536, 553, 559, 442, 276, 224, 206, 205, 204, 203, 201, 202, 196, 533, 209, 461, | 451, 455, 453, 457, 458, 459, 460, 464, 462, 528, 532, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 447, 440, 449, 442, 222, 223, 221, 213, 212, 210, 534, 535, 536, 553, 559, 442, 276, 224, 206, 205, 204, 203, 201, 202, 196, 441, 219, 217, 216, 214, 554, 454, 463, 356, 230, 220, 209, 206, 533, 209, 461, 229 |
| सागर | सागर | बरोदा | 517/969, 516, 513, 512, 510, 509, 508, 506, 505, 496, 447, 446, 445, 444, 36, 37, 38, 41, 46, 47, 48, 246, 247, 264, 266, 267, 268, 271, 270, 272, 282, 285, 284, 286, 287, 298, 302, 321, 322, 324, 441, 440, 437, 433, 435, 431, 430, 424, 423, 422, 421, 420, 413, 408, 407, 285, 284, 286, 298, 321, 322, 323, 324, 380, 323, 324, 380, 382, 383, 402/997, 403, 401, 400, 402/997, 403, 401, 400, 399, 683, 684, 688, 867, 866, 863, 862, 861, 927, 405, 689, 690, 859, 860, 434, 507, 511, 495, 245, 248, 263, 259, 273, 274, 275, 280, 281, 282, 283, 296, 425, 419, 418, 417, 384, 385, 402, 682, 685, 868, 865, 864, 693, 691, 857, 449 | 517/969, 516, 513, 512, 510, 509, 508, 506, 505, 496, 447, 446, 445, 444, 36, 37, 38, 41, 46, 47, 48, 246, 247, 264, 266, 267, 268, 271, 270, 272, 282, 285, 284, 286, 287, 298, 302, 321, 322, 324, 441, 440, 437, 433, 435, 431, 430, 424, 423, 422, 421, 420, 413, 408, 407, 285, 284, 286, 298, 321, 322, 323, 324, 380, 382, 383, 402/997, 403, 401, 400, 399, 683, 684, 688, 867, 866, 863, 862, 861, 927, 405, 689, 690, 859, 860, 434, 507, 511, 495, 245, 248, 263, 259, 273, 274, 275, 280, 281, 282, 283, 296, 425, 419, 418, 417, 384, 385, 402, 682, 685, 868, 865, 864, 693, 691, 857, 449 |
| सागर | रहली | कड़ता | 1, 3, 4, 5/2, 5/1, 9, 10 42, 43, 44, 45, 46, 45, 46, 58/1, 62/5, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 18/2, 29, 40/6, 40/5, 40/3, 40/4, 265/2, 265/3, 265/1, 62/2, 62/1, 66/2, 66/1, 67, 68, 266, 267, 268, 263, 262, 260, 261, 250, 247, 248, 233, 69, 194, 196, 198, 200, 201, 178, 177, 174, 230, 228/1, 222, 221, 219/1, 216, 215, 214, 203, 283, 312, 172, 130, 127, 128, 122, 125, 295, 122, 125, 175, 228/2, 227, 58/2, 40/1, 61, 264, 122, 125, 175, 228/2, 227, 58/2, 40/1, | 1, 3, 4, 5/2, 5/1, 9, 10 42, 43, 44, 45, 46, 58/1, 62/5, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 18/2, 29, 40/6, 40/5, 40/3, 40/4, 265/2, 265/3, 265/1, 62/2, 62/1, 66/2, 66/1, 67, 68, 266, 267, 268, 263, 262, 260, 261, 250, 247, 248, 233, 69, 194, 196, 198, 200, 201, 178, 177, 174, 230, 228/1, 222, 221, 219/1, 216, 215, 214, 203, 283, 312, 172, 130, 127, 128, 122, 125, 295, 175, 228/2, 227, 58/2, 40/1, 61, 264, 199/2, 179, 245/2, 233/1, 217, 213, 170, 168, 129, 289, |
| सागर | रहली | पिपरिया नरसिंहगढ़ | 127, 35, 36, 134, 137, 149, 150 159, 159, 160, 37 38/1, 110, 124, 123, 135 | 127, 35, 36, 134, 137, 149, 150 159, 161, 160, 158, 136, 139, 37, 38/1, 109, 110, 124, 124, 123, 135, 111, |
| सागर | रहली | जामघाट | 111, 120, 119 121, 122, 123, 126, 127/1, 133 , 134, 135, 142/2-3, 143, 151/1, 151/4, 152, 40/2-3, 41, 43, 48/242, 68, 69 71, 72/2, | 111, 120, 119 121, 122, 123, 126, 127/1, 127/2, 133 , 134, 135, 142/2-3, 142/1, 143, 151/1, 151/4, 152, 40/2-3, 41, 43, 48/242, 68, 69 71, 72/2, 78, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|---------|---|--|
| | | | 78, 79, 109, 108, 107, 106/19, 155, 154/2, 153, 168,/2, 169,/2, 170/1, 67 | 74, 75, 76, 77, 80, 81, 106/2, 79, 109, 108, 107 106/17, 106/18, 106/19, 155, 156, 154/2, 154/3 153, 168/2 169/2, 170/1, 171, 132, 136, 67 |
| सागर | रहली | खमरिया | 504, 503, 505, 502, 500, 499, 498, 537, 538, 540, 543, 548, 547, 469, 470 437, 472, 496, 495, 494, 490, 489, 488, 549 | 505, 503, 505, 501, 502, 555, 499, 498, 537, 538, 543, 548, 547, 468, 469, 470, 471, 473 472, 479, 496, 495, 494, 490, 489, 488, 549, 474 |
| सागर | रहली | डिकुआ | 150, 150/364, 149, 160, 162, 163, 166, 285, 282, 281, 280, 279, 361, 108, 109, 110, 147, 146, 178, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 158, 284, 140, | 150, 158, 149, 150/364, 157, 157/365, 160, 161, 162, 163, 166, 285, 284, 282, 283, 281, 280, 279, 361, 108, 109, 110, 147, 111/4, 111/2, 111/3, 145, 146, 144, 143, 178, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 158, 284, 140, |
| सागर | रहली | रहलीखास | 261, 259, 256, 252, 253/4, 253/6, 250/11, 247, 248, 241/1, 246/4, 245/1, 219/4, 221, 222/30, 222/19, 222/1, 223, 229, 230, 231, 238, 242, 264, 258, 267, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 319, 465 315, 382, 393, 391, 386, 380 , 379, 377, 376, 374, 375, 321 , 322, 323, 325, 324/1, 317/2 | 261, 259, 256, 252, 253/4, 253/6, 250/11, 247, 248, 241/1, 246/4, 245/1, 219/4, 221, 222/30, 222/19, 222/1, 223, 229, 230, 231, 238, 242, 264, 258, 267, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 319, 465 315, 382, 393, 391, 386, 380 , 379, 377, 376, 374, 375, 321 , 322, 323, 325, 324/1, 240, 239, 228, 215/1, 253/1, 279, 317/1, 314, 279, 280, 370, 373, 253/5, 317/2 |

राज्य राजमार्ग अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन से एक माह के अंतर्गत या ग्राम में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इनमें से जो भी कालावधि पश्चातवर्ती हो कोई व्यक्ति लिखित में अपनी आपत्ति या सुझाव राजमार्ग प्राधिकारी (प्रबंध संचालक / संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सड़क विकास निगम) को प्रस्तुत कर सकता है या राजमार्ग प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

पृ. क्र. एफ-23-2-2015-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-23-2-2015-सा-उन्नीस, दिनांक 7 अप्रैल 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

No. F-23-02/2015/Gen./19

Bhopal, the 7th April 2015

In exercise of the powers conferred by clause (1) of section 12 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam 2004 (No. 11 of 2005) the State Government hereby propose for the roads as specified in Part-A of the schedule as per specification given below in Part-B of the schedule to be the Building line and Control line.

S C H E D U L E**I Part-A**

| S.No. | Name of State Highway | Total Length (in Km.) | Name of Districts on the way |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Beena- Khimlasa -Malthone SH-42A | 37.60 | Sagar |

Part-B**Details of land in between Building Lines and Control Lines**

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sagar | Beena | Bardoura | 166, 164, 163, 161/1, 187/3, 187/2, 187/1, 186/1, 182, 178/1, 177/1, 176, 175, 168, | 166, 164, 163, 161/1, 187/3, 187/2, 187/1, 186/1, 182, 178/1, 177/1, 176, 175, 168, 161/3, 161/4, 178/3, 169 |
| Sagar | Beena | Dhanora | 378, 375, 380/1, 287/2, 387/1, 389, 405, 408, 407, 406, 409, 410, 411, 412, 423, 424, 370, 373/1, 372/2, 344, 342, 341, 340, 294, 295, 293, 425, 426, 427, 428/1 440/1, 513/2, 512, 511, 517, 510, 502, 508, 503, 501, 500, 499, 498, 293, 292, 285, 284, 283, 443, 442, 444, 447/1, 447/2, 448/2, 448/4, 448/3, 449/1, 483/2, 484, 488, 489, 496, 494, 341, 343 | 378, 375, 380/1, 287/2, 387/1, 389, 405, 408, 407, 406, 409, 410, 411, 412, 423, 424, 370, 373/1, 372/2, 344, 342, 341, 340, 294, 295, 293, 425, 426, 427, 428/1, 440/1, 513/2, 512, 511, 517, 510, 502, 508, 503, 501, 500, 499, 498, 293, 292, 285, 284, 283, 443, 442, 444, 447/1, 447/2, 448/2, 448/4, 448/3, 449/1, 483/2, 484, 488, 489, 496, 494, 385, 391/2, 391/3, 367/5, 338, 307, 306.305.429/5, 506, 504, 505, 490/2, 495, 493, 282, 286, 287, 288/2, 291, 305, 341, 343, |
| Sagar | Beena | Bamhori Shekh | 37, 39, 40, 60/2, 69/2, 69/1, 69/3, 70, 72/2-3, 74/2, 35, 33, 27, 28, 18/3, 21/2, 21/1, 19, 74/1 75/1, 76/1, 76/2, 18/2, 16, | 37, 39, 40, 60/2, 69/2, 69/1, 69/3, 70, 72/2-3, 74/2, 35, 33, 27, 28, 18/3, 21/2, 21/1, 19, 74/1 75/1, 76/1, 76/2, 18/2, 16, 60/1, 67, 72/1 |
| Sagar | Khurai | Basari | 2726, 2725, 1127, 1129, 1130, 1131, 1140, 1141, 1147, 1148, 1149, 1075, 1076, 1077, 1081, 1085/1, 1085/2, 1086, 1087, 1094, 1095/5, 1095/4, 1100, 1150, 1124, 1177, 1176, 1174/1, 1164, 1165, 1171, 1161, 1159/3, 1159/1-2, 1158, 1987, 1102/1, 1121, 1179, 1180/2, 1181/2, 1520, 1523, 1524, 1525, 1530, 1531, 1532, 1540, 1541, 1548, 1989, 1998, 1997, 1996, 1994 1999, 2005, 2000, | 2726, 2725, 1127, 1129, 1130, 1131, 1140, 1141, 1147, 1148, 1149, 1075, 1076, 1077, 1081, 1085/1, 1085/2, 1086, 1087, 1094, 1095/5, 1095/4, 1100, 1150, 1124, 1177, 1176, 1174/1, 1164, 1165, 1171, 1162, 1161, 1159/3, 1159/1-2, 1158, 1987, 1102/1, 1121, 1179, 1180/2, 1181/2, 1520, 1523, 1524, 1525, 1530, 1531, 1532, 1540, 1541, 1548, 1989, 1998, 1997, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 2002, 2018, 2017, 2020, 2019, 2022, 2023, 2024, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 1595, 1594, 1596, 1597, 1599, 1587, 1588, 1601/1, 1602, 1603, 1862, 1864/2, 1864/3, 1865, 1906, 1907, 1908, 1984, 2041/2, 2041/1, 2042, 2147/1, 2147/2, 2148, 2161/1, 2162/2, 2163/3, 2163/2, 2163/4, 2169, 2170, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 2047, 2046, 2045, 2044, 2145, 2144, | 1996, 1994, 1999, 2005, 2000, 2002, 2018, 2017, 2020, 2019, 2022, 2023, 2024, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 1595, 1594, 1596, 1597, 1599, 1587, 1588, 1601/1, 1602, 1603, 1862, 1864/2, 1864/3, 1865, 1906, 1907, 1908, 1984, 2041/2, 2041/1, 2042, 2147/1, 2147/2, 2148, 2161/1, 2162/2, 2163/3, 2163/2, 2163/4, 2169, 2170, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 2047, 2046, 2045, 2044, 2145, 2144, 2724, 1132, 1074, 1084, 1175, 1173, 1172, 1171, 1167, 1157, 1190/3191/1, 1534, 1589, 1533, 1546, 1545, 2006, 2004, 2003, 2016, 2015, 1593, 1591, 1592, 1588, 1606, 1861, 1871, 1866, 1905, 1909, 1983, 2040, 2159, 1975, 1977, |
| Sagar | Khurai | Mala Suneti | 517, 516, 515, 514/2, 514/4, 514/3, 514/1, 513, 511, 538, 853, 854, 503, 504, 507, 510, 509, 556, 550, 552, 851, 850/2-3, 849, 506, 859, 860, 865, 866, 867, 876, 877, 880, 881, 848, 847, 846, 845, 844, 843/1-3-4, 842, 841, 840, 839/3, 839/2, 512, 537 | 517, 516, 515, 514/2, 514/4, 514/3, 514/1, 513, 511, 538, 853, 854, 503, 504, 507, 510, 509, 556, 550, 552, 851, 850/2-3, 849, 506, 859, 860, 865, 866, 867, 876, 877, 880, 881, 848, 847, 846, 845, 844, 843/1-3-4, 842, 841, 840, 839/3, 839/2, 519/1, 519/2, 536, 539, 855, 508, 879/1, 882, 875, 512, 537 |
| Sagar | Khurai | Khimlasa | 158, 160, 161, 162, 163, 273, 274/2, 274/1, 276, 278, 119, 120, 156 155, 164, 165, 167, 162, 173/1, 173/2, 280, 281, 282, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 784, 783, 782, 785, 786, 787, 792, 867, 870, 875, 876, 877, 878, 879, 712, 709, 707, 706, 705, 703, 268, 267, 266, 265, 262, 263, 788, 775, 774, 772, 773, 767, 768, 760, 759, 764, 752, 751, 746, 745, 742, 744, 723, 722, 724, 726, 727, 578 574, 570, 235, 701, 700, 687, 686, 666, 665/2, 663, 662, 702/1, 702/2, 579, 627, 629, 638, 634, 635, 636, 658, 657, 653, 552, 651, 649, 660, 947, 948, 951, 952, 956, 172, 178/4, 261, 261/1, 661/2, 958, | 158, 160, 161, 162, 163, 273, 274/2, 274/1, 276, 278, 119, 120, 156 155, 164, 165, 167, 162, 173/1, 173/2, 280, 281, 282, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 784, 783, 782, 785, 786, 787, 792, 867, 870, 875, 876, 877, 878, 879, 712, 709, 707, 706, 705, 703, 268, 267, 266, 265, 262, 263, 788, 775, 774, 772, 773, 767, 768, 760, 759, 764, 752, 751, 746, 745, 742, 744, 723, 722, 724, 726, 727, 578 574, 570, 235, 701, 700, 687, 686, 666, 665/2, 663, 662, 702/1, 702/2, 579, 627, 629, 638, 634, 635, 636, 658, 657, 653, 552, 651, 649, 660, 947, 948, 951, 952, 956, 270, 272, 154/1, 271, 313, 318, 793, 865, 864, 713/2, 713/1, 714, 260, 259, 252, 776, 777, 770, 322, 750, 747, 741, 739, 738, 736, 731, 703, 697, 684, 664, 614, 630, 632, 637, 656, 172, 178/4, 261, 261/1, 661/2, 958, 866, 765, 748, 698, 699 |
| Sagar | Khurai | Inayatpura | 14/1, 14/2, 16, 1, 18, 17, 15 | 14/1, 14/2, 16, 1, 18, 17, 15, 2 |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|----------|-----------------|---|--|--|
| | | | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| Sagar | Khurai | Garholi Jawahar | 33, 34, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 40., 41, 46, 47/2, 47/1 47/3 48/2, 48/1 94, 3, 4, 9/5, 9/4, 10, 11, 13, 14/3, 15, 16, 18, 19, 22/1 22/2, 104, 23, 103, 95, 97/1, 100, 350, 349, 344/4, 344/2, 340, 334, 121, 122, 125, 175, 174, 176, 180, 179, 331, 294, 293, 391, 290/2, 290/1, 286, 287, 288, 96 | 33, 34, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 40., 41, 46, 47/2, 47/1 47/3 48/2, 48/1 94, 3, 4, 9/5, 9/4, 10, 11, 13, 14/3, 15, 16, 18, 19, 22/1 22/2, 104, 23, 103, 95, 97/1, 100, 350, 349, 344/4, 344/2, 340, 334, 121, 122, 125, 175, 174, 176, 180, 179, 331, 294, 293, 391, 290/2, 290/1, 286, 287, 288, 96, 42/387, 42, 49, 9/3, 97/2, 347, 345, 136, 172, 182, 325, 324, 326, 321, 301, 296, 297, 284, | |
| Sagar | Malthone | Barua | 29, 28, 27, 26, 39, 32, 38, 44, 12, 13, 14, 15, 20, 32, 189, 21, 173, 114, 115/2, 40, 136, 131, 130, 124, 123, 45, 47, 46, 117, 116, 118, 119, 121, 80, 79/3, 79/2, 79/1, 78, 77 | 29, 28, 27, 26, 39, 32, 38, 44, 12, 13, 14, 15, 20, 32, 189, 21, 173, 114, 115/2, 40, 136, 131, 130, 124, 123, 45, 47, 46, 117, 116, 118, 119, 121, 80, 79/3, 79/2, 79/1, 78, 77, 30, 31, 37, 42, 129, 22, 9/3 | |
| Sagar | Malthone | Loungar | 470, 469, 468, 465, 463, 460/1, 458/2, 458/3, 450, 454, 441, 440, 425, 438, 411, 413, 414, 416, 417, 241, 240, 239, 158, 155, 153, 123, 423, 419, 420, 122, 115, 116, 113, 80, 445 | 470, 469, 468, 465, 463, 460/1, 458/2, 458/3, 450, 454, 441, 440, 425, 438, 411, 413, 414, 416, 417, 241, 240, 239, 158, 155, 153, 123, 423, 419, 420, 122, 115, 116, 113, 80, 461, 460/3, 460/4, 458/1, 448, 447, 415, 160, 81, 445 | |
| Sagar | Malthone | Bamhori Lal | 147, 148, 146, 120, 119, 118, 115, 110, 103, 47, 46, 45, 44, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 40, 41, 39, 37, 25, 20, 21, 22, 23, 101 | 147, 148, 146, 120, 119, 118, 115, 110, 103, 47, 46, 45, 44, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 40, 41, 39, 37, 25, 20, 21, 22, 23, 150, 125, 50, 49, 48, 43, 42, 26, 101, 114, 98 | |
| Sagar | Malthone | Devpura | 289, 287, 266, 112, | 289, 287, 266, 112, | |
| Sagar | Malthone | Khiriya kala | 330, 287, 288, 289, 290, 291 294, 295, 298, 297, 299, 300, 263, 264, 265, 266, 276, 277, 280, 284, 288, 206, 208, 203, 205, 303, 307, 305, 314, 311, 427, 328, 426, 435, 444, 445, 446, 447, 470, 669, 668, 664, 663, 660, 659, 448, 179, 180, 177, 178, 176, 171, 174, 173, 151, 150, 143, 144, 140, 139, 138, 136, 133, 134, 132, 103, 105, 473, 535, 533, 536, 539, 657, 652, 653, 654, 651, 614, 594, 593, 573, 574, 527, 558, 538, 540, 543, 553, 547, 662, 666, 102, 550, | 330, 287, 288, 289, 290, 291 294, 295, 298, 297, 299, 300, 263, 264, 265, 266, 276, 277, 280, 284, 288, 206, 208, 203, 205, 303, 307, 305, 314, 311, 427, 328, 426, 435, 444, 445, 446, 447, 470, 669, 668, 664, 663, 660, 659, 448, 179, 180, 177, 178, 176, 171, 174, 173, 151, 150, 143, 144, 140, 139, 138, 136, 133, 134, 132, 103, 105, 473, 535, 533, 536, 539, 657, 652, 653, 654, 651, 614, 594, 593, 573, 574, 527, 558, 538, 540, 543, 553, 547, 662, 666, 102, 550, 332, 331, 335, 329, 293, 268, 278, 207, 210, 209, 301, 302, 318, 325, 328, 437, 438, 441, 469, 670, 202, 181, 170, 149, 131, 129, 534, 101, 658, 617, 545, 319, 534, 546 | |
| Sagar | Malthone | Besara | 392/2, 393, 394/2, 395, 426, 427, 429, 433, 435, 436, 437, 449, 450, 451, 452, 453, 378, 385, 387, 389, 353, 352, 351/1, 351/2, 350, 331, 332, 330, 470, 469, 466, 467, 583, 582, 581, | 392/2, 393, 394/2, 395, 426, 427, 429, 433, 435, 436, 437, 449, 450, 451, 452, 453, 378, 385, 387, 389, 353, 352, 351/1, 351/2, 350, 331, 332, 330, 470, 469, 466, 467, 583, | |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|----------|-----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 613, 600, 611, 618, 619, 621, 623, 624, 628, 629/1, 627, 454, 468, 483, 484, 485, 506, 546, 548, 549, 550/3, 578, 577, 629/2, 633, 634, 575, 573, 425, 383, 465, 614, 615, 505, | 582, 581, 613, 600, 611, 618, 619, 621, 623, 624, 628, 629/1, 627, 454, 468, 483, 484, 485, 506, 546, 548, 549, 550/3, 578, 577, 629/2, 633, 634, 575, 573, 425, 383, 465, 614, 615, 505, 397, 431, 438, 380, 354, 585, 608, 627, 487, 547 550/5, 632, 635/2, |
| Sagar | Malthone | Andela | 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 136/2, 135, 130, 128, 127/1, 125/2, 125/1, 124/2, 124/1, 18/1, 18/2, 19, 21/2, 20, 21/4, 21/3, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39/1, 39/2, 43, 49, 51, 52, 123, 120, 119, 116, 115/1, 112, 113, 57, 62, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 102/1, 102/8, 103, 106, 107, 109/2, 110/2, 110/1, 21/1, 135, 97, 414/1, | 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 136/2, 135, 130, 128, 127/1, 125/2, 125/1, 124/2, 124/1, 18/1, 18/2, 19, 21/2, 20, 21/4, 21/3, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39/1, 39/2, 43, 49, 51, 52, 123, 120, 119, 116, 115/1, 112, 113, 57, 62, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 102/1, 102/8, 103, 106, 107, 109/2, 110/2, 110/1, 21/1, 135, 97, 414/1, 144, 136/1, 131, 126, 271, 221, 18/3, 18/4, 23, 22, 30, 40, 41, 44, 50, 53, 54, 118, 413/1, 84, 68, 69, 105, 110/3, 125/1, 121, 47, 413/3, |
| Sagar | Malthone | Goudha | 7, 8/1, 11, 10, 1 | 7, 8/1, 11, 10, 1, 8/2, 5, 12, |
| Sagar | Malthone | Chakka Bagoniya | 39/1, 39/2, 38, 48, 53, 56, 55, 33, 36, 34, 35, 35/72, 24, 23, | 39/1, 39/2, 38, 48, 53, 56, 55, 33, 36, 34, 45, 35/72, 24, 23, 52, 59, 57, |
| Sagar | Malthone | Bagoniya | 20, 19, 157, 169, 14, 17, 11, 9, 6, 5, | 21, 20, 19, 157, 169, 14, 17, 11, 9, 6, 5, 10, 7, 3 |
| Sagar | Malthone | Malthone | 183/1, 180, 179, 188, 193/4, 192/1, 192/2, 193/3, 193/1, 177, 175, 176/1, 176/2, 222/2, 189/1, 187/1, 187/2, 193/2, | 183/1, 180, 179, 188, 193/4, 192/1, 192/2, 193/3, 193/1, 177, 175, 176/1, 176/2, 222/2, 189/1, 187/1, 187/2, 193/2, 170, 174, 182, 173, 221/4 |

II**Part-A**

| S.No. | Name of State Highway | Total Length (in Km.) | Name of Districts on the way |
|-------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Rahatgarh-Khurai-Khimlasa, SH-42 | 47.6 | Sagar |

Part-B**Details of land in between Building Lines and Control Lines**

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|-----------|------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sagar | Rahatgarh | Chandrapur | 70, 72, 73, 74, 76, 84, 89, 90/2, 91/1, 93/1, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 94, 95, 96, 100, 98, 101, 103, 126, 129, 146, 147, 150, 166, 167, 25, 26, 68, 205, 268, 269, 271, 272, 281, 282, 294, 321, 322, 323, 203, 202, 201, 291 189, 188, 186, 185, 177, 176, 191, 329, 328, 175, 187, 61, 295, 77, 75, 90/1 | 70, 72, 73, 74, 76, 84, 89, 90/2, 91/1, 93/1, 10, 9, 13, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 27, 26, 23, 93/2, 94, 95, 96, 100, 106, 98, 102, 101, 103, 126, 129, 146, 147, 150, 166, 164, 66, 65, 205, 268, 269, 275, 271, 281, 282, 294, 321, 322, 323, 203, 167, 203, 202, 201, 191, 193, 180, 188, 186, 165, 177, 176, 91/2, |
| Sagar | Rahatgarh | Garhaghat | 5, 3, 4 69, 73, 74, 79, 78, 80, 81, 82, 75, 84, 86, 6, 9, 10, 33, 34, 35, 36, 38, 37, 44, 62, 65, 67, 87, 91, 90, 52, | 5, 3, 4, 69, 73, 74, 79, 78, 80, 81, 82, 75, 84, 86, 6, 9, 10, 11, 33, 34, 35, 31, 30, 12, 39, 38, 36, 37, 44, 45, 42, 48, 61, 62, 63, 65, 67, 43 |
| Sagar | Rahatgarh | Jhila | 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, | 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|------------------|--|---|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| | | | 90, 95, 119, 120, 121, 123, 126, 124/1, 133, 134, 147, 149, 113, 114, 115/1, 117, 278/1, 148, 154/2, 154/1, 156/2, 156/3, 157, 158, 156/4, 169, 165, 277, 276, 256, 252, 247, 253, 254, 243, 271, 185, 186, 187, 188, 193, 194/2, 244, 242, 241, 722/1001, 722, 721, 720/2, 236, 237, 238, 239, 240, 749, 750, 747, 746, 745, 743, 733, 372, 730 731, 725, 691, 690, 685, 664, 663, 609, 608, 612, 607, 506/1103, 506, 506/1104, 600, 724, 863, 866, 867, 868, 869, 907, 909, 974, 975, 976, 977, 978, 589, 588, 587, 585, 980, 981, 982, 127, 132, 131, 96, 154/1076/1-2, 155/1078, 164, 246, 168, 189, 193, 195 719, 196, 197, 235, 756, 757 753, 858, 735, 734, 729, 662, 610, 978, 970, 978/1135, 584, 983 | 90, 95, 119, 120, 121, 123, 126, 124/1, 133, 134, 147, 149, 113, 114, 115/1, 117, 278/1, 148, 154/2, 154/1, 156/2, 156/3, 157, 158, 156/4, 169, 165, 277, 276, 256, 252, 247, 253, 254, 243, 271, 185, 186, 187, 188, 193, 194/2, 244, 242, 241, 722/1001, 722, 721, 720/2, 236, 237, 238, 239, 240, 749, 750, 747, 746, 745, 743, 733, 372, 730 731, 725, 691, 690, 685, 664, 663, 609, 608, 612, 607, 506/1103, 506, 506/1104, 600, 724, 863, 866, 867, 868, 869, 907, 909, 974, 975, 976, 977, 978, 589, 588, 587, 585, 979, 980, 981, 982, 127, 132, 131, 96, 154/1076/1-2, 155/1078, 164, 246, 168, 189, 193, 195 719, 196, 197, 235, 756, 757 753, 858, 735, 734, 729, 662, 610, 978, 970, 978/1135, 584, 983 |
| Sagar | Khurai | Barodiya Nonagir | 47, 48, 53, 54/1, 179/1-2, 175, 55/1, 173, 169/1, 55/2, 169/2, 56, 57/2, 59/2, 59/1 60, 145, 146, 168, 163, 162, 351/2, 164, 161, 160, 159, 149, 148, 436, 438, 439/1, 439, 439/3, 448, 439/2, 449, 451, 460, 453, 454, 457, 458, 455, 490, 472, 147, 435, 406, 407, 404, 409, 408, 411, 412, 490 491/2, 491/1, 489, 493, 492, 494, 496, 497, 418/2, 418/1, 419, 420, 422/2, 423/1, 424/1, 425/1, 426, 427, 430, 431, 497, 502, 503, 505, 506, 507/2, 507/3, 432, 579, 578, 577, 580/1, 576, 574, 165, 456 | 47, 48, 53, 54/1, 179/1; 179/1-2, 175, 55/1, 173, 169/1, 55/2, 169/2, 56, 57/2, 59/2, 59/1 60, 145, 146, 168, 163, 162, 151/2, 164, 161, 160, 159, 149, 148, 436, 438, 439/1, 439, 439/3, 448, 439/2, 449, 451, 460, 453, 454, 457, 458, 455, 490, 472, 147, 435, 406, 407, 404, 409, 408, 411, 412, 490 491/2, 491/1, 489, 493, 492, 494, 496, 497, 418/2, 418/1, 419, 420, 422/2, 423/1, 424/1, 425/1, 426, 427, 430, 431, 502, 503, 505, 506, 507/2, 507/3, 432, 579, 578, 577, 580/1, 576, 574, 165, 456, 49, 50, 52, 55/2, 57/1, 69, 123, 129, 473, 499, 497, 421, 429/2, 580/2, 66, 65, 64, 62, 498, 504, 172, 421, |
| Sagar | Khurai | Gwari | 7, 8/2, 8/3, 8/4, 12/1-2, 3, 4, 13, 64, 15, 17/1, 16, 19, 20, 22, 21, 63, 58, 57, 59, 56, 55, 54, 52, 49, 45, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/2, 33/1, 43, 146, 166, 165/1, 44, 148/1, 148/5, 148/2, 158, 159, 160, 164 | 7, 8/2, 8/3, 8/4, 12/1-2, 3, 4, 13, 64, 15, 17/1, 16, 19, 20, 22, 21, 23/1, 23/2, 63, 58, 57, 59, 62, 61/1, 61/2, 52, 56, 66, 54, 49, 45, 46, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35/1, 33/2, 33/1, 43, 45, 145, 146, 144, 166, 165/1, 165/2, 44, 148/1, 148/5, 148/2, 158, 159, 160, 164, 25 |
| Sagar | Khurai | Sabdha | 10, 11, 12, 27, 28, 29, 44, 45, 46, 47, 30, 212, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 257, 68, 72, | 10, 11, 12, 27, 28, 29, 44, 45, 46, 47, 30, 212, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 257, 68, 72, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 73, 78, 90, 81, 80, 84, 86, 87, 158, 160, 210, 209, 259/2, 259/1, 260, 262, 280, 281, 282, 283, 299, 300, 319, 208, 205, 204, 203, 320, 322, 323, 324/1, 325, | 73, 78, 90, 81, 80, 84, 86, 87, 158, 160, 210, 209, 259/2, 259/1, 260, 262, 280, 281, 282, 283, 299, 300, 319, 208, 205, 204, 203, 320, 322, 323, 324/1, 325, 13, 26, 25, 24, 31, 32, 48, 70, 91, 162, 50, 7, 318, |
| Sagar | Khurai | Katheli | 391, 390, 385, 384, 380, 382, 373, 372, 369, 367, 368, 366, 365, 363, 361, 359, 355, 356, 352, 545, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 489, 490, 539, 527/2, 527/1, 522, 513, 514, 503/1, 503/2, 691/1, 692, 492, 486, 477, 475, 474, 501, 497, 499, 498, 454, 744, 743, 736, 694/1, 695, 635, 717, 716, 715, 713, 702, 701, 707, 353, 540, 521, 523, 517, 475, 745, 735, 530 | 391, 390, 385, 384, 380, 382, 373, 372, 369, 367, 368, 366, 365, 363, 361, 359, 355, 356, 352, 545, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 489, 490, 539, 527/2, 527/1, 522, 513, 514, 503/1, 502/2, 691/1, 691/2, 692, 492, 486, 477, 475, 474, 501, 497, 500, 499, 498, 454, 744, 743, 742, 737, 736, 694/1, 695, 635, 717, 716, 715 713, 702, 701, 707, 353, 540, 521, 523, 517, 475, 745, 735, 372, 375, 374, 370, 348, 350, 351, 404, 400, 399, 401, 579, 156, 473, 472, 496, 746, 739, 733, 734, 700, 706, 389, 516, 690, 530 |
| Sagar | Khurai | Mukarampur | 3/4, 6, 7, 8, 10, 11, 78, 13, 76, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 74, 79, 80/1, 80/2, 14, 517, 516, 514, 513, 508, 507, 496, 495, 494, 80/2, 83/1, 83/2, 85, 88, 90, 130, 132, 136, 140/1, 140/2, 145, 144, 493/1, 493/2, 488, 487, 486, 231, 230, 228, 226, 224, 218, 176, 175, 171, 170, 160, 217, 147, 159/1, 159/2, 152/1, 494, | 3/4, 6, 7, 8, 10, 11, 78, 13, 76, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 74, 79, 80/1, 80/2, 14, 517, 516, 514, 513, 508, 507, 496, 495, 494, 83/2, 83/1, 85, 88, 90, 130, 132, 136, 140/1, 140/2, 145, 144, 493/1, 493/2, 488, 487, 486, 231, 230, 228, 226, 224, 218, 176, 175, 171, 170, 160, 217, 147, 159/1, 159/2, 152/1, 9, 12, 515/2, 502, 84, 128/2, 131, 142, 489, 490, 200, 213, 215, 153/1, 518, |
| Sagar | Khurai | Jarwans | 216, 208, 207, 206, 205, 204, 191, 179, 218, 222/2, 222/1, 223, 224, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 230, 231, 260, 262, 178, 173, 171, 170, 169, 132, 134/1, 134/2, 137, 152, 264, 275, 270, 318, 316, 323, 329, 331, 333, 334, 474, 469, 473, 480, 481, 140, 141, 142, 148, 147, 482, 485, 487, 179, 262, 475, 137, | 216, 208, 207, 206, 205, 204, 191, 179, 218, 222/2, 222/1, 223, 224, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 230, 231, 260, 262, 178, 173, 171, 170, 169, 132, 134/1, 134/2, 137, 152, 264, 275, 270, 318, 316, 323, 329, 331, 333, 334, 474, 469, 473, 480, 481, 140, 141, 142, 148, 147, 482, 485, 487, 179, 262, 475, 137, 209/1, 209/2, 210, 130, 131, 174, 275, 283, 180, 279, 299, 271, 324, 322, 327, 341, 337, 365, 366, 470, 261, 283, 280, 465, 468, 144, 470 |
| Sagar | Khurai | Khurai | 251, 248, 253, 255, 256, 259, 261, 511, 510, 509, 508, 476, 477, 472, 262, 263, 264, 269, 270, 450, 449, 448, 440, 271, 439, 438, 437, 435, | 251, 248, 253, 255, 256, 259, 261, 511, 510, 509, 508, 476, 477, 472, 262, 263, 264, 269, 270, 450, 449, 448, 440, 271, 439, 438, 437, 435, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 433, 431, 418, 417, 274, 275, 277, 272, 278, 279, 280, 256, 26 | 433, 431, 418, 417, 274, 275, 277, 272, 278, 279, 280, 249, 246, 234, 476, 441, 416, 281, 401 |
| Sagar | Khurai | Muhali Buzurg | 7, 8, 17, 18, 19, 20/2, 20/1, 27, 28/1, 29, 52/1, 57, 61/2, 65, 66, 68, 69/4, 69/3, 69/2 87/2, 87/3, 87/7, 52/1, 52/2, 53, 54, 55, 266, 267, 286, 288, 289, 300, 301 87/3, 88/2, 89/2, 90/1, 90/2, 91/2, 91/1, 92, 182, 254, 253, 257, 259, 260, 263, 264, 203, 315, 314, 313, 312, 311 310, 317, 318, 320, 323, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 302, 89/1, | 7, 8, 17, 18, 19, 20/2, 20/1, 27, 281, 29, 52/1, 57, 61/2, 65, 66, 68, 69/4, 69/3, 69/2 87/2, 87/3, 87/7, 52/1, 52/2, 53, 54, 55, 266, 267, 286, 288, 289, 300, 301 88/3, 88/2, 89/2, 90/1, 90/2, 91/2, 91/1, 92, 182, 254, 253, 257, 259, 260, 263, 264, 203, 315, 314, 313, 312, 311 310, 317, 318, 320, 323, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 334, 50, 62, 64, 67, 69/1, 258, 324, 9, 63, 51 |
| Sagar | Khurai | Dhangar | 345, 349, 350/2, 350/1, 350/3 , 355, 356, 357, 381, 380/2, 380/3, 380/1, 366/2, 366/1, 368/1, 368/2, 370, 371, 364, 471, 481/1, 481/2, 484, 576, 577, 590, 593, 620, 418, 436, 438, 439, 466, 468, 621, 622, 623, 626, 625, 656, 657, 675, 676, 469, 706, 703, 702, 701, 697, 696, 689, 692, 691, 690, 417, 586 | 345, 349, 350/2, 350/1, 350/3 , 355, 356, 357, 381, 380/2, 380/3, 380/1, 366/2, 366/1, 368/1, 368/2, 370, 371, 364, 471, 481/1, 481/2, 484, 576, 577, 590, 593, 630, 617, 418, 436, 438, 439, 466, 468, 470, 621, 622, 623, 626, 625, 656, 657, 675, 676, 469, 706, 703, 702, 701, 697, 696, 689, 692, 691, 690, 482, 575, 584, 586, 600, 599, 616, 618, 619, 629, 465, 628, 627, 626, 693, 372, 482, |
| Sagar | Khurai | Tevra | 105, 106, 103/2, 103/1, 102, 91, 90, 89, 87, 108 , 114, 115, 117, 118/1, 118/2 118/3, 193, 197, 195, 259, 261, 262, 264, 265, 263, 547, 548, 549, 552, 553, 617, 267, 265, 266, 279, 297, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 379, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 618, 609, 638, 639/1, 640/1, 649/2, 543, 542, 618 , 619, 639/2, 639/3, 539, 642/1, 188, 647 | 105, 106, 103/2, 103/1, 102, 91, 90, 89, 87, 108 , 114, 115, 117, 118/1, 118/2 118/3, 193, 197, 195, 259, 261, 262, 264, 265, 263, 547, 548, 549, 552, 553, 617, 267, 265, 266, 279, 297, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 379, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 618, 609, 638, 639/1, 640/1, 649/2, 543, 542, 618 , 619, 639/2, 639/3, 539, 642/1, 188, 651, 648, 647, 649/2, 104, 101, 88, 16, 109, 116, 192, 201, 256, 554, 257, 550, 551, 255, 269, 279, 271, 261, 282, 283, 293, 294, 311, 312, 371, 378, 382, 538/2, 538/4, 538/1, 532, 531, 530, 529/2, 529/1, 527, 649 |
| Sagar | Khurai | Talapaar | 59, 72, 73, 74, 329, 330, 326, 324, 316, 332/1, 334, 336, 340/1, 341, 344, 345, 346, 347, 315, 314, 311, 310, 309, 308, 348, 349, 350, 351, 352/2-2-4 | 59, 72, 73, 74, 329, 330, 326, 324, 316, 332/1, 334, 336, 340/1, 341, 344, 345, 346, 347, 315, 314, 311, 310, 309, 308, 348, 349, 350, 351, 352/2-2-4, 327, 326, 337, 313 |
| Sagar | Khurai | Pathriya Bodha | 118, 120, 145, 146, 144, 135, 147, 132, 130, 129, 128, 110, 67/4, 66, 116/1, 140/4, 164, 166, 170, 172, 174, 174, 175, 176, 180, 162, 195, 196, | 118, 120, 145, 146, 144, 135, 147, 132, 130, 129, 128, 110, 67/4, 66, 116/1, 140/4, 164, 166, 170, 172, 174, 175, 176, 180, 162, 195, 196, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 197, 198, 65, 64, 63, 62, 60, 227, 228, 229, 285, 289, 290, 291/1, 292/1, 298/4, 298/3, 298/2, 298/1, 303, 304, 177, 57, 58, | 198, 65, 64, 63, 62, 60, 227, 228, 299, 229, 285, 289, 290, 291/1, 292/1, 298/4, 298/3, 298/2, 298/1, 303, 304, 121, 138, 137, 136, 134, 133, 131, 182, 187, 177, 57, 58, 152/1 |
| Sagar | Khurai | Karampur | 13, 14, 16, 19, 21, 24, 35, 25, 33, 31, 96, 95, 94, 93/1, 93/2, 92, 91, 89, 83, 89, 83, 85, 87, 80, 78, 81, 77, 68, 67, 162, 65, 183, 184/2, 184/1, 184/904, 187, 72, 184/904, 187, 72, 71, 70, 161, 193/2, 193/1, 192, 191, 212/1, 213, 190, 214, 188, 189/1, 215, 216, 217, 158, 159, | 13, 14, 16, 19, 21, 24, 35, 25, 33, 31, 96, 95, 94, 93/1, 93/2, 92, 91, 89, 83, 85, 87, 80, 78, 81, 77, 68, 67, 162, 65, 183, 184/2, 184/1, 184/904, 187, 72, 71, 70, 161, 193/2, 193/1, 192, 191, 212/1, 213, 190, 214, 188, 189/1, 215, 216, 217, 12, 15, 17, 18, 20, 36, 76, 63, 64, 184/4, 158, 159, 194/3, 61, 59, 83, 194/1 |
| Sagar | Khurai | Pathariya Jegan | 332/1, 332/2, 331, 329, 328/1, 327, 326/5, 322, 323/1, 81, 53/1, 54/3, 54/1, 57, 70, 76, 77, 655, 665, 691, 692, 702, 704, 705, 654, /6, 654/2-3, 654/5, 654/4, 650, 648, 239, 236, 232, 79, 90/5-6, 90/8, 90/7, 90/9, 93, 94, 93, 94, 75, 71 | 332/1, 332/2, 331, 329, 328/1, 327, 326/5, 322, 323/1, 81, 53/1, 54/3, 54/1, 57, 70, 76, 77, 655, 665, 691, 692, 702, 704, 705, 654, /6, 654/2-3, 654/5, 654/4, 650, 648, 239, 236, 232, 79, 90/5-6, 90/8, 90/7, 90/9, 93, 94, 333, 326/1, 54/2, 55/1, 56, 75, 649, 91, 90/1, 89, 82, 71, 656, 55/2, |
| Sagar | Khurai | Khimlasa | 792, 793, 798, 800, 799, 801, 815, 813, 812, 802, 867, 866, 871, 865, 860, 854, 852, 844, 839, 835, 834, 832, 831, 830, 828, 825, 823, 822, 816, 817, 818, 812, 810/3, 810/2, 811/2, 810/1, 909/3, 916, 918, 811/1, 909/4/2, 909/4 | 792, 793, 798, 800, 799, 801, 815, 813, 812, 802, 867, 866, 871, 865, 860, 854, 852, 844, 839, 835, 834, 832, 831, 830, 828, 825, 823, 822, 816, 817, 818, 814, 812, 810/3, 810/2, 811/2, 810/1, 909/3, 916, 918, 787, 786, 785, 875, 876, 853, 844, 843, 838, 836, 833, 820, 819, 907, 908, 909/1, 811/1, 803, 861, 842, |

III**Part-A**

| S.No. | Name of State Highway | Total Length (in Km.) | Name of Districts on the way |
|-------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Sagar-Rehli (State Highway-15A) | 42.2 | Sagar |

Part-B**Details of land in between Building Lines and Control Lines**

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sagar | Sagar | Patharia | 3, 4, 2, 5, 6, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 129/1, 129/2, 130, 424, 127, 431, 432, 434, 444/2, 444/3, 448/3, 448, 153, 152, 141, 138, 137, 138/4, 138/5, 135, 134, 133, 132, 406, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 350/3, 350/4, 350/5, 349, 347, 435, 357, 423/2, 450/2, 769/1, 769/3, 775, 779, 780, 781, 782/2, 345, 344, 343, 795, 793, 790, 780, 847, 846, 827, 828, 830, 831, 836, 842/1, | 13/2, 13/1, 17, 19, 129/4, 129/2, 129/1, 130, 425, 127, 434, 433, 438, 437, 443, 444/3, 444/1, 448, 448/3, 3, 4, 2, 5, 6, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 424, 431, 432, 444/2, 153, 152, 141, 138, 137, 138/4, 138/5, 135, 134, 133, 132, 406, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 350/3, 350/5, 349, 347, 152, 142, 143, 146, 137, 404, 402, 396, 357, 350/6, 351, 352, 347, 432/2, 450/2, 764/1, 764/3, 768, 769/1, 769/3, 775, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 841/1, 840, 837, 829, 433, | 777, 778, 781/1, 782/1, 345, 343, 342, 795, 196, 793, 790, 780, 847, 846, 785, 827, 828, 830, 831, 832, 835, 842/1, 841/1, 840, 837, 829, 144, 771, 796, 791, 839/1, 147 |
| Sagar | Sagar | Sironja | 291, 292, 293/2, 293/1 295, 293/3, 319, 317, 323/2, 323/1, 334, 311, 312/1, 312/2, 341, 342, 343/2, 346, 347/4, 357, 348, 349, 350, 374, 373, 376, 377, 378, 379/2, 379/1, 380, 381/2, 394/1, 394/2, 395, 400/4, 400/2, 400/3, 401, 403 | 291, 292, 293/2, 293/1 295, 293/3, 319, 317, 323/2, 323/1, 334, 311, 312/1, 312/2, 341, 342, 343/2, 346, 347/4, 357, 348, 349, 350, 374, 373, 376, 377, 378, 379/2, 379/1, 380, 381/2, 394/1, 394/2, 395, 400/4, 400/2, 400/3, 401, 403, 294/1, 351/1, 366/4, 396, 290, 294/1-2, 294/2 |
| Sagar | Sagar | Bamhori Beeka | 186/1, 184, 187/1, 189, 190, 197/1, 199, 191, 192, 193, 15/1, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19/2, 79, 80, 84, 85, 86, 89/2, 89/1, 90, 207/3, 217, 218, 222, 223, 224, 225, 259, 258, 287, 257, 245, 242, 243, 247, 250, 356, 358, 357, 361/1, 362, 364, 366/2, 366/1, 371, 376/1, 382, 704, 705, 706, 707, 708/2, 710, 711, 712, 655, 701/2, 702, 719, 732, 748, 216, 185, 384, 385, 386/1, 383, 387, 389, 388, 396, 395, 453, 401, 533, 532, 534, 542, 547, 543, 545, 544, 544, 653, 654, 176, 383, 458, 403, | 186/1, 184, 87/1, 189, 190, 197/1, 199, 191, 192, 193, 15/1, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19/2, 79, 80, 84, 85, 86, 89/2, 89/1, 90, 207/3, 217, 218, 222, 223, 224, 225, 259, 258, 287, 257, 245, 242, 243, 247, 250, 356, 358, 357, 361/1, 362, 364, 366/2, 366/1, 371, 376/1, 382, 704, 705, 706, 707, 708/2, 710, 711, 712, 654, 655, 701/2, 702, 719, 732, 748, 216, 185, 384, 385, 386/1, 383, 387, 389, 388, 396, 395, 453, 401, 533, 532, 534, 542, 547, 543, 545, 544, 653, 196/2, 195, 20, 21, 81, 221, 175, 262, 253, 254, 255, 251, 355, 354/1, 367, 370, 372, 397, 453, 530, 531, 537, 539, 541, 548, 546, 375/2, 375/1, 381, 709, 713, 700, 176, 383, 458, 403, |
| Sagar | Sagar | Bannad | 65, 66, 67, 91, 92, 93/2, 93/1, 94, 95, 96, 104, 103, 396, 399, 560, 561, 564, 112, 111, 110, 108, 107/2, 107/1, 106/1 105, 214, 215/2, 216, 218, 217, 394, 393, 739, 586, 587, 591, 590, 626, 628, 639, 747, 713, 713/3, 713/2, 713/1, 844, 911, 912, 913, 914, 395, 109, 215/2, 720, 721, 915, 918, 924, 925/1 -2, 926, 927, 928, 938, 934, 935, 739, 738, 737, 730, 729, 751, 802, 803, 804/2, 805, 806, 808, 807, 843, 821, 822, 823, 824, 825/1, 831/1, 832, 838, 839, 841, 840, 109 | 64, 68, 69, 91, 92, 93/2, 93/1, 95, 96, 104, 103, 396, 397, 399, 560, 561, 112, 111, 110, 116, 108, 118, 106/2, 106/1, 212, 105, 214, 215/2, 216, 218, 394, 393, 740, 563, 565, 591, 639, 711, 713/2, 713/1, 844, 911, 912, 913, 908, 917, 918, 924, 923, 922, 929, 928, 932, 395, 109, 215/2, 720, 721, 915, 918, 924, 925/1 -2, 926, 927, 928, 938, 934, 935, 739, 738, 737, 730, 729, 751, 802, 803, 804/2, 805, 806, 808, 807, 843, 821, 822, 823, 824, 825/1, 831/1, 832, 838, 839, 841, 840, 741, 783, 845, 742, 744, 745, 750, 804, 809, 830, 829/1, 834, 837/2, 109 |
| Sagar | Sagar | Chaitpur | 384, 386, 387, 390, 389, 433 | 384, 385, 386, 387, 390, 389, 433, 434 |
| Sagar | Sagar | Dhana | 71, 72/1, 75, 76, 77, 78, 83/2, 83/1, 84, 86/2, 86/1, 87, 99/1, 100/1, 70, 66, 65, 64 62, 119, 118, 123, 125/2, 125/1, 128, 129/1, 129/2, 142, 143, | 71, 72/1, 75, 76, 77, 78, 83/2, 83/1, 84, 86/2, 86/1, 87, 99/1, 100/1, 70, 66, 65, 64 62, 119, 118, 123, 125/2, 125/1, 128, 129/1, 129/2, 142, 143, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 129/2, 142, 143, 146, 61, 248, 247/1, 216, 215, 207, 191, 193, 196, 188, 189, 179/1, 178, 569/4, 801, 808, 806, 811, 812, 814, 819, 823, 824, 825/2, 571, 573, 574, 790, 796, 795, 794, 792, 791, 789, 775/2, 788, 787/2, 786, 785/1, 784, 783/2, 783/1, 826, 839, 840, 841, 896, 897, 895, 893, 892, 891, 890, 887, 855, 854, 857, 861/2, 860/2, 859, 876, 877, 878/1, 878/2 878/3, 883, 875, 820, 144, 179/2, 176, 570, 778 | 146, 61, 248, 247/1, 216, 215, 207, 201, 193, 196, 188, 189, 179/1, 178, 569/4, 801, 808, 806, 811, 812, 814, 819, 823, 824, 825/2, 571, 573, 574, 790, 796, 795, 794, 792, 791, 789, 775/2, 788, 787/2, 786, 785/1, 784, 783/2, 783/1, 826, 839, 840, 841, 896, 897, 895, 893, 892, 891, 890, 887, 855, 854, 857, 861/2, 860/2, 859, 876, 877, 878/1, 878/2 878/3, 883, 875, 820, 144, 179/2, 176, 570, 175, 172, 145, 148, 147, 802, 804, 805, 813, 569/1-3, 578/4, 579, 773, 775/3, 787/3, 780, 782, 130, 830, 829, 827, 747, 856, 875, 879/6, 879/1, 879/2, 127, 205, 191, 778 |
| Sagar | Sagar | Ghatam pur | 451, 455, 453, 457, 458, 459, 460, 464, 462, 528, 532, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 447, 440, 449, 222, 223, 221, 220, 213, 212, 210, 534, 535, 536, 553, 559, 442, 276, 224, 206, 205, 204, 203, 201, 202, 196, 533, 209, 461, | 451, 455, 453, 457, 458, 459, 460, 464, 462, 528, 532, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 447, 440, 449, 442, 222, 223, 221, 213, 212, 210, 534, 535, 536, 553, 559, 442, 276, 224, 206, 205, 204, 203, 201, 202, 196, 441, 219, 217, 216, 214, 554, 454, 463, 356, 230, 220, 209, 206, 533, 209, 461, 229 |
| Sagar | Sagar | Baroda | 517/969, 516, 513, 512, 510, 509, 508, 506, 505, 496, 447, 446, 445, 444, 36, 37, 38, 41, 46, 47, 48, 246, 247, 264, 266, 267, 268, 271, 270, 272, 282, 285, 284, 286, 287, 298, 302, 321, 322, 324, 441, 440, 437, 433, 435, 431, 430, 424, 423, 422, 421, 420, 413, 408, 407, 285, 284, 286, 298, 321, 322, 323, 324, 324, 380, 382, 383, 402/997, 403, 401, 400, 399, 683, 684, 688, 867, 866, 863, 862, 861, 927, 405, 689, 690, 859, 860, 434, 507, 449 | 517/969, 516, 513, 512, 510, 509, 508, 506, 505, 496, 447, 446, 445, 444, 36, 37, 38, 41, 46, 47, 48, 246, 247, 264, 266, 267, 268, 271, 270, 272, 282, 285, 284, 286, 287, 298, 302, 321, 322, 324, 441, 440, 437, 433, 435, 431, 430, 424, 423, 422, 421, 420, 413, 408, 407, 285, 284, 286, 298, 321, 322, 323, 324, 380, 382, 383, 402/997, 403, 401, 400, 399, 683, 684, 688, 867, 866, 863, 862, 861, 927, 405, 689, 690, 859, 860, 434, 507, 511, 495, 245, 248, 263, 259, 273, 274, 275, 280, 281, 282, 283, 296, 425, 419, 418, 417, 384, 385, 402, 682, 685, 868, 865, 864, 693, 691, 857, 449, |
| Sagar | Rehli | Kadata | 1, 3, 4, 5/2, 5/1, 9, 10 42, 43, 44, 45, 46, 58/1, 62/5, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 18/2, 29, 40/6, 40/5, 40/3, 40/4, 265/2, 265/3, 265/1, 62/2, 62/1, 66/2, 66/1, 67, 68, 266, 267, 268, 263, 262, 260, 261, 250, 251, 250, 247, 248, 249, 248, 233, 69, 194, 196, 198, 196, 198, 200, 200, 201, 178, 177, 174, 230, 228/1, 222, 221, 219/1, 216, | 1, 3, 4, 5/2, 5/1, 9, 10 42, 43, 44, 45, 46, 58/1, 62/5, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 18/2, 29, 40/6, 40/5, 40/3, 40/4, 265/2, 265/3, 265/1, 62/2, 62/1, 66/2, 66/1, 67, 68, 266, 267, 268, 263, 262, 260, 261, 250, 247, 248, 249, 248, 233, 69, 194, 196, 198, 200, 201, 178, 177, 174, 230, 228/1, 222, 221, 219/1, 216, 215, 214, 203, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m, either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m, either sides of the road) |
|----------|--------|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 215, 214, 203, 283, 312, 172, 130, 127, 128, 122, 125, 127, 128/2, 227, 58/2, 40/1, | 283, 312, 172, 130, 127, 128, 122, 125, 295, 175, 228/2, 227, 58/2, 40/1, 61, 264, 199/2, 179, 245/2, 233/1, 217, 213, 170, 168, 129, 289, |
| Sagar | Rehli | Piparia Narsinh | 127, 35, 36, 134, 137, 149, 150 159, 160, 37 38/1, 110, 124, 123, 135 | 127, 35, 36, 134, 137, 149, 150 159, 161, 160, 158, 136, 139, 37, 38/1, 109, 110, 124, 123, 135, 111, |
| Sagar | Rehli | Jaamghat | 111, 120, 119 121, 122, 123, 126, 127/1, 133 , 134, 135, 142/2-3, 143, 151/1, 151/4, 152, 40/2-3, 41, 43, 48/242, 68, 69 71, 72/2, 78, 79, 109, 108, 107, 106/19, 155, 154/2, 153, 168,/2, 169,/2, 170/1, 67 | 111, 120, 119 121, 122, 123, 126, 127/1, 127/2, 133 , 134, 135, 142/2-3, 142/1, 143, 151/1, 151/4, 152, 40/2-3, 41, 43, 48/242, 68, 69, 71, 72/2, 78, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 106/2, 79, 109, 108, 107, 106/17, 106/18, 106/19, 155, 156, 154/2, 154/3 153, 168/2 169/2, 170/1, 171, 132, 136, 67 |
| Sagar | Rehli | Khamaria | 504, 503, 505, 502, 500, 499, 498, 537, 538, 540, 543, 548, 547, 469, 470 437, 472, 496, 495, 494, 490, 489, 488, 549 | 505, 503, 505, 501, 502, 555, 499, 498, 537, 538, 543, 548, 547, 468, 469, 470, 471, 473 472, 479, 496, 495, 494, 490, 489, 488, 549, 474 |
| Sagar | Rehli | Dikua | 150, 150/364, 149, 160, 162, 163, 166, 285, 282, 281, 280, 279, 361, 108, 109, 110, 147, 146, 178, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 158, 284, 140, | 150, 158, 149, 150/364, 157, 157/365, 160, 161, 162, 163, 166, 285, 284, 282, 283, 281, 280, 279, 361, 108, 109, 110, 147, 111/4, 111/2, 111/3, 145, 146, 144, 143, 178, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 158, 284, 140, |
| Sagar | Rehli | Rehlikhas | 261, 259, 256, 252, 253/4, 253/6, 250/11, 247, 248, 241/1, 246/4, 245/1, 219/4, 221, 222/30, 222/19, 222/1, 223, 229, 230, 231, 238, 242, 264, 258, 267, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 319, 465 315, 382, 393, 391, 386, 380 , 379, 377, 376, 374, 375, 375, 321 , 322, 323, 325, 324/1, 317/2 | 261, 259, 256, 252, 253/4, 253/6, 250/11, 247, 248, 241/1, 246/4, 245/1, 219/4, 221, 222/30, 222/19, 222/1, 223, 229, 230, 231, 238, 242, 264, 258, 267, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 319, 465 315, 382, 393, 391, 386, 380 , 379, 377, 376, 374, 375, 321 , 322, 323, 325, 324/1, 240, 239, 228, 215/1, 253/1, 279, 317/1, 314, 279, 280, 370, 373, 253/5, 317/2 |

Under Section 12(2) of Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, any or all persons affected by such notification who may wish to make any objection or suggestion with respect to the issue of such notification, may submit their objections or suggestions in writing to the Highway Authority (Managing Director/Divisional Manager M.P. Road Development Corporation Ltd.) or appear before such authority within one month of the publication of the notification in the official Gazette or within 15 days from the date of the publication of the notification in the village, whichever period expires later .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

क्रमांक एक, २३-०२/१५/सा/१९ मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 12 (1) के निवंधनों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निम्न अनुसूची के खण्ड-अ में वर्णित राज्य राजमार्ग के लिए खण्ड-ब में अंकित भूमि विवरण के अनुरूप भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखा की अधिसूचना जारी किया जाना प्रस्तावित है :—

I)

"खण्ड-अ"

| अ. क्र. | अधिसूचित मार्ग का नाम | सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में) | राज्यमार्ग में आने वाले जिले |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | दमोह-हटा-गैसावाद राज्यराजमार्ग-47 | 62.40 | दमोह |

"खण्ड-ब"

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| दमोह | दमोह | दमोहखास | 999, 1001, 1003 | 999, 1001, 1003, 1138 |
| दमोह | दमोह | सिंगपुर | 313/7, 320/4, 320/3, 321/4, 323/3, 323/1, 324/2, 323/5, 323/2, 324/1, 325, 326, 328, 329/2, 329/1, 340/2, 340/1, 339, 46/2 46/1, 21/100, 21/4, 26, 21/1, 25 218, 24/2, 24/3, 2/2, 350/1-2, 351/3, 351/2, 351/1, 353, 356/1, 355/1-2, 356/2, 357/2, 357/1, 318/, 318/6, 342, 343, 344, 345/3, 347, 544, 543, 542/2, 543/11, 542/1, 542/2, 527, 526, 525/1, 524/2, 524/1, 510/1, 510/2, 509/1, 509/2, 509/3, 359/1, 359/2, 362/1, 362/2, 363/1, 21/8, | 2/2, 21/1, 21/1, 21/4, 24/2, 24/3, 25, 26, 27, 31, 37, 38, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47, 218, 313/7, 318/, 318/6, 320/3, 320/4, 321/1, 321/2, 321/3, 321/4, 323/1, 323/2, 323/3, 323/5, 324/1, 324/2, 324/3, 24/4, 325, 326, 328, 329/1, 329/2, 332/1, 332/12, 332/2, 332/4, 332/5, 332/6-7, 339, 340/1, 340/2, 342, 343, 344, 345/3, 346, 347, 350/12, 351/1, 351/2, 351/3, 352, 353, 354, 355/12, 356/1, 356/2, 357/1, 357/2, 359/359/1, 359/2, 360, 362/1, 362/2, 363/1, 460/1, 509/1, 509/2, 509/3, 510/1, 510/2, 511, 512, 524/1, 21/8, 332/8, 256, |
| दमोह | दमोह | सिमरी राजाराम | 53/3, 54, 53/1, 55, 56, 57, 63, 64/2, 255, 270/1, 270/2, 271, 273, 274, 280/2, 130/1, 130/2, 130/3, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 252, 251, 250, 248, 249, 285, 286, 284, 288, 298, 299/2, 300, 301/2, 187/3, 301/1, 136, 280/1, | 53/1, 53/3, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64/2, 64/4, 129, 130/1, 130/2, 130/3, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 139, 187/2187/3, 208, 209, 218, 219, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 270/1, 270/2, 271, 273, 274, 280/2, 284, 285, 286, 288, 298, 299/1, 299/2, 300, 301/1, 301/2, 280/1, 64/4, |
| दमोह | दमोह | मानपुरा | 115, 114, 110, 109, 100, 99, 98, 95, 96, 94, 89, 88, 87, 86, 83, 80, 77, 76, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 25, 29, 41, 42, | 2, 3, 7, 11, 12, 24, 25, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 77, 78, 80, 84, 85, 90, 93, 99, 101, 102, 103, 104, 108, 111, 114, 115, 4, 8, 9, 76, 83, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 98, 109, 110, 100 |
| दमोह | दमोह | भोदलखेडी | 100, 125, 127, 126, 129, 131/1, 184/1, 189/3, 188, 189, 191, 193, 55, 16/2, 16/1, 70/3, 79, | 16/1, 16/2, 55, 69, 70/3, 83, 88, 89, 93, 97, 98, 99, 100, 125, 126, 127, 129, 131/1, 184/1, 186, 188, 190, 191, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|------------|---|--|
| | | | 83, 88, 98 | 193, 194, 79, 189/3, 189 |
| दमोह | दमोह | पालर सिंगी | 245, 222, 223, 227, 240, 247, 254, 259, 261, 263, 264, 265, 91, 92, 93, 94, 104, 113, 119, 209/1, 208, 206, 207, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 194, 193 | 86, 88, 90, 93, 94, 104, 106, 108, 113, 119, 120, 188, 189, 191/1, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209/1, 210, 217, 224, 226, 228, 232, 240, 243, 246, 247, 256, 258, 261, 263, 264, 266, 91, 92, 198, 222, 223, 227, 245, 247, 254, 259, 265 |
| दमोह | दमोह | लक्ष्मणधाम | 305, 306, 331, 336, 340, 348, 349, 354, 367, 370, 371, 372, 377, 290, 289, 288/1, 288/2, 287, 266, 257, 251, 258, 248, 247, 226, 224/3, 224/4, 224/2, 218, 216, 214, 213 | 292, 297, 298, 308, 330/1, 332, 336, 351, 354, 355, 368, 370, 371, 372, 377, 290, 289, 288/1, 288/2, 285, 286, 267, 287, 266, 265, 259, 257, 258, 242, 251, 244, 248, 247, 226, 224/3, 224/4, 224/2, 218, 216, 214, 213, 303, 306, 331, 340, 348, 349, 367 |
| दमोह | दमोह | आंखखेडा | 380, 381, 382, 383, 384, 104, 405, 406, 407, 659, 657, 656, 655, 640, 639, 637, 636, 635, 629, 615, 613, 614, 610, 408, 409, 410, 422, 423, 426, 420, 427, 432, 433, 434, 136, 440, 441, 562/1, 562/2, 554, 555, 553, 551, 550, 479, 480, 478, 477, 473, 451, 452, 127, 471, 469, 470, | 380, 381, 382, 383, 384, 385, 104, 405, 406, 407, 408, 659, 657, 656, 655, 644, 640, 639, 637, 636, 635, 633, 629, 615, 613, 614, 610, 609, 408, 409, 410, 420, 422, 423, 426, 420, 427, 432, 433, 434, 136, 440, 441, 563, 562/1, 562/2, 562/3, 554, 555, 553, 551, 550, 479, 480, 481, 478, 477, 473, 451, 452, 127, 471, 469, 468, 470, |
| दमोह | दमोह | मुडिया | 426, 425/2, 425/1, 424, 422/1, 417, 395, 394, 393, 392, 384, 363, 362, 361, 360, 358, 357, 299, 303, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 159, 160, 161, 190, 165, 189, 188, 194, 25, 195, 196, 200, 217, 215, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 227, 273, 274, 296, 275 | 426, 425/2, 425/1, 424, 420/2, 422/1, 419, 416, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 384, 363, 362, 361, 360, 358, 357, 298, 299, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 159, 160, 161, 190, 165, 189, 188, 194, 162, 187, 196, 195, 200, 217, 215, 198, 180, 196, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 227, 273, 274, 275, 296, 294, 417 |
| दमोह | पटेरा | बमुरिया | 239/1, 239/2, 238/1, 238/3, 237, 233/2, 235/2, 235/1, 236 | 239/1, 239/2, 238/1, 238/3, 237, 233/2, 235/2, 235/1, 236, 224, 235/2, 234, 231, |
| दमोह | पटेरा | बनगांव | 210/1, 210/2, 218, 220, 221, 223, 222, 224, 225/1, 225/3, 226, 229, 230, 231, 232, 247, 246, 245, 244, 243/1, 322, 323, 325, 331, 332, 333, 334, 337, 343, 338, 738, 753, 340, 342, 752, 746, 747, 739/2, 738, 737, 712, 710, 708, 643, 642/2, 642/1, 1061, 1057, 1056, 1085, 1054, 273, 249, 250/2, 250/1, 251, 252, 253, 254/5, 254/4, 254/3, 254/2, 254/1, 255/2, 320/4, 320/3, 368, 367, 365, 350/3, 350/1, 618, 622, 621/1, 621/4, 616, 623/1, 623/2, 424/1, | 234, 233/1, 283/2, 209, 210/1, 210/2, 217, 216, 211, 215, 218, 220, 221, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225/1, 225/3, 225/11, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 234, 247, 243/2, 246, 245, 244, 322, 242, 243/1, 324, 323, 325, 329, 331, 334, 332, 333, 343, 753, 757, 337, 343, 338, 340, 739, 752, 342, 753, 751/1, 754/2, 751/2, 739/2, 738, 737, 713, 712, 746/2, 746/1, 746, 747, 710, 708, 644/2, 643, 644/4, 642/2, 642/1, 1061, 1057, 1056, 1055, 1054, 1085, 273, 249, 250/1, 250/2, 251, 252, 253, 258, 254/5, 254/4, 254/3, 254/2, 254/1, 257/2, 257/1, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|-----------|--|---|
| | | | 624/2, 625, 626, 635/2, 636, 637, 638, 644, 1063/1, 1064/1, 1064/2, 1065/1, | 256/1, 255/2, 320/4, 320/2, 368, 372, 367, 366, 365, 350/3, 350/1, 363/2, 424/1, 618, 621/3, 621/4, 621/1, 616, 622, 623/1, 623/2, 624/1, 624/2, 625, 626, 635/2, 628/1, 634/2, 636, 637, 638, 644, 1063/1, 1063/3, 1062/1, 1064/2, 1063/2, 1065/1, |
| दमोह | पटेरा | कंजरा | 632, 630, 629, 624, 628, 623, 616, 613, 605, 552, 577, 576, 555, 553, 546, 545, 543, 532, 531, 527, 518, 515, 514, 505, 513, 507, 508, 509, 512, 510, 511, 636, 637, 638, 639, 662, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 752, 753, 754, 757, 758, 760, 768, 759, 876, 878, 881, 882, 883, 987, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, | 631, 630, 632, 629, 628, 624, 623, 625, 622, 616, 617, 613, 615, 606, 605, 603, 597, 552, 577, 576, 574, 555, 554, 553, 546, 545, 543, 542, 532, 531, 528, 527, 526, 518, 515, 514, 513, 507, 508, 509, 512, 510, 511, 636, 647, 646, 642, 637, 638, 639, 640, 662, 663, 665, 666, 664, 667, 668, 669, 678/3, 670, 671, 672, 673, 674, 752, 768, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 876, 880/1, 878, 880/2, 881, 882, 882, 883, 987, 986, 989, 990, 991, 988, 992, 993, 994, 995, , 996, 997, |
| दमोह | पटेरा | लुहारी | 1534/3, 1534/1, 1534/2, 1543/2, 1543/1, 1547, 1337/1, 1337/2, 1335, 1334, 1332, 1272/2, 1278, 1276, 1279, 1280/2, 1280/4, 1283, 1290, 1292, 1295, 1296, 1298, 1303, 1306/2, 1305/1, 450/2, 450/3, 451/2, 451/1, 451/4, 452/2, 452/3, 460, 461, 462/1, 463, 464, 465, 469, 470, 472, 476/1, 476/2, 475/1, 475/2, 478, 473/1, 352/6, 353, 352/5, 352/4, 349, 348/2, 348/4, 348/3, 347, 346, 344/1, 314/3, 1532, 1531, 1341, 1249/5, 1246, 1249/1, 1249/3, 1250, 1269/1, 1269/2, 1269/3, 1270, 1044, 1046, 1043, 1041, 1040, 1039, 1026, 1027, 1012, 1013, 970, 969/3, 526, 527, 524/1, 524/2, 525, 518/1, 518/2, 517, 516/1, 480, 481, 482/1, 355/3, 355/2, 355/1, 337, 338, 340/4, 340/1, 342, 313/2, 313/4 | 1534/3, 1535, 1534/1, 1534/2, 1538, 1543/2, 1543/3, 1543/1, 1547, 1337/1, 1337/2, 1335, 1334, 1339, 1332, 1272/2, 1272/1, 1275, 1273, 1274, 1278, 1277, 1279, 11280/2, 1280/4, 1281 , 1276, 1284, 1282/2, 1283, 1290, 1268, 1292, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1304, 1303 , 1306/2, 1305/1, 450/2, 449, 447, 450/3, 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 452/2, 452/3, 452/4, 460, 461, 457, 462/1, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470, 472, 473/1, 474, 475, 476/2, 476/1, 475/2, 477/2, 477/1, 478, 352/6, 353, 352/5, 352/4, 349, 348/4, 348/3, 348/2, 348/1, 347, 348/3, 346 , 344/2, 344/1, 344/2, 344/3, 314/3, 1532, 1531, 1341, 1340, 1249/1, 1249/4, 1249/5, 1249/3, 1246, 1252, 1250, 1269/1, 1269/2, 1269/3, 1270, 1044, 1046, 1043, 1041, 1040, 1039, 1028, 1027, 1026, 1012, 1013, 1015, 971, 970 , 969/3, 969/2973, 972, 969/6, 527, 526, 524/1, 524/2, 525, 518/1, 518/2, 515, 517, 516/2, 516/1 , 479, 480, 481, 482/1, 355/3, 355/2, 355/1, 337 , 338, 339, 340/3, 340/4, 340/1, 342, 313/1, 342, 313/2, 313/3, 313/4 |
| दमोह | हटा | प्रेमपुरा | 52/2, 52/1, 58, 56/2, 57/2, 59, 60, 62, 63, 64, 68, 72/1, 73, 220/1, 220/2, 219/2, 217, 216, 203/2, 202, 197/1, 197/2, 192/8, 192/10, 189/1, 189/3, 189/2, | 52/2, 52/1, 58, 56/1, 56/2, 57/2, 59, 60, 62, 63, 64, 68, 65, 72/1, 73, 220/2, 220/1, 219/2, 219/1, 217, 215, 214, 216, 203/2, 203/1, 202, 195/1, 197/1, 196, 197/2, 192/10, 192/8, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|-----------|--|---|
| | | | 188, 187, 184, 49, 47, 48, 45, 27, 24, 22, 20/1, 74, 75/1, 75/2, 76, 77/1, 77/2, 77/235, 179, 180/1, 180/2, 181, 182/2, 181/1, | 192/1, 192/2, 189/1, 189/3, 189/2, 188, 187, 184, 186/1, 186/2, 50, 41, 49, 47, 48, 45, 27, 24, 21/6, 21/2, 22, 20/1, 20/2, 74, 75/2, 75/1, 77/1, 76, 77/2, 77/235, 179, 180/1, 180/2, 181, 176, 177, 182/2, 182/1, |
| दमोह | हटा | बूढ़ा हटा | 122/2, 122/1, 120/45, 120/4, 120/5, 120/1, 61, 59/1, 58, 57/1, 58, 57/2, 46, 47, 44/18, 60, 44/14, 61, 65/7, 65/2, 65/5, 92, 65/9, 68/2, 44/14, 44/18, 44/17, 44/3, 43, 42, 34/3, 35/17, 35/16, 36/29, 36, 66/1, 90, 89, 88/1, 68/1, 36/13-36/26, 39, 1, 88/1, 88/2, 86/1-3, 87-1-2, 68/2, 35/17, 70/1, 70-70/2-70/3, 69/1 | 122/2, 122/1, 120/45, 120/4, 120/5, 120/1, 61, 59/1, 58, 57/1, 58, 57/2, 46, 47, 44/18, 60, 44/14, 61, 65/7, 65/2, 65/5, 92, 65/9, 68/2, 44/14, 44/18, 44/17, 44/3, 43, 42, 34/3, 35/17, 35/16, 36/29, 36, 66/1, 90, 89, 88/1, 68/1, 36/13-36/26, 39, 1, 88/1, 88/2, 86/1-3, 87-1-2, 68/2, 35/17, 70/1-70-70/2-70/3, 69/1 |
| दमोह | हटा | हटा खास | 155, 150, 152, 148, 268/22, 268, 268/6, 145, 146, 276, 272/1, 278/1, 270, 142, 269, 162, 163, 161, 159, 156, 156/3, 155, 150, 152, 139/43, 143, 145, 144, 146, 142, 20, 21, 22, 45, 46, 64, 62, 61, 63, 162, 163, 18, 70, 68, 71, 65, 67, 139/42, 139/44, 72, 73 | 155, 150, 152, 148, 268/22, 268, 268/6, 145, 146, 276, 272/1, 278/1, 270, 142, 269, 162, 163, 161, 159, 156, 156/3, 155, 150, 152, 139/43, 143, 145, 144, 146, 142, 20, 21, 22, 45, 46, 64, 62, 61, 63, 162, 163, 18, 70, 68, 71, 65, 67, 139/42, 139/44, 72, 73, 156/4, 151, 260, 277/1, 278/2, 165, 164/1, 160, 151, 23/1, 44, 60, 165, 164/1, 139/91 |
| दमोह | हटा | बंजारी | 50, 51/2, 51/1, 44, 46, 47, 49/2, 49/3, 49/1, 41/2, 56/1, 52, 54, 55/2, 41/3, 53, 33/2, 32, 30, 31, 29, 28, 56/3, 61, 63, | 50, 51/2, 51/1, 44, 46, 47, 49/2, 49/3, 49/1, 41/2, 41/1, 39, 56/1, 52, 54, 55/2, 41/3, 53, 33/2, 32, 30, 31, 29, 28, 56/3, 59, 61, 63, |
| दमोह | हटा | विनती | 184, 183, 182, 181, 180, 179, 177, 206, 213, 214, 215, 218/3, 219, 218/2, 220, 218/1, 248/3-4, 248/1, 249/1, 249/2-3, 256/1-2, 257, 258, 10, 15, 9, 8/1, 8/3, 7, 6, 11, 23, 25/1, 25/2, 26, 30/1, 31/4, 31/2, 30/2, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 155/1, 165, 91, 87, 85, 83, 82, 103, 81, 80, 78, 76, | 184, 183, 185, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 213, 214, 206, 215, 212, 218/3, 218/2, 218/1, 219, 220, 248/3-4, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2-3, 250, 251, 252/1, 252/2-3, 256/1-2, 257, 258, 259/1, 10, 15, 13, 14, 9, 11, 12, 8/1, 8/3, 16/3, 22, 23, 7, 6, 25/1, 25/2, 26, 39/3, 30/2, 30/1, 31/4, 31/2, 33, 36, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 155/1, 155/2, 164/1, 93, 91, 165, 87, 89, 101, 103, 104, 85, 83, 82, 81, 80, 78, 76, 4, 3, 2, 1, |
| दमोह | हटा | करैयाजोशी | 4, 3, 2, 1, 31/1, 31/4, 31/2, 26, 30/2, 25/2, 25/1, 23, 6, 7, 8/3, 8/1, 15, 10, 13, 11, 33, 39/3, 41, 22, 16/3, 14, | 4, 3, 2, 1, 31/1, 31/4, 31/2, 26, 30/2, 25/2, 25/1, 23, 6, 7, 8/3, 8/1, 15, 10, 13, 11, 33, 39/3, 41, 22, 16/3, 14, |
| दमोह | हटा | हरदुआ सडक | 91, 95, 90, 89, 86, 85, 84, 114, 113, 112, 111, 116, 117, 118, 121, 120, 288, 287, 284, 283, 202, 201, 285, 198, 199, 200, 197/2, 195/1, 195/2, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220/2, 225, 226, 227/1, 228, 80/3, 80/2, 80/1, 81, 82/1, 79, 53, 51, 49, 50, 48, 47, 46, 123, 124, 129, | 91, 95, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 113, 114, 111, 112, 118, 117, 116, 119, 120, 121, 295, 288, 287, 293, 284, 285, 283, 202, 201, 200, 199, 198, 282/2, 281, 205, 197/2, 197/1, 195/1, 196/2, 196/1, 195/2, 212/1, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 219, 220/2, 220/1, 225, 226, 227/1, 228, 82/1, 80/3, 80/2, 80/1, 81, 79, 78, 24, |

| जिला | तहसील | ग्राम | मरन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|---------------|--|--|
| | | | 131, 169/1, 132, 168, 166, 148, 164, 165, 171, 189, 188/1, 188/2, 190/1, 191, 192, 190/2, | 77, 54, 54, 53, 51, 50, 49, 48, 42, 47, 46, 45, 123, 32, 124, 129, 130, 133/1, 131, 132, 169/1, 168, 148, 164, 165, 171, 187, 188/1, 189, 189, 188/2, 191, 190/1, 192, 190/2, 189/1, |
| दमोह | हटा | धुटरिया | 300, 299, 298, 327, 332, 333, 334, 335, 338/2, 338/1, 337, 237, 234, 235, 233, 232, 231, 226, 221, 222, 218, 217, 219, 216, 212, 211, 142, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 292/2, 292/1, 293, 294, 295, 266, 267/82, 239, 236, 237, 238, 140, 139, 39, 131, 130, 128, 127, 125, 123, 120, 121, 122, 118, 119, 115, 114, 113, 112, 106, 105/4, 105/3, 105/1, 105/2, 102, 266/81, | 300, 301, 306/1, 299, 326, 298, 327, 332, 333, 331, 334, 383, 335, 338/2, 338/1, 337, 342, 341, 237, 235, 234, 233, 232, 231, 223, 228, 226, 221, 222, 218, 216, 217, 218, 219, 215, 214, 212, 210, 211, 208, 209, 144, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 291, 292/2, 292/1, 289, 293, Z2, 294, 295, 269, 296, 266, 266/81, 267/82, 239, 240, 236, 237, 235, 239, 238, 140, 139, 132, 130, 131, 62, 63, 128, 127, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 118, 119, 117, 115, 92, 114, 93, 111, 110, 112, 113, 107, 105/4, 105/3, 105/1, 105/2, 102, 106, 266/81 |
| दमोह | हटा | घूरखेडा | 237, 236, 235, 234/1, 233, 229, 230, 231, 224, 225, 266/81, | 237, 236, 235, 234/1, 233, 227, 229, 230, 226, 230, 231, 224, 225, 223, 222, 221, 220, 200, 266/81 |
| दमोह | हटा | सकौर | 769, 768, 767, 766, 764, 763, 762, 761, 760, 754, 758, 752, 747, 748, 746, 710, 712, 709, 704, 703, 702, 669, 700, 701, 698, 759, 408, 406, 410, 408, 422, 423, 424, 425, 431, 426, 429, 428, 427, 443, 442/3, 444, 445, 649, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 692, 663, 664, 664, 696, 694, | 771, 772, 769, 768, 767, 766, 764, 763, 762, 761, 760, 759, 754, 758, 756, 752, 751, 747, 748, 746, 743, 744, 745, 710, 711, 712, 713, 709, 708, 707, 706, 705, 704, 703, 702, 669, 700, 701, 698, 699, 759, 408, 403, 402, 406, 407, 408, 409, 411, 410, 408, 422, 423, 424, 425, 431, 426, 429, 428, 427, 443, 442/3, 444, 445, 649, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 692, 663, 664, 696, 694, |
| दमोह | हटा | हिनोता कला | 129, 130, 128/3, 127, 123, 122, 120, 119, 116, 115, 114, 411, 412, 413, 416, 415/1, 418, 419, 602/1, 599, 598, 595, 592/1, 588, 585, 581, 578, 580, 569, 577, 574, 549, 543, 683, 684, 686, 104, 105, 106, 112, 110, 58, 57, 39, 46, 37, 38, 604, 603, 605, 606, 616/1, 615/1, 617, 618/1, 620, 619, 621, 640, 622, 626, 625, 624, 629, 631/2, 631/1, 630, 664, 665/2, 667/2, 671, 666, 672/1, 673/2, 677, 676, 675, 674, 681, | 129, 130, 128/3, 127, 126, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 250, 114, 251, 406, 407, 411, 412, 414, 413, 410, 416, 415/1, 418, 419, 602/1, 599, 598, 595, 501, 594, 592/1, 588, 587, 585, 578, 579, 569, 581, 580, 570, 577, 574, 576, 572, 571, 568, 549, 548, 543, 683, 684, 686, 687, 685, 691, 544, 545, 104, 96/2, 99, 100, 105, 106, 110, 111, 112, 59, 58, 57, 54, 46, 40, 39, 37, 38, 604, 30, 603, 605, 606, 611, 612, 616/1, 615/1, 614/1, 614/2, 614/4, 614/5, 617, 618/1, 620, 24, 621, 619, 637/1, 621, 622, 625, 626, 624, 627, 628, 629, 623/3, 631/2, 631/1, 630/1, 630/2, 632/3, 640, 664, 665/1, 665/2, 666, 667/2, 671, 672/2, 672/1, 672/3, 673/2, 677, 676, 675, 674, 681, |

| जिला | तहसील | ग्राम | मवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|---------|---|--|
| दमोह | हटा | बुढवार | 249, 248, 247, 246, 245, 243/1, 243/2, 242, 241, 227, 226, 225, 219, 218, 217, 196, 195, 194/1, 186/4, 186/6, 185/3, 185/2, 105, 106, 110, 109, 111, 112, 113/2, 113/3, 113/1, 131, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 163, 164, 180, 181, 179/2, 179/3, | 250, 249, 248, 252, 247, 246, 253, 254, 245, 243/2, 243/1, 244, 242, 241, 239, 228, 229, 227, 225, 226, 219, 218, 217, 196, 195, 194/1, 186/6, 186/4, 185/3, 185/2, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113/2, 113/3, 113/1, 97, 129/2-3, 132, 131, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 163, 164, 165, 180, 181, 179/1, 179/2, 179/3, |
| दमोह | हटा | गर्झह | 75, 76, 77, 78, 68, 65, 67, 66, 63, 62, 297, 296, 295, 293, 388, 389, 390, 395, 415, 419, 418, 81, 82, 103, 80, 104, 105, 106, 107, 159, 158, 160, 163, 164, 165, 175, 170, 279, 280, 281, 290, 291, 289, 288, 428, 426, 425, 427, 424, 423, 422, 421, | 75, 76, 77, 78, 68, 65, 67, 66, 63, 62, 60, 297, 296, 294, 295, 293, 388, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 415, 419, 418, 81, 82, 103, 80, 104, 105, 106, 107, 156, 159, 158, 160, 163, 164, 165, 178, 175, 184, 170, 201, 204, 207, 279, 280, 281, 284, 290, 291, 289, 288, 273, 430, 431, 434, 435, 439, 440, 432, 436, 428, 426, 425, 427, 424, 423, 422, 421, |
| दमोह | हटा | गैसाबाद | 473, 472, 469, 468, 402, 401, 400, 399, 395, 638/3, 638/1, 693, 695, 703, 702, 700, 701, 728, 734, 735, 736, 738, 733, 727/2, 739, 740, 741, 743, 744, 742, 765, 772.773, 298, 297, 299, 475, 480, 481, 482, 483, 484, 538, 540, 541, 542, 551, 552, 553, 637, 635, 626, 812/3, 810, 809/2, 809/1, 808, 807, 806, 805, 804, 791, 789, 790, 784, 775, 295, 776, 779, 778, 777, 294, 293, | 458, 473, 472, 471, 469, 468, 470, 466, 402, 401, 400, 398, 397, 396, 399, 395, 394, 392/1, 390, 368, 638/1, 638/3, 693, 695, 696, 703, 700, 701, 727, 726, 728, 729, 730, 732, 726, 729, 730, 732/2, 733, 734, 735, 736, 737/1, 727/2, 738, 739, 740, 744, 742, 746, 750, 751, 741, 743, 745, 763, 765, 772, 762, 773, 308, 309, 307, 306, 773, 298, 297, 299, 296, 475, 476, 479, 480, 486, 481, 482, 483, 484, 485, 483, 538, 536, 537, 539, 541, 540, 542, 543, 551, 552, 550, 553, 555, 554, 634, 633, 635, 637, 626, 629, 826, 823/1, 812/3, 823/2, 810, 809/2, 809/1, 808, 807, 806, 805, 804, 802, 803, 796, 791, 790, 789, 781, 779, 778, 776, 777, 775, 299, 294, 293, |

II)

"खण्ड-अ"

| अ. क्र. | अधिसूचित मार्ग का नाम | सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में) | राज्यमार्ग में आने वाले जिले |
|---------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | सागर - दमोह एस.एच.-14 | 68.80 | दमोह, सागर |

"खण्ड-ब"

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|---------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| सागर | सागर | रुसल्ला | 389, 413, 414, 415, 416, 404, 418, 418/3, 420, 421, 422, 425, 424, 427 | 389, 413, 414, 415, 416, 404, 418, 418/3, 420, 421, 422, 425, 424, 427, 390, 407, 406/6, 406/7, 406/8 |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|------------------|---|---|
| सागर | सागर | बहेरिया | 188, 186, 187, 212, 213, 215, 216/3, 220, 228, 230, 229 | 188, 186, 187, 212, 213, 215, 216/3, 220, 228, 230, 229, 191, 189, 204, 209, 217, 221, 227, 231 |
| सागर | सागर | सिदगुवां | 413, 414, 390/1, 390/4, 388/2, 382/1, 559, 561, 562, 565/3, 570/1, 572/1, 572/2, 578, 416, 497/2, 499, 500, 501, 502, 519/1, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 553, 557, 720, 705/1, 706, 718, 721, 752, 733, 552, 567, 582 | 413, 414, 390/1, 390/4, 388/2, 382/1, 559, 561, 562, 565/3, 570/1, 572/1, 572/2, 578, 416, 497/2, 499, 500, 501, 502, 519/1, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 553, 557, 720, 705/1, 706, 718, 721, 752, 733, 388/1, 379, 378, 569, 570/2, 417/1, 417/2, 497/1, 507, 517, 518, 520, 524, 522, 527, 545, 552, 581, 679, 682, 694, 705/2, 730, 732, 380, 567, 582 |
| सागर | सागर | केरवाना | 990, 1478/2, 1478/1, 1479, 1481 | 990, 1478/2, 1478/1, 1479, 1047, 1050, 1049, |
| सागर | सागर | बम्होरी डुंडर | 592/2, 609, 612, 615, 654, 653, 674, 676/2, 676/1, 672, 581/1, 581/2-3-4-5-6, 672, 675 | 592/2, 609, , 615, 612, 654, 653, 674, 676/2, 676/1, 672, 581/1, 581/2-3-4-5-6, 582, 673/1, 672, 675, 613 |
| सागर | सागर | मंझगुवा | 390, 401, 402, 409, 1233, | 390, 401, 402, 409, 1233, 398 |
| सागर | सागर | सनोधा | 784/2, 784/6, 784/5, 784/3, 784/1, 873, 872, 871, 870, 868, 867, 852, 940/207, 880, 881/5, 879/1, 881/1, 882/2, 878/1, 882/2, 875, 876/2, 876/3, 876/4, 876/1, 877, 925, 926, 928, 940, 946, 948/1, 949, 1942, 1943, 929, 937, 938, 851, 865, 941/1, 950, 1945, 927, 930/2135, 933, 924, 941/2, 942, 1941 | 784/2, 784/6, 784/5, 784/3, 784/1, 873, 872, 871, 870, 868, 867, 852, 940/207, 880, 881/5, 879/1, 881/1, 882/2, 878/1, 882/2, 875, 876/2, 876/3, 876/4, 876/1, 877, 925, 926, 928, 940, 946, 948/1, 949, 1942, 1943, 929, 937, 938, 851, 865, 941/1, 950, 1945, 927, 930/2135, 933, 924, 941/2, 942, 1941 |
| सागर | सागर | डुंगासरा | 827, 828, 829, 836, 837, 835, 838, 839, 840, 841, 844, 825, 819, 818, 817, 783, 782, 779, 778, , 777, 776, 774, 773, 771, 763, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 861, 759, 850, 851, 852, 861, 759, 760, 761, 762, 902, 903, 868, 869, 867, 866, 865, 874, 864, 863, 834, | 827, 828, 829, 836, 837, 835, 838, 839, 840, 841, 844, 825, 819, 818, 817, 783, 782, 779, 778, , 777, 776, 774, 773, 771, 763, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 861, 759, 760, 761, 762, 902, 903, 868, 869, 867, 866, 865, 874, 864, 863, 824, 781, 780, 775, 769, 853, 770, 911, 870, 758, 901, 834, |
| सागर | सागर | परसोरिया | 8, 9, 11, 15, 13, 12, 16, 17, 18, 20, 25, 38, 43, 42, 65, 66, 69, 70, 78, 175, 1, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 219, 251, 252, 258, 259, 260, 72, 75, 73, 172, 171, 169/1, 169/4, 168/1, 168/2, 167, 166, 165, 163, 162, 161, 160, 127, 151, 155, 155, 128, 137, 678, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 276, 280, 487, 468, 469, 473, 471, 627, 628, 640, 637, 863, 865, 866, 897, 896, 895, 985, 907, 908, 1000, 1001, 1002/1, 1002/2, 866, 897, 896, 895, 985, 907, 908, 1000, 1001, 1002/1, 1002/2, 857, 854, 855, 752, 753, 754, 791, 795, 796, 801, 813, 814, 819, 818, 820, 821, 827, 828, 829, 830, 831, | 8, 9, 11, 15, 13, 12, 16, 17, 18, 20, 25, 38, 43, 42, 65, 66, 69, 70, 78, 175, 1, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 219, 251, 252, 258, 259, 260, 72, 75, 73, 172, 171, 169/1, 169/4, 168/1, 168/2, 167, 166, 165, 163, 162, 161, 160, 127, 151, 155, 128, 137, 678, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 276, 280, 487, 468, 469, 473, 471, 627, 628, 640, 637, 863, 865, 866, 897, 896, 895, 985, 907, 908, 1000, 1001, 1002/1, 1002/2, 866, 897, 896, 895, 985, 907, 908, 1000, 1001, 1002/1, 1002/2, 857, 854, 855, 752, 753, 754, 791, 795, 796, 801, 813, 814, 819, 818, 820, 821, 827, 828, 829, 830, 831, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सङ्क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सङ्क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|---------|----------|---|---|
| | | | 791, 795, 796, 801, 813, 814, 819, 818, 820, 821, 827, 828, 829, 830, 831, 836, 837, 847, 846, 1035, 1036, 1033, 1039, 1040, 1041, 1043, 1044, 1062, 1063, 1065, 1090, 1091, 1092, 1093, , 1132, 7, 10, 21, 39, 40, 42, 44, 77, 180, 197, 204, 205, 250, 74, 82, 83, 85, 86, 105, 117, 114, 115, 677, 262, 264, 275, 852, 750, 756, 755, 757, 794, 797, 477, 478, 486, 955, 938, 889, 901, 999, 815, 817, 826, 832, 841, 844, 845, 1061, 1089, 647, 700, 716, 725, 26, 249, 648, 470, 930, 889, 838, 186, 905, 1003, 274, 467, 601, 822, 807, 27 | 836, 837, 847, 846, 1035, 1036, 1033, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1044, 1062, 1063, 1065, 1090, 1091, 1092, 1093, , 1132, 7, 10, 21, 39, 40, 42, 44, 77, 180, 197, 204, 205, 250, 74, 82, 83, 85, 86, 105, 117, 114, 115, 677, 262, 264, 275, 852, 750, 756, 755, 757, 794, 797, 477, 478, 486, 955, 938, 889, 901, 999, 815, 817, 826, 832, 841, 844, 845, 1061, 1089, 647, 700, 716, 725, 26, 249, 648, 470, 930, 889, 838, 186, 905, 1003, 274, 467, 601, 822, 807, 27 |
| सागर | सागर | पड़िरिया | 672, 678, 669, 670, 679, | 672, 678, 669, 670, 668, 679, |
| सागर | सागर | गिरवर | 73, 75, 74, 68, 69, 67, 71, 72, 77, 78, | 73, 75, 74, 68, 69, 67, 71, 72, 77, 78, |
| सागर | सागर | रंगोली | 5, 6/2, 7, 8, 9, 12, 11, 13, 14, 18, 27, 28/2, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 42, 47, 160, , 157, 155, 156, 154, 153, 152, 148, 147, 146, 144, 143, 142, 146, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 74, 99, 98, 249, 362, 361, 360, 359, 358, 355, 354, 114, 115, 113, 112, 108, 107, 102, 101, 103, 305, 306, 309, 310, 311, 352, 370, 371, 372, 381, 382, 386, 387, 388/1, 388/2, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 411, 444, 443, 441, 440, 439, 438, 437, 478, 479, 472, 471, 470, 469, 468, 452, 453, 451, 449, 448, 447, 446, 993, 994, 6/3, 17, 19, 20, 176, 151, 150, 149, 75, 363, 364, 449, 448, 447, 446, 994, 356, 104, 303, 369, 442, 434, 454, 349, 457, | 5, 6/2, 7, 8, 9, 12, 11, 13, 14, 18, 27, 28/2, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 42, 47, 160, 157, 155, 156, 154, 153, 152, 148, 147, 146, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 74, 99, 98, 249, 362, 361, 360, 359, 358, 355, 354, 114, 115, 113, 112, 108, 107, 102, 101, 103, 305, 306, 309, 310, 311, 352, 370, 371, 372, 381, 382, 386, 387, 388/1, 388/2, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 411, 444, 443, 441, 440, 439, 438, 437, 478, 479, 472, 471, 470, 469, 468, 452, 453, 451, 449, 448, 447, 446, 993, 994, 6/3, 17, 19, 20, 176, 151, 150, 149, 75, 363, 364, 349, 457, |
| सागर | सागर | आपचंद | 110, 109, 121, 124, 123, 126, 127/2, 128, 105, 106, 107, 135, 134, 133/1, 133/3, 133/2, 132, 131, 172, 129, | 110, 109, 121, 124, 123, 126, 127/2, 128, 105, 106, 107, 135, 134, 133/1, 133/3, 133/2, 132, 131, 172, 129, 122, 104, 147, |
| सागर | सागर | बरपानी | 240/2, 240/3, 237, 483, | 240/2, 240/3, 237, 483, 235 |
| सागर | गढाकोटा | खदरी | 51, 52, 91, 90, 89, 88, 84, 83, 82, 80, 79, 78, 76, 77, 73, 98, 99, 100, 104, 101, 105, 72, | 51, 52, 91, 90, 89, 88, 84, 83, 82, 80, 79, 78, 76, 77, 73, 98, 99, 100, 104, 101, 105, 87, 86, 85, 81, 75, 69, 75, 72, 103, 106, |
| सागर | गढाकोटा | परासिया | 84, 85, 87, 77, 89, 93, 94, 95, 96, 116, 117, 123, 129, 130, 132, 319, 316, 314, 313, 312, 305, 304, 303, 302, 301, 290, 288, 286, 288, 147, 193, 246, 245, 244, 242, 241, 238, 280, 270, 268, 267, 264, 263, 257, 256, 252, 251, 249, 237, 235, 229, 227, 226, 413, 416, 417, 90, 91, 247, 311, 415, 412, 415, 412, 416, 417, 247, 311, | 84, 85, 87, 77, 89, 93, 94, 95, 96, 116, 117, 123, 129, 130, 132, 319, 316, 314, 313, 312, 305, 304, 303, 302, 301, 290, 288, 286, 288, 147, 193, 246, 245, 244, 242, 241, 238, 280, 270, 268, 267, 264, 263, 257, 256, 252, 251, 249, 237, 236, 235, 229, 227, 226, 413, 415, 412, 416, 417, 90, 91, 247, 311, 250, 92, 320, 321, 315, 276, 265, 260, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|----------|----------|---|---|
| सागर | गढ़ाकोटा | रोन | 263, 260, 259, 247, 248, 244, 239, 234, 236, 171/4, 169, 150, 147, 414, 146, 414, 146, 267, 266, 276, 265/1, 265/2, 205/4, 277, 278, 280, 283, 285, 281, 286, 326, 327, 372, 377, 380, 412, 415, 420, 421, 430, 427, 428, 424, 451, 450, 453, 470, 471, 472, 473, 474, 396, 394, 392, 391, 390, 389, 514, 512, 511/732, 503, 502, 501, 500, 478, 479, 485, 487, 486, 488, 498, 497, 496, 494, 493, 490, 452, 373, 250, 258, 257, 254, 256, 251, 230, 228, 176, 175, 177, 173, 154, 431, 440, 441, 442, 449, 113, 454, 274, 322, 371, 370, 389, 395, 387/2-1, 388, 516, 513, 552, 491, 492, 484. | 263, 260, 259, 247, 248, 244, 239, 234, 236, 171/4, 169, 150, 147, 414, 146, 267, 266, 276, 265/1, 265/2, 205/4, 277, 278, 280, 283, 285, 281, 286, 326, 327, 372, 377, 380, 412, 415, 420, 421, 430, 427, 428, 424, 451, 450, 453, 470, 471, 472, 473, 474, 396, 394, 392, 391, 390, 389, 514, 512, 511/732, 503, 502, 501, 500, 478, 479, 485, 487, 486, 488, 498, 497, 496, 494, 493, 490, 452, 373, 250, 258, 257, 254, 256, 251, 230, 228, 176, 175, 177, 173, 154, 431, 440, 441, 442, 449, 113, 454, 274, 322, 371, 370, 389, 395, 387/2-1, 388, 516, 513, 552, 491, 492, 484. |
| दमोह | पथरिया | इमरवाला | 88/1, 88/3, 89, 191/4, 191/3, 192/1, 197, 198, 207/2, 207/1, 212, 208, 209, 212, 208, 209, 206, 220, 221, 214, 218/1, 219, 198, 203, 176, 222/1, 224/1 | 88/1, 88/3, 89, 191/4, 191/3, 192/1, 197, 198, 207/2, 207/1, 212, 208, 209, 206, 220, 221, 214, 218/1, 219, 198, 203, 176, 222/1, 224/1, 88/2, 91, 201, 85, |
| दमोह | पथरिया | परसोरिया | .20, 21, 22, 25, 26, 69, 68, 71, 76, 77, 78, 81, 82, 67, 64, 62, 61, 85, 83, 84, 246, 247. | .20, 21, 22, 25, 26, 69, 68, 71, 76, 77, 78, 81, 82, 67, 64, 62, 61, 85, 83, 84, 246, 247, 27, 245, 248 |
| दमोह | पथरिया | कुमेरिया | 98, 97, 93, 91, 90, 89, 85, 84, 83/1, 81, 82, 80/1, 79/1, 304, 299, 298, 320, 56, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 322, 323, 324, 325, 416, 327, 331, 336, 414, 413, 412, 411, 56, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 319, 423, 422, 421, 418, 417, 318, .410, | 98, 97, 93, 91, 90, 89, 85, 84, 83/1, 81, 82, 80/1, 79/1, 304, 299, 298, 56, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 320, 322, 323, 324, 325, 416, 327, 331, 336, 414, 413, 412, 411, 56, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 319, 423, 422, 421, 418, 417, 88/1, 87, 102, 303, 326, 328, 335, 337, 338, 107/1, 107/2, 83/436, 293, 318, .410, |
| दमोह | पथरिया | पिपरिया | 15, 16, 18, 19, 63/2, 64, 65, 116, 117, 119, 121/3, 121/2, 123, 133, 144, 146, 147, 65, 68, 69/1, 113, 114, 107/2, 11, 13, 14 | 15, 16, 18, 19, 63/2, 64, 65, 116, 117, 119, 121/3, 121/2, 123, 133, 144, 146, 147, 65, 68, 69/1, 113, 114, 107/2, 17, 20, 62/2, 121/1, 122, 112, 11, 13, 14, 62/2, 10, |
| दमोह | पथरिया | महंदपुर | 1, 3, 4, 55, 8 | 1, 3, 4, 55, 8, 6 |
| दमोह | पथरिया | सरखडी | 481/1, 481/2, 479, 470/4, 470/3, 470/2, 470/1, 464/3, 464/4, 463, 462, 461, 455, 454, 453, 452, 483, 484/3, 484/2, 491, 493, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 451, 450, 449, 555, 556, 557, 622, 623, 634, 615, 616, 668/2, 668/1, 669/1, 669/2, 666, 663, 661, 662, 519/1, 521, 552, 548, 553/1623, 633, 702, 701, 700, 691, 671, 672, 673, 480, 467/1, 448, 447, 443, 558, 551/2, 551/1, 549/2, 631, 667, 664, 703, 704, 692, 690, 554, 669/3, 462, , 471/1, 617, 618, | 481/1, 481/2, 479, 470/4, 470/3, 470/2, 470/1, 464/3, 464/4, 463, 462, 461, 455, 454, 453, 452, 483, 484/3, 484/2, 491, 493, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 451, 450, 449, 555, 556, 557, 622, 634, 615, 616, 668/2, 668/1, 669/1, 669/2, 666, 663, 661, 662, 519/1, 521, 552, 548, 553/1623, 633, 702, 701, 700, 691, 671, 672, 673, 480, 467/1, 448, 447, 443, 558, 551/2, 551/1, 549/2, 631, 667, 664, 703, 704, 692, 690, 554, 669/3, 462, , 471/1, 617, 618, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|--------|------------------|---|--|
| दमोह | पथरिया | देवरन | .139, 140, 141, 142, 143, 271, 272, 313, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 279, 280, 284, 282, 283, 294, 295, 310, 309, 307, 144/1, 327, 326, 347, 308, 307, 308, 360 | .139, 140, 141, 142, 143, 271, 272, 313, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 348, 350, 351, 352, 361, 354, 355, 356, 357, 278, 279, 280, 284, 282, 283, 294, 295, 310, 309, 307, 144/1, 327, 326, 347, 308, 144/2, 360, |
| दमोह | पथरिया | बांसा तारखेडा | 35, 36, 37, 38, 41, 49/2, 49/1, 48, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 14, 13, 16, 17, 20, 13, 16, 17, 11, 134, 130, 131, 132, 120, 68, 67, 65, 64, 62, 61, 58, 20, 55, 54, 51, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 28, 22, 21, 71, 66, 73, 74, 54, 53, 52, 34, 135,32, | 35, 36, 37, 38, 41, 49/2, 49/1, 48, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 14, 13, 16, 17, 11, 134, 130, 131, 132, 120, 68, 67, 65, 64, 62, 61, 58, 20, 55, 54, 51, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 28, 22, 21, 71, 66, 73, 74, 54, 53, 52, 34, 135,32, |
| दमोह | दमोह | सिहोरा | 276, 277, 278, 282, 284, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 320, 319, 511, 512, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 495, 494, 493, 491, 490, 489, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 480, 479, 471, 470, 446, 496, 442 | 276, 277, 278, 282, 284, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 320, 319, 511, 512, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 495, 494, 493, 491, 490, 472, 475, 237, 446, 447, 459, 489, 486, 482, 481, 480, 479, 471, 470, 273, 274, 281, 287, 288, 285, 289, 302, 319, 305, 513, 533, 534, 545, 496, 439, 438, 444 458 464, 487, 483, 477, 478, 496, 442, 258 |
| दमोह | दमोह | पडरिया सिहोरा | 199, 203, 196, 195, 206, 194, 216, 225, 131, 135, 136, 152, 191, 182, 181, 180, 179, 104, 103, 9493, 92, 233, 227, 228, 229, 230, 89, 128, 154, 177, 106, 105, 224, 138, | 199, 203, 196, 195, 206, 194, 216, 225, 131, 135, 136, 152, 191, 182, 181, 180, 179, 104, 103, 9493, 92, 91, 225, 226, 232, 233, 227, 228, 229, 230, 200, 217, 185, 96, 134, 140183, 178, 215, 89, 128, 154, 177, 106, 105, 224, 138 |
| दमोह | दमोह | हथना | 4/1, 4/4, 6, 5, 4/3, 4/2, 2 | 4/1, 4/4, 6, 5, 4/3, 4/2, 2, |
| दमोह | दमोह | कोंरासा | 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/2-3, 114/1, 114/4, 115/1, 115/2, 116/1, 117, 118, 123, 124, 125, 133/2, 272, 271, 273, 278/1, 281/1, 283/2, 284, 286, 287, 289, 290, 291, 294, 295, 26, 27/2, 27/1, 28/2, 29, 30, 31/1, 33/347/1, 36, 37/3, 38/1, 38/2, 38/4, 39/2, 42/3, 61, 62, 64, 68, 78, 95, 103, 104, 106/1, 270, 280, 268/1, 283/1, 296/1, 77, 80, 92, 100, 105, 158, 146, 130, 270, 269, , 40, 60, 66, 70, 150, 283/1, 63, 116/2, 76, 81, 100, 105, | 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/2-3, 114/1, 114/4, 115/1, 115/2, 116/1, 117, 118, 123, 124, 125, 133/2, 272, 271, 273, 278/1, 283/2, 284, 286, 287, 289, 290, 291, 294, 295, 26, 27/2, 27/1, 28/2, 29, 30, 31/1, 33/347, 36, 37/3, 38/1, 38/2, 38/4, 39/2, 42/3, 61, 62, 64, 68, 78, 95, 103, 104, 106/1, 270, 280, 268/1, 283/1, 296/1, 77, 80, 92, 100, 105, 158, 146, 130, 270, 269, , 40, 60, 66, 70, 150, 283/1, 63, 116/2, 76, 81, 100, 105, |
| दमोह | दमोह | बरवांसा | 496 | 496 |
| दमोह | दमोह | मडिया पनगढा | 24/1, 24/2, 25/2, 25/1, 26/1-3/1, 26/2, 27, 28, 5, 6, 7/1, 8/1, 10/2, 10/1, 11/2, 11/1, 12/3, 12/1, 12/5, 13/6, 14/1-5, 14, 13/3-4, 14/2, 16, 17/1, 18, 22/2, 19, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3, 20, 4/1, 4/2, 22/1, 8/2, 14/2, | 24/1, 24/2, 25/2, 25/1, 26/1-3/1, 26/2, 27, 28, 5, 6, 7/1, 8/1, 10/2, 10/1, 11/2, 11/1, 12/3, 12/1, 12/5, 13/6, 14/1-5, 14, 13/3-4, 14/2, 16, 17/1, 18, 22/2, 19, 8/2, 20, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3, 20., 22/1, 8/2, 14/2, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली मूँगि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली मूँगि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|----------|--|---|
| दमोह | दमोह | कुंवरपुर | 337/1, 337/2, 331/2, 335, 331, 332, 333, 333, 3341-2 | 337/1, 337/2, 331/2, 335, 331, 332, 333, 3341-2, 336/1, 322/1, 321/1, |
| दमोह | दमोह | हिरदेपुर | 17, 18, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 27, 26, 61, 71, 72, 73, 75, 61, 115, 116, 118, 39 | 17, 18, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 29, 27, 26, 61, 71, 72, 73, 75, 61, 115, 116, 39, 28, 70, 74/1, 117, 118, 20, 16, 68, 34, 29, 69, 66, |
| दमोह | दमोह | दमोह खास | 111, 112, 113, 116, 117, 121, 122, 123, 126, 127, 125, 124, 128, 455, 456, 457, 458, 459, 460, | 111, 112, 113, 116, 117, 121, 122, 123, 126, 127, 125, 124, 128, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 87, 120, 69, 86, 88, 94, |

राज्य राजमार्ग अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन से एक माह के अंतर्गत या ग्राम में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इनमें से जो भी कालावधि पश्चातवर्ती हो कोई व्यक्ति लिखित में अपनी आपत्ति या सुझाव राजमार्ग प्राधिकारी (प्रबंध संचालक / संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सड़क विकास निगम) को प्रस्तुत कर सकता है या राजमार्ग प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

पृ. क्र. एफ-23-2-2015-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-23-2-2015-सा-उन्नीस, दिनांक 7 अप्रैल 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 7th April 2015

No. F - 23-02/2015 / Gen. / 19

In exercise of the powers conferred by clause (1) of section 12 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam 2004 (No. 11 of 2005) the State Government hereby propose for the roads as specified in Part-A of the schedule as per specification given below in Part-B of the schedule to be the Building line and Control line.

S C H E D U L E**I****Part-A**

| S.No. | Name of State Highway | Total Length (in Km.) | Name of Districts on the way |
|-------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Damoh-Hatta-Gaisabad, SH-47 | 62.40 | Damoh |

Part-B**Details of land in between Building Lines and Control Lines**

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m, either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m, either sides of the road) |
|----------|--------|----------------|---|--|
| | | | 4 | 5 |
| Damoh | Damoh | Damohkhas | 999, 1001, 1003 | 999, 1001, 1003, 1138 |
| Damoh | Damoh | Singpur | 313/7, 320/4, 320/3, 321/4, 323/3, 323/1, 324/2, 323/5, 323/2, 324/1, 325, 326, 328, 329/2, 329/1, 340/2, 340/1, 339, 46/2, 46/1, 21/100, 21/4, 26, 21/1, 25, 218, 24/2, 24/3, 2/2, 350/1-2, 351/3, 351/2, 351/1, 353, 356/1, 355/1-2, 356/2, 357/2, 357/1, 318/, 318/6, 342, 343, 344, 345/3, 347, 544, 543, 542/2, 543/11, 542/1, 542/2, 527, 526, 525/1, 524/2, 524/1, 510/1, 510/2, 509/1, 509/2, 509/3, 359/1, 359/2, 362/1, 362/2, 363/1, 21/8, | 2/2, 21/1, 21/1, 21/4, 24/2, 24/3, 25, 26, 27, 31, 37, 38, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47, 218, 313/7, 318/, 318/6, 320/3, 320/4, 321/1, 321/2, 321/3, 321/4, 323/1, 323/2, 323/3, 323/5, 324/1, 324/2, 324/3, 24/4, 325, 326, 328, 329/1, 329/2, 332/1, 332/12, 332/2, 332/4, 332/5, 332/6-7, 339, 340/1, 340/2, 342, 343, 344, 345/3, 346, 347, 350/12, 351/1, 351/2, 351/3, 352, 353, 354, 355/12, 356/1, 356/2, 357/1, 357/2, 359/359/1, 359/2, 360, 362/1, 362/2, 363/1, 460/1, 509/1, 509/2, 509/3, 510/1, 510/2, 511, 512, 524/1, 21/8, 332/8, 256, |
| Damoh | Damoh | Simari Rajaram | 53/3, 54, 53/1, 55, 56, 57, 63, 64/2, 255, 270/1, 270/2, 271, 273, 274, 280/2, 130/1, 130/2, 130/3, 131, 138/1, 138/2, 138/3, 252, 251, 250, 248, 249, 285, 286, 284, 288, 298, 299/2, 300, 301/2, 187/3, 301/1, 136, 280/1, | 53/1, 53/3, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64/2, 64/4, 129, 130/1, 130/2, 130/3, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 139, 187/2187/3, 208, 209, 218, 219, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 270/1, 270/2, 271, 273, 274, 280/2, 284, 285, 286, 288, 298, 299/1, 299/2, 300, 301/1, 301/2, 280/1, 64/4, |
| Damoh | Damoh | Manpura | 115, 114, 110, 109, 100, 99, 98, 95, 96, 94, 89, 88, 87, 86, 83, 80, 77, 76, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 25, 29, 41, 42, | 2, 3, 7, 11, 12, 24, 25, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 77, 78, 80, 84, 85, 90, 93, 99, 101, 102, 103, 104, 108, 111, 114, 115, 4, 8, 9, 76, 83, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 98, 109, 110, 100 |
| Damoh | Damoh | Bhodal Khedi | 100, 125, 127, 126, 129, 131/1, 184/1, 189/3, 188, 189, 191, 193, | 16/1, 16/2, 55, 69, 70/3, 83, 88, 89, 93, 97, 98, 99, 100, 125, 126, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 55, 16/2, 16/1, 70/3, 79, 83, 88, 98 | 127, 129, 131/1, 184/1, 186, 188, 190, 191, 193, 194, 79, 189/3, 189 |
| Damoh | Damoh | Palar Singi | 245, 222, 223, 227, 240, 247, 254, 259, 261, 263, 264, 265, 91, 92, 93, 94, 104, 113, 119, 120, 188, 189, 191/1, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209/1, 210, 217, 224, 226, 228, 232, 240, 243, 246, 247, 256, 258, 261, 263, 264, 266, 91, 92, 198, 222, 223, 227, 245, 247, 254, 259, 265 | 86, 88, 90, 93, 94, 104, 106, 108, 113, 119, 120, 188, 189, 191/1, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209/1, 210, 217, 224, 226, 228, 232, 240, 243, 246, 247, 256, 258, 261, 263, 264, 266, 91, 92, 198, 222, 223, 227, 245, 247, 254, 259, 265 |
| Damoh | Damoh | Laxman Dham | 305, 306, 331, 336, 340, 348, 349, 354, 367, 370, 371, 372, 377, 290, 289, 288/1, 288/2, 287, 266, 257, 251, 258, 248, 247, 226, 224/3, 224/4, 224/2, 218, 216, 214, 213 | 292, 297, 298, 308, 330/1, 332, 336, 351, 354, 355, 368, 370, 371, 372, 377, 290, 289, 288/1, 288/2, 285, 286, 267, 287, 266, 265, 259, 257, 258, 242, 251, 244, 248, 247, 226, 224/3, 224/4, 224/2, 218, 216, 214, 213, 303, 306, 331, 340, 348, 349, 367 |
| Damoh | Damoh | Ankhkheda | 380, 381, 382, 383, 384, 104, 405, 406, 407, 659, 657, 656, 655, 640, 639, 637, 636, 635, 629, 615, 613, 614, 610, 408, 409, 410, 422, 423, 426, 420, 427, 432, 433, 434, 136, 440, 441, 562/1, 562/2, 554, 555, 553, 551, 550, 479, 480, 478, 477, 473, 451, 452, 127, 471, 469, 470, | 380, 381, 382, 383, 384, 385, 104, 405, 406, 407, 408, 659, 657, 656, 655, 644, 640, 639, 637, 636, 635, 633, 629, 615, 613, 614, 610, 609, 408, 409, 410, 420, 422, 423, 426, 420, 427, 432, 433, 434, 136, 440, 441, 563, 562/1, 562/2, 562/3, 554, 555, 553, 551, 550, 479, 480, 481, 478, 477, 473, 451, 452, 127, 471, 469, 468, 470, |
| Damoh | Damoh | Mudiya | 426, 425/2, 425/1, 424, 422/1, 417, 395, 394, 393, 392, 384, 363, 362, 361, 360, 358, 357, 299, 303, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 159, 160, 161, 190, 165, 189, 188, 194, 195, 196, 200, 217, 215, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 227, 273, 274, 296, 275 | 426, 425/2, 425/1, 424, 420/2, 422/1, 419, 416, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 384, 363, 362, 361, 360, 358, 357, 298, 299, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 159, 160, 161, 190, 165, 189, 188, 194, 162, 187, 196, 195, 200, 217, 215, 198, 180, 196, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 227, 273, 274, 275, 296, 294, 417 |
| Damoh | Patera | Bamuriya | 239/1, 239/2, 238/1, 238/3, 237, 233/2, 235/2, 235/1, 236 | 239/1, 239/2, 238/1, 238/3, 237, 233/2, 235/2, 235/1, 236, 224, 235/2, 234, 231, |
| Damoh | Patera | Bangaon | 210/1, 210/2, 218, 220, 221, 223, 222, 224, 225/1, 225/3, 226, 229, 230, 231, 232, 247, 246, 245, 244, 243/1, 322, 323, 325, 331, 332, 333, 334, 337, 343, 338, 738, 753, 340, 342, 752, 746, 747, 739/2, 738, 737, 737, 712, 710, 708, 643, 642/2, 642/1, 1061, 1057, 1056, 1085, 1054, 273, 249, 250/2, 250/1, 251, 252, 253, 254/5, 254/4, 254/3, 254/2, 254/1, 255/2, 320/4, 320/3, 368, 367, 365, 350/3, 350/1, 618, 622, 621/1, 621/4, 616, 623/1, | 234, 233/1, 283/2, 209, 210/1, 210/2, 217, 216, 211, 215, 218, 220, 221, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225/1, 225/3, 225/11, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 234, 247, 243/2, 246, 245, 244, 322, 242, 243/1, 324, 323, 325, 329, 331, 334, 332, 333, 343, 753, 757, 337, 343, 338, 340, 739, 752, 342, 753, 751/1, 754/2, 751/2, 739/2, 738, 737, 713, 712, 746/2, 746/1, 746, 747, 710, 708, 644/2, 643, 644/4, 642/2, 642/1, 1061, 1057, 1056, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|---------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 623/2, 424/1, 624/2, 625, 626, 635/2, 636, 637, 638, 644, 1063/1, 1064/1, 1064/2, 1065/1, | 1055, 1054, 1085, 273, 249, 250/1, 250/2, 251, 252, 253, 258, 254/5, 254/4, 254/3, 254/2, 254/1, 257/2, 257/1, 256/1, 255/2, 320/4, 320/2, 368, 372, 367, 366, 365, 350/3, 350/1, 363/2, 424/1, 618, 621/3, 621/4, 621/1, 616, 622, 623/1, 623/2, 624/1, 624/2, 625, 626, 635/2, 628/1, 634/2, 636, 637, 638, 644, 1063/1, 1063/3, 1062/1, 1064/2, 1063/2, 1065/1, |
| Damoh | Patera | Kanjara | 632, 630, 629, 624, 628, 623, 616, 613, 605, 552, 577, 576, 555, 553, 546, 545, 543, 532, 531, 527, 518, 515, 514, 505, 513, 507, 508, 509, 512, 510, 511, 636, 637, 638, 639, 662, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 752, 753, 754, 757, 758, 760, 768, 759, 876, 878, 881, 882, 883, 987, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, | 631, 630, 632, 629, 628, 624, 623, 625, 622, 616, 617, 613, 615, 606, 605, 603, 597, 552, 577, 576, 574, 555, 554, 553, 546, 545, 543, 542, 532, 531, 528, 527, 526, 518, 515, 514, 513, 507, 508, 509, 512, 510, 511, 636, 647, 646, 642, 637, 638, 639, 640, 662, 663, 665, 666, 664, 667, 668, 669, 678/3, 670, 671, 672, 673, 674, 752, 768, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 876, 880/1, 878, 880/2, 881, 882, 883, 987, 986, 989, 990, 991, 988, 992, 993, 994, 995, , 996, 997, |
| Damoh | Patera | Luhari | 1534/3, 1534/1, 1534/2, 1543/2, 1543/1, 1547, 1337/1, 1337/2, 1335, 1334, 1332, 1272/2, 1278, 1276, 1279, 1280/2, 1280/4, 1283, 1290, 1292, 1295, 1296, 1298, 1303, 1306/2, 1305/1, 450/2, 450/3, 451/2, 451/1, 451/4, 452/2, 452/3, 460, 461, 462/1, 463, 464, 465, 469, 470, 472, 476/1 , 476/2, 475/1, 475/2, 478, 473/1, 352/6, 353, 352/5, 352/4, 349, 348/2, 348/4, 348/3, 347, 346 , 344/1, 314/3, 1532, 1531, 1341, 1249/5, 1246, 1249/1, 1249/3, 1250, 1269/1, 1269/2, 1269/3, 1270, 1044, 1046, 1043, 1041, 1040, 1039, 1026 , 1027, 1012, 1013, 970, 969/3, 526, 527, 524/1, 524/2, 525, 518/1, 518/2, 517, 516/1, 480, 481, 482/1, 355/3, 355/2, 355/1, 337, 338, 340/4, 340/1, 342, 313/2, 313/4 | 1534/3, 1535, 1534/1, 1534/2, 1538, 1543/2, 1543/3, 1543/1, 1547, 1337/1, 1337/2, 1335, 1334, 1339, 1339, 1332, 1272/2, 1272/1, 1275, 1273, 1274, 1278, 1277, 1279, 11280/2, 1280/4, 1281 , 1276, 1284, 1282/2, 1283, 1290, 1268, 1292, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1304, 1303, 1306/2, 1305/1, 450/2, 449, 447, 450/3, 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 452/2, 452/3, 452/4, 460, 461, 457, 462/1, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470, 472, 473/1, 474, 475, 476/2, 476/1, 475/2, 477/2, 477/1, 478, 352/6, 353, 352/5, 352/4, 349, 348/4, 348/3, 348/2, 348/1, 347, 348/3, 346 , 344/2, 344/1, 344/2, 344/3, 314/3, 1532, 1531, 1341, 1340, 1249/1, 1249/4, 1249/5, 1249/3, 1246, 1252, 1250, 1269/1, 1269/2, 1269/3, 1270, 1044, 1046, 1043, 1041, 1040, 1039, 1028, 1027, 1026, 1012, 1013, 1015, 971, 970, 969/3, 969/2973, 972, 969/6, 527, 526, 524/1, 524/2, 525, 518/1, 518/2, 515, 517, 516/2, 516/1 , 479, 480, 481, 482/1, 355/3, 355/2, 355/1, 337 , |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|---------------|--|---|
| | | | 4 | 5 |
| | | | | 338, 339, 340/3, 340/4, 340/1, 342, 313/1, 342, 313/2, 313/3, 313/4 |
| Damoh | Hatta | Prempura | 52/2, 52/1, 58, 56/2, 57/2, 59, 60, 62, 63, 64, 68, 72/1, 73, 220/1, 220/2, 219/2, 217, 216, 203/2, 202, 197/1, 197/2, 192/8, 192/10, 189/1, 189/3, 189/2, 188, 187, 184, 49, 47, 48, 45, 27, 24, 22, 20/1, 74, 75/1, 75/2, 76, 77/1, 77/2, 77/235, 179, 180/1, 180/2, 181, 182/2, 181/1, | 52/2, 52/1, 58, 56/1, 56/2, 57/2, 59, 60, 62, 63, 64, 68, 65, 72/1, 73, 220/2, 220/1, 219/2, 219/1, 217, 215, 214, 216, 203/2, 203/1, 202, 195/1, 197/1, 196, 197/2, 192/10, 192/8, 192/1, 192/2, 189/1, 189/3, 189/2, 188, 187, 184, 186/1, 186/2, 50, 41, 49, 47, 48, 45, 27, 24, 21/6, 21/2, 22, 20/1, 20/2, 74, 75/2, 75/1, 77/1, 76, 77/2, 77/235, 179, 180/1, 180/2, 181, 176, 177, 182/2, 182/1, |
| Damoh | Hatta | Budha Hatta | 122/2, 122/1, 120/45, 120/4, 120/5, 120/1, 61, 59/1, 58, 57/1, 58, 57/2, 46, 47, 44/18, 60, 44/14, 61, 65/7, 65/2, 65/5, 92, 65/9, 68/2, 44/14, 44/18, 44/17, 44/3, 43, 42, 34/3, 35/17, 35/16, 36/29, 36, 66/1, 90, 89, 88/1, 68/1, 36/13-36/26, 39, 1, 88/1, 88/2, 86/1-3, 87-1-2, 68/2, 35/17, 70/1, 70-70/2-70/3, 69/1 | 122/2, 122/1, 120/45, 120/4, 120/5, 120/1, 61, 59/1, 58, 57/1, 58, 57/2, 46, 47, 44/18, 60, 44/14, 61, 65/7, 65/2, 65/5, 92, 65/9, 68/2, 44/14, 44/18, 44/17, 44/3, 43, 42, 34/3, 35/17, 35/16, 36/29, 36, 66/1, 90, 89, 88/1, 68/1, 36/13-36/26, 39, 1, 88/1, 88/2, 86/1-3, 87-1-2, 68/2, 35/17, 70/1-70-70/2-70/3, 69/1 |
| Damoh | Hatta | Hatta Khas | 155, 150, 152, 148, 268/22, 268, 268/6, 145, 146, 276, 272/1, 278/1, 270, 142, 269, 162, 163, 161, 159, 156, 156/3, 155, 150, 152, 139/43, 143, 145, 144, 146, 142, 20, 21, 22, 45, 46, 64, 62, 61, 63, 162, 163, 18, 70, 68, 71, 65, 67, 139/42, 139/44, 72, 73 | 155, 150, 152, 148, 268/22, 268, 268/6, 145, 146, 276, 272/1, 278/1, 270, 142, 269, 162, 163, 161, 159, 156, 156/3, 155, 150, 152, 139/43, 143, 145, 144, 146, 142, 20, 21, 22, 45, 46, 64, 62, 61, 63, 162, 163, 18, 70, 68, 71, 65, 67, 139/42, 139/44, 72, 73, 156/4, 151, 260, 277/1, 278/2, 165, 164/1, 160, 151, 23/1, 44, 60, 165, 164/1, 139/91 |
| Damoh | Hatta | Banjari | 50, 51/2, 51/1, 44, 46, 47, 49/2, 49/3, 49/1, 41/2, 56/1, 52, 54, 55/2, 41/3, 53, 33/2, 32, 30, 31, 29, 28, 56/3, 61, 63, | 50, 51/2, 51/1, 44, 46, 47, 49/2, 49/3, 49/1, 41/2, 41/1, 39, 56/1, 52, 54, 55/2, 41/3, 53, 33/2, 32, 30, 31, 29, 28, 56/3, 59, 61, 63, |
| Damoh | Hatta | Vinti | 184, 183, 182, 181, 180, 179, 177, 206, 213, 214, 215, 218/3, 219, 218/2, 220, 218/1, 248/3-4, 248/1, 249/1, 249/2-3, 256/1-2, 257, 258, 10, 15, 9, 8/1, 8/3, 7, 6, 11, 23, 25/1, 25/2, 26, 30/1, 31/4, 31/2, 30/2, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 155/1, 165, 91, 87, 85, 83, 82, 103, 81, 80, 78, 76, | 184, 183, 185, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 213, 214, 206, 215, 212, 218/3, 218/2, 218/1, 219, 220, 248/3-4, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2-3, 250, 251, 252/1, 252/2-3, 256/1-2, 257, 258, 259/1, 10, 15, 13, 14, 9, 11, 12, 8/1, 8/3, 16/3, 22, 23, 7, 6, 25/1, 25/1, 25/2, 26, 39/3, 30/2, 30/1, 31/4, 31/2, 33, 36, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 155/1, 155/2, 164/1, 93, 91, 165, 87, 89, 101, 103, 104, 85, 83, 82, 81, 80, 78, 76, 4, 3, 2, 1, |
| Damoh | Hatta | Karaiya Joshi | 4, 3, 2, 1, 31/1, 31/4, 31/2, 26, 30/2, 25/2, 25/1, 23, 6, 7, 8/3, 8/1, 15, 10, 13, 11 | 4, 3, 2, 1, 31/1, 31/4, 31/2, 26, 30/2, 25/2, 25/1, 23, 6, 7, 8/3, 8/1, 15, 10, 13, 11, 33, 39/3, 41, 22, 16/3, 14, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|--------------|--|--|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| Damoh | Hatta | Hardua Sadak | 91, 95, 90, 89, 86, 85, 84, 114, 113, 112, 111, 116, 117, 118, 121, 120, 288, 287, 284, 283, 202, 201, 285, 198, 199, 200, 197/2, 195/1, 195/2, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220/2, 225, 226, 227/1, 228, 80/3, 80/2, 80/1, 81, 82/1, 79, 53, 51, 49, 50, 48, 47, 46, 123, 124, 129, 131, 169/1, 132, 168, 166, 148, 164, 165, 171, 189, 188/1, 188/2, 190/1, 191, 192, 190/2, | 91, 95, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 113, 114, 111, 112, 118, 117, 116, 119, 120, 121, 295, 288, 287, 293, 284, 285, 283, 202, 201, 200, 199, 198, 282/2, 281, 205, 197/2, 197/1, 195/1, 196/2, 196/1, 195/2, 212/1, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 219, 220/2, 220/1, 225, 226, 227/1, 228, 82/1, 80/3, 80/2, 80/1, 81, 79, 78, 24, 77, 54, 54, 53, 51, 50, 49, 48, 42, 47, 46, 45, 123, 32, 124, 129, 130, 133/1, 131, 132, 169/1, 168, 148, 164, 165, 171, 187, 188/1, 189, 189, 188/2, 191, 190/1, 192, 190/2, 189/1, |
| Damoh | Hatta | Dhutariya | 300, 299, 298, 327, 332, 333, 334, 335, 338/2, 338/1, 337, 237, 234, 235, 233, 232, 231, 226, 221, 222, 218, 217, 219, 216, 212, 211, 142, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 292/2, 292/1, 293, 294, 295, 266, 267/82, 239, 236, 237, 238, 140, 139, 39, 131, 130, 128, 127, 125, 123, 120, 121, 122, 118, 119, 115, 114, 113, 112, 106, 105/4, 105/3, 105/1, 105/2, 102, 266/81, | 300, 301, 306/1, 299, 326, 298, 327, 332, 333, 331, 334, 383, 335, 338/2, 338/1, 337, 342, 341, 237, 235, 234, 233, 232, 231, 223, 228, 226, 221, 222, 218, 216, 217, 218, 219, 215, 214, 212, 210, 211, 208, 209, 144, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 291, 292/2, 292/1, 289, 293, 294, 295, 269, 296, 266, 266/81, 267/82, 239, 240, 236, 237, 235, 239, 238, 140, 139, 132, 130, 131, 62, 63, 128, 127, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 118, 119, 117, 115, 92, 114, 93, 111, 110, 112, 113, 107, 105/4, 105/3, 105/1, 105/2, 102, 106, 266/81 |
| Damoh | Hatta | Ghoorkheda | 237, 236, 235, 234/1, 233, 229, 230, 231, 224, 225, 266/81, | 237, 236, 235, 234/1, 233, 227, 229, 230, 226, 230, 231, 224, 225, 223, 222, 221, 220, 200, 266/81 |
| Damoh | Hatta | Sakour | 769, 768, 767, 766, 764, 763, 762, 761, 760, 754, 758, 752, 747, 748, 746, 710, 712, 709, 704, 703, 702, 669, 700, 701, 698, 759, 408, 406, 410, 408, 422, 423, 424, 425, 431, 426, 429, 428, 427, 443, 442/3, 444, 445, 649, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 692, 663, 664, 696, 694, | 771, 772, 769, 768, 767, 766, 764, 763, 762, 761, 760, 759, 754, 758, 756, 752, 751, 747, 748, 746, 743, 744, 745, 710, 711, 712, 713, 709, 708, 707, 706, 705, 704, 703, 702, 669, 700, 701, 698, 699, 759, 408, 403, 402, 406, 407, 408, 409, 411, 410, 408, 422, 423, 424, 425, 431, 426, 429, 428, 427, 443, 442/3, 444, 445, 649, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 692, 663, 664, 696, 694, |
| Damoh | Hatta | Hinota kala | 129, 130, 128/3, 127, 123, 122, 120, 119, 116, 115, 114, 411, 412, 413, 416, 415/1, 418, 419, 602/1, 599, 598, 595, 592/1, 588, 585, 581, 578, 580, 569, 577, 574, 549, 543, 683, 684, 686, 104, 105, 106, 112, 110, 58, 57, 39, 46, 37, 38, | 129, 130, 128/3, 127, 126, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 250, 114, 251, 406, 407, 411, 412, 414, 413, 410, 416, 415/1, 418, 419, 602/1, 599, 598, 595, 501, 594, 592/1, 588, 587, 585, 578, 579, 569, 581, 580, 570, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|----------|---|--|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| | | | 604, 603, 605, 606, 616/1, 615/1, 617, 618/1, 620, 619, 621, 640, 622, 626, 625, 624, 629, 631/2, 631/1, 630, 664, 665/2, 667/2, 671, 666, 672/1, 673/2, 677, 676, 675, 674, 681, | 577, 574, 576, 572, 571, 568, 549, 548, 543, 683, 684, 686, 687, 685, 691, 544, 545, 104, 96/2, 99, 100, 105, 106, 110, 111, 112, 59, 58, 57, 54, 46, 40, 39, 37, 38, 604, 30, 603, 605, 606, 611, 612, 616/1, 615/1, 614/1, 614/2, 614/4, 614/5, 617, 618/1, 620, 24, 621, 619, 637/1, 621, 622, 625, 626, 624, 627, 628, 629, 623/3, 631/2, 631/1, 630/1, 630/2, 632/3, 640, 664, 665/1, 665/2, 666, 667/2, 671, 672/2, 672/1, 672/3, 673/2, 677, 676, 675, 674, 681, |
| Damoh | Hatta | Budhwar | 249, 248, 247, 246, 245, 243/1, 243/2, 242, 241, 227, 226, 225, 219, 218, 217, 196, 195, 194/1, 186/4, 186/6, 185/3, 185/2, 105, 106, 110, 109, 111, 112, 113/2, 113/3, 113/1, 131, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 163, 164, 180, 181, 179/2, 179/3, | 250, 249, 248, 252, 247, 246, 253, 254, 245, 243/2, 243/1, 244, 242, 241, 239, 228, 229, 227, 225, 226, 219, 218, 217, 196, 195, 194/1, 186/6, 186/4, 185/3, 185/2, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113/2, 113/3, 113/1, 97, 129/2-3, 132, 131, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 163, 164, 165, 180, 181, 179/1, 179/2, 179/3, |
| Damoh | Hatta | Garreh | 75, 76, 77, 78, 68, 65, 67, 66, 63, 62, 297, 296, 295, 293, 388, 389, 390, 395, 415, 419, 418, 81, 82, 103, 80, 104, 105, 106, 107, 159, 158, 160, 163, 164, 165, 175, 170, 279, 280, 281, 290, 291, 289, 288, 428, 426, 425, 427, 424, 423, 422, 421, | 75, 76, 77, 78, 68, 65, 67, 66, 63, 62, 60, 297, 296, 294, 295, 293, 388, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 415, 419, 418, 81, 82, 103, 80, 104, 105, 106, 107, 156, 159, 158, 160, 163, 164, 165, 178, 175, 184, 170, 201, 204, 207, 279, 280, 281, 284, 290, 291, 289, 288, 273, 430, 431, 434, 435, 439, 440, 432, 436, 428, 426, 425, 427, 424, 423, 422, 421, |
| Damoh | Hatta | Gaisabad | 473, 472, 469, 468, 402, 401, 400, 399, 395, 638/3, 638/1, 693, 695, 703, 702, 700, 701, 728, 734, 735, 736, 738, 733, 727/2, 739, 740, 741, 743, 744, 742, 765, 772.773, 298, 297, 299, 475, 480, 481, 482, 483, 484, 538, 540, 541, 542, 551, 552, 553, 637, 635, 626, 812/3, 810, 809/2, 809/1, 808, 807, 806, 805, 804, 791, 789, 790, 784, 775, 295, 776, 779, 778, 777, 294, 293, | 458, 473, 472, 471, 469, 468, 470, 466, 402, 401, 400, 398, 397, 396, 399, 395, 394, 392/1, 390, 368, 638/1, 638/3, 693, 695, 696, 703, 700, 701, 727, 726, 728, 729, 730, 732, 726, 729, 730, 732/2, 733, 734, 735, 736, 737/1, 727/2, 738, 739, 740, 744, 742, 746, 750, 751, 741, 743, 745, 763, 765, 772, 762, 773, 308, 309, 307, 306, 773, 298, 297, 299, 296, 475, 476, 479, 480, 486, 481, 482, 483, 484, 485, 483, 538, 536, 537, 539, 541, 540, 542, 543, 551, 552, 550, 553, 555, 554, 634, 633, 635, 637, 626, 629, 826, 823/1, 812/3, 823/2, 810, 809/2, 809/1, 808, 807, 806, 805, 804, 802, 803, 796, 791, 790, 789, 781, 779, 778, 776, 777, 775, 299, 294, 293, |

II**Part-A**

| S.No. | Name of State Highway | Total Length (in Km.) | Name of Districts on the way |
|-------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Sagar-Damoh, SH-14 | 68.80 | Damoh-Sagar |

Part-B**Details of land in between Building Lines and Control Lines**

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sagar | Sagar | Rusalla | 389, 413, 414, 415, 416, 404, 418, 418/3, 420, 421, 422, 425, 424, 427 | 389, 413, 414, 415, 416, 404, 418, 418/3, 420, 421, 422, 425, 424, 427, 390, 407, 406/6, 406/7, 406/8 |
| Sagar | Sagar | Baheriya | 188, 186, 187, 212, 213, 215, 216/3, 220, 228, 230, 229 | 188, 186, 187, 212, 213, 215, 216/3, 220, 228, 230, 229, 191, 189, 204, 209, 217, 221, 227, 231 |
| Sagar | Sagar | Sidguwan | 413, 414, 390/1, 390/4, 388/2, 382/1, 559, 561, 562, 565/3, 570/1, 572/1, 572/2, 578, 416, 497/2, 499, 500, 501, 502, 519/1, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 553, 557, 720, 720, 705/1, 706, 718, 721, 752, 733, 552, 567, 582 | 413, 414, 390/1, 390/4, 388/2, 382/1, 559, 561, 562, 565/3, 570/1, 572/1, 572/2, 578, 416, 497/2, 499, 500, 501, 502, 519/1, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 553, 557, 720, 705/1, 706, 718, 721, 752, 733, 388/1, 379, 378, 569, 570/2, 417/1, 417/2, 497/1, 507, 517, 518, 520, 524, 522, 527, 545, 552, 581, 679, 682, 694, 705/2, 730, 732, 380, 567, 582 |
| Sagar | Sagar | Kerwana | 990, 1478/2, 1478/1, 1479, 1481 | 990, 1478/2, 1478/1, 1479, 1047, 1050, 1049, |
| Sagar | Sagar | Bamhori Dundar | 592/2, 609, 612, 615, 654, 653, 674, 676/2, 676/1, 672, 581/1, 581/2-3-4-5-6, 672, 675 | 592/2, 609, 615, 612, 654, 653, 674, 676/2, 676/1, 672, 581/1, 581/2-3-4-5-6, 582, 673/1, 672, 675, 613 |
| Sagar | Sagar | Majhguwan | 390, 401, 402, 409, 1233, | 390, 401, 402, 409, 1233, 398 |
| Sagar | Sagar | Sanodha | 784/2, 784/6, 784/5, 784/3, 784/1, 873, 872, 871, 870, 868, 867, 852, 940/207, 880, 881/5, 879/1, 881/1, 882/2, 878/1, 882/2, 875, 876/2, 876/3, 876/4, 876/1, 877, 925, 926, 928, 940, 946, 948/1, 949, 1942, 1943, 929, 937, 938, 1945, | 784/2, 784/6, 784/5, 784/3, 784/1, 873, 872, 871, 870, 868, 867, 852, 940/207, 880, 881/5, 879/1, 881/1, 882/2, 878/1, 882/2, 875, 876/2, 876/3, 876/4, 876/1, 877, 925, 926, 928, 940, 946, 948/1, 949, 1942, 1943, 929, 937, 938, 851, 865, 941/1, 950, 1945, 927, 930/2135, 933, 924, 941/2, 942, 1941 |
| Sagar | Sagar | Dhunga sara | 827, 828, 829, 836, 837, 835, 838, 839, 840, 841, 844, 825, 819, 818, 817, 783, 782, 779, 778, , 777, 776, 774, 773, 771, 763, 845, 846, 847, 848, 849, 849, 850, 851, 852, 861, 759, 760, 761, 762, 902, 903, 868, 869, 867, 866, 865, 874, 864, 863, 834, | 827, 828, 829, 836, 837, 835, 838, 839, 840, 841, 844, 825, 819, 818, 817, 783, 782, 779, 778, , 777, 776, 774, 773, 771, 763, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 861, 759, 760, 761, 762, 902, 903, 868, 869, 867, 866, 865, 874, 864, 863, 824, 781, 780, 775, 769, 853, 770, 911, 870, 758, 901, 834, |
| Sagar | Sagar | Parsoriya | 8, 9, 11, 15, 13, 12, 16, 17, 18, 20, 25, 38, 43, 42, 65, 66, 69, 70, 78, 175, 1, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 219, 251, 252, 258, 259, 260, 72, 75, 73, 172, 171, 169/1, 169/4, 168/1, | 8, 9, 11, 15, 13, 12, 16, 17, 18, 20, 25, 38, 43, 42, 65, 66, 69, 70, 78, 175, 1, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 219, 251, 252, 258, 259, 260, 72, 75, 73, 172, 171, 169/1, 169/4, 168/1, 168/2, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m, either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m, either sides of the road) |
|----------|-----------|----------|---|--|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| | | | 168/2, 167, 166, 165, 163, 162, 161, 160, 127, 151, 155, 128, 137, 678, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 276, 280, 468, 469, 473, 471, 627, 628, 640, 637, 863, 865, 866, 897, 896, 895, 985, 907, 908, 1000, 1001, 1002/1, 1002/2, 680, 686, 720, 721, 726, 862, 857, 854, 855, 752, 753, 754, 791, 795, 796, 801, 813, 814, 819, 818, 820, 821, 827, 828, 829, 830, 831, 836, 837, 847, 846, 1035, 1036, 1033, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1044, 1062, 1063, 1065, 1065, 1090, 1091, 1092, 1093, , 1132, 647, 700, 716, 725, 186, 905, 1003, 274, 467, 601, 822, 807, | 167, 166, 165, 163, 162, 161, 160, 127, 151, 155, 128, 137, 678, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 276, 280, 487, 468, 469, 473, 471, 627, 628, 640, 637, 863, 865, 866, 897, 896, 895, 985, 907, 908, 1000, 1001, 1002/1, 1002/2, 680, 686, 720, 721, 726, 862, 857, 854, 855, 752, 753, 754, 791, 795, 796, 801, 813, 814, 819, 818, 820, 821, 827, 828, 829, 830, 831, 836, 837, 847, 846, 1035, 1036, 1033, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1044, 1062, 1063, 1065, 1090, 1091, 1092, 1093, , 1132, 7, 10, 21, 39, 40, 42, 44, 77, 180, 197, 204, 205, 250, 74, 82, 83, 85, 86, 105, 117, 114, 115, 677, 262, 264, 275, 852, 750, 756, 755, 757, 794, 797, 477, 478, 486, 955, 938, 889, 901, 999, 815, 817, 826, 832, 841, 844, 845, 1061, 1089, 647, 700, 716, 725, 26, 249, 648, 470, 930, 889, 838, 186, 905, 1003, 274, 467, 601, 822, 807, 27 |
| Sagar | Sagar | Padariya | 672, 678, 669, 670, 679, | 672, 678, 669, 670, 668, 679, |
| Sagar | Sagar | Girwar | 73, 75, 74, 68, 69, 67, 71, 72, 77, 78, | 73, 75, 74, 68, 69, 67, 71, 72, 77, 78 |
| Sagar | Sagar | Rangoli | 5, 6/2, 7, 8, 9, 12, 11, 13, 14, 18, 27, 28/2, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 42, 47, 160, , 157, 155, 156, 154, 153, 152, 148, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 74, 99, 98, 249, 362, 361, 360, 359, 358, 355, 354, 114, 115, 113, 112, 108, 107, 102, 101, 103, 305, 306, 309, 310, 311, 352, 370, 371, 372, 381, 382, 386, 387, 388/1, 388/2, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 411, 444, 443, 441, 440, 439, 438, 437, 443, 441, 440, 439, 438, 437, 478, 479, 472, 471, 470, 469, 468, 452, 453, 451, 449, 448, 447, 446, 993, 994, 6/3, 17, 19, 20, 176, 151, 150, 149, 75, 363, 364, 356, 104, 303, 369, 442, 434, 454, 349, 457, | 5, 6/2, 7, 8, 9, 12, 11, 13, 14, 18, 27, 28/2, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 42, 47, 160, 157, 155, 156, 154, 153, 152, 148, 147, 146, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 74, 99, 98, 249, 362, 361, 360, 359, 358, 355, 354, 114, 115, 113, 112, 108, 107, 102, 101, 103, 305, 306, 309, 310, 311, 352, 370, 371, 372, 381, 382, 386, 387, 388/1, 388/2, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 411, 444, 443, 441, 440, 439, 438, 437, 478, 479, 472, 471, 470, 469, 468, 452, 453, 451, 449, 448, 447, 446, 993, 994, 6/3, 17, 19, 20, 176, 151, 150, 149, 75, 363, 364, 356, 104, 303, 369, 442, 434, 454, 349, 457, |
| Sagar | Sagar | Apchand | 110, 109, 121, 124, 123, 126, 127/2, 128, 105, 106, 107, 135, 134, 133/1, 133/3, 133/2, 132, 131, 172, 129, | 110, 109, 121, 124, 123, 126, 127/2, 128, 105, 106, 107, 135, 134, 133/1, 133/3, 133/2, 132, 131, 172, 129, 122, 104, 147, |
| Sagar | Sagar | Barpani | 240/2, 240/3, 237, 483, | 240/2, 240/3, 237, 483, 235 |
| Sagar | Garhakota | Khadari | 51, 52, 91, 90, 89, 88, 84, 83, 82, 80, 79, 78, 76, 77, 73, 98, 99, 100, 104, 101, 105, 72, | 51, 52, 91, 90, 89, 88, 84, 83, 82, 80, 79, 78, 76, 77, 73, 98, 99, 100, 104, 101, 105, 87, 86, 85, 81, 75, 69, 75, 72, 103, 106, |
| Sagar | Garhakota | Parasiya | 84, 85, 87, 77, 89, 93, 94, 95, 96, | 84, 85, 87, 77, 89, 93, 94, 95, 96, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|-----------|-----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 116, 117, 123, 129, 130, 132, 319, 316, 314, 313, 312, 305, 304, 303, 302, 301, 290, 288, 286, 144, 146, 147, 193, 246, 245, 244, 242, 241, 238, 280, 270, 268, 267, 264, 263, 257, 256, 252, 251, 249, 237, 236, 235, 229, 227, 226, 413, 415, 412, 416, 417, 247, 311, 250, | 116, 117, 123, 129, 130, 132, 319, 316, 314, 313, 312, 305, 304, 303, 302, 301, 290, 288, 286, 144, 146, 147, 193, 246, 245, 244, 242, 241, 238, 280, 270, 268, 267, 264, 263, 257, 256, 252, 251, 249, 237, 236, 235, 229, 227, 226, 413, 415, 412, 416, 417, 90, 91, 247, 311, 250, 92, 320, 321, 315, 276, 265, 260, 259, 258, 255, 254, 253, 411, 414, 243, 240, 234, 225, 322, 90, 91 |
| Sagar | Garhakota | Chanaura Khurd | 82/1, 82/2, 84, 85, 86, 87, 81, 88/1, 89, 90, 91, 106, 107, 108, 115, 116, 117, 153/7, 153/2, 153/3, 152/3, 152/1, 151, 153/5, 150, 149, 148, 147, 146, 142/1, 138, 122, 121, 120, | 82/1, 82/2, 84, 85, 86, 87, 81, 88/1, 89, 90, 91, 106, 107, 108, 115, 116, 117, 153/7, 153/2, 153/3, 152/3, 152/1, 151, 153/5, 150, 149, 148, 147, 146, 138, 142/1, 122, 121, 120, 82/3, 79, 78, 93/2, 112, 114, 155, 153/4, 144, 93/2, 109, 112, 125, 126, |
| Sagar | Garhakota | Barkhera Gautam | 100/1, 112, 113, 114/1, 115, 116, 117, 121/2, 120/2, 125, 126, 127/2, 123, 124, 125, 126, 127/2, 208, 207, 206, 203, 202, 200, 199/1, 196/3, 196/1, 195, 283, 284, 285, 129, 184/1, 184/2, 193/1, 188, 191, 193/3, 193/4, 176/5, 176/4, 176/3, 176/2, 297, 298, 301, 320, 321, 322, 123 | 100/1, 112, 113, 114/1, 115, 116, 117, 121/2, 120/2, 125, 126, 127/2, 123, 124, 125, 126, 127/2, 208, 207, 206, 203, 202, 200, 199/1, 196/3, 196/1, 195, 283, 284, 285, 129, 184/1, 184/2, 193/1, 188, 191, 193/3, 193/4, 176/5, 176/4, 176/3, 176/2, 297, 298, 301, 320, 321, 322, 110/2, 114/2, 121/1, 209, 210, 197, 299, 300, 318/2, 318/1, 319, 325, 127/2, 219, 123 |
| Sagar | Garhakota | Hinauta | 11/1, 12, 13, 34, 35, 36, 37, 38/3, 38/2, 39, 40/1, 41/2, 41/1, 45, 103, 100/1, 100/2, 99/2, 97, 96, 92, 48, 49, 50, 51, 57, 58/1, 59/1, 1, 59/2, 63/1, 63/2, 63/1, 63/2, 91, 87/1, 86, 81, 79/1, 80, 79/2, 78, 73, 74/2, 71, 70, 65, 10/3, 105, 99/1, 98, 44, 52, 83, 77, 76/2, 74/1, 66, 47, 82, | 11/1, 12, 13, 34, 35, 36, 37, 38/3, 38/2, 39, 40/1, 41/2, 41/1, 45, 103, 100/1, 100/2, 99/2, 97, 96, 92, 48, 49, 50, 51, 57, 58/1, 59/1, 1, 59/2, 63/1, 63/2, 91, 87/1, 86, 81, 79/1, 80, 79/2, 78, 73, 74/2, 71, 70, 65, 10/3, 105, 99/1, 98, 44, 52, 83, 77, 76/2, 74/1, 66, 47, 82, |
| Sagar | Garhakota | Garhakota | 36, 37, 93, 94, 95, 197, 196, 195, 194, 193, 190, 189, 184, 203, 202, 201, 256, 200, 199, 266, 199/612, 268, 183, 182, 181, 177, 176, 175, 170, 382, 169, 383, 162/614, 384, 385, 386, 387, 388, 529, 524, 523, 521, 512, 375, 531, 533, 532, 535, 536, 577, 578, 579, 584, 511, 510, 509, 508, 503, 504, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 588, 587, 603, 254, 174, 269, 273, 271, 350, 349, 351, 355, 354, 356, 346, 347, 358, 378, 377, 1, 357, | 36, 37, 93, 94, 95, 197, 196, 195, 194, 193, 190, 189, 184, 203, 202, 201, 256, 200, 199, 266, 199/612, 268, 183, 182, 181, 177, 176, 175, 170, 382, 169, 383, 162/614, 384, 385, 386, 387, 388, 529, 524, 523, 521, 512, 375, 531, 533, 532, 535, 536, 577, 578, 579, 584, 511, 510, 509, 508, 503, 504, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 588, 587, 603, 98, 99, 192, 191, 178, 162, 161, 272, , 348, 352, 253, 359, 376, 527, 525, 519, 513, 374, 534, 737, 576, 496, 603, 254, 174, 269, 273, 271, 350, 349, 351, 355, 354, 356, 346, 347, 358, 378, 377, 1, 267, |
| Sagar | Garhakota | Kainkara | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 18, 20, 27, 37, | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 18, 20, 27, 37, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|-----------|-----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 55, 56/1, 57/1, 58, 59, 64, 65, 28, 32, 33, 35, 66, 69, 70, 71, 73, 72, | 55, 56/1, 57/1, 58, 59, 64, 65, 28, 32, 33, 35, 66, 69, 70, 71, 73, 7, 63/1, 67, |
| Sagar | Garhakota | Kumrai | 101, 102, 103/1, 106/3, 108, 109, 110, 112, 113, 150, 149, 148, 138, 147, 134, 114, 122/3, 133, 124, 126, 103/2, | 101, 102, 103/1, 106/3, 108, 109, 110, 112, 113, 150, 149, 148, 138, 147, 134, 114, 122/3, 133, 124, 126, 103/2/04, 105/1, 142, 141, 140, 116, 121, 122/2, |
| Sagar | Garhakota | Roan | 263, 260, 259, 247, 248, 244, 239, 234, 236, 171/4, 169, 150, 147, 414, 146, 267, 266, 276, 265/1, 265/2, 205/4, 277, 278, 280, 283, 285, 281, 286, 326, 327, 372, 377, 380, 412, 415, 420, 421, 430, 427, 428, 424, 451, 450, 453, 470, 471, 472, 473, 474, 396, 394, 392, 391, 390, 389, 514, 512, 511/732, 503, 502, 501, 500, 478, 479, 485, 487, 486, 488, 498, 497, 496, 494, 493, 490, 452, 373, 250, | 263, 260, 259, 247, 248, 244, 239, 234, 236, 171/4, 169, 150, 147, 414, 146, 267, 266, 276, 265/1, 265/2, 205/4, 277, 278, 280, 283, 285, 281, 286, 326, 327, 372, 377, 380, 412, 415, 420, 421, 430, 427, 428, 424, 451, 450, 453, 470, 471, 472, 473, 474, 396, 394, 392, 391, 390, 389, 514, 512, 511/732, 503, 502, 501, 500, 478, 479, 485, 487, 486, 488, 498, 497, 496, 494, 493, 490, 452, 373, 250, 258, 257, 254, 256, 251, 230, 228, 176, 175, 177, 173, 154, 431, 440, 441, 442, 449, 113, 454, 274, 322, 371, 370, 389, 395, 387/2-1, 388, 516, 513, 552, 491, 492, 484, |
| Damoh | Pathariya | Dumarwala | 88/1, 88/3, 89, 191/4, 191/3, 192/1, 197, 198, 207/2, 207/1, 212, 208, 209, 206, 220, 221, 214, 218/1, 219, 198, 203, 176, 222/1, 224/1 | 88/1, 88/3, 89, 191/4, 191/3, 192/1, 197, 198, 207/2, 207/1, 212, 208, 209, 206, 220, 221, 214, 218/1, 219, 198, 203, 176, 222/1, 224/1, 88/2, 91, 201, 85, |
| Damoh | Pathariya | Parsoriya | .20, 21, 22, 25, 26, 69, 68, 71, 76, 77, 78, 81, 82, 67, 64, 62, 61, 85, 83, 84, 246, 247. | .20, 21, 22, 25, 26, 69, 68, 71, 76, 77, 78, 81, 82, 67, 64, 62, 61, 85, 83, 84, 246, 247, 27, 245, 248 |
| Damoh | Pathariya | Kumeriyा | 98, 97, 93, 91, 90, 89, 85, 84, 83/1, 81, 82, 80/1, 79/1, 304, 299, 298, 320, 56, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 322, 323, 324, 325, 416, 327, 331, 336, 414, 413, 412, 411, 56, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 319, 423, 422, 421, 418, 417, 318, .410, | 98, 97, 93, 91, 90, 89, 85, 84, 83/1, 81, 82, 80/1, 79/1, 304, 299, 298, 56, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 320, 322, 323, 324, 325, 416, 327, 331, 336, 414, 413, 412, 411, 56, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 319, 423, 422, 421, 418, 417, 88/1, 87, 102, 303, 326, 328, 335, 337, 338, 107/1, 107/2, 83/436, 293, 318, .410, |
| Damoh | Pathariya | Pipariya | 15, 16, 18, 19, 63/2, 64, 65, 116, 117, 119, 121/3, 121/2, 123, 133, 144, 146, 147, 65, 68, 69/1, 113, 114, 107/2, 11, 13, 14 | 15, 16, 18, 19, 63/2, 64, 65, 116, 117, 119, 21/3, 121/2, 123, 133, 144, 146, 147, 65, 68, 69/1, 113, 114, 107/2, 17, 20, 62/2, 121/1, 122, 112, 11, 13, 14, 62/2, 10, |
| Damoh | Pathariya | Mahandpur | 1, 3, 4, 55, 8 | 1, 3, 4, 55, 8, 6 |
| Damoh | Pathariya | Sarkhadi | 481/1, 481/2, 479, 470/4, 470/3, 470/2, 470/1, 464/3, 464/4, 463, 462, 461, 455, 454, 453, 452, 483, 484/3, 484/2, 491, 493, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 451, 450, 449, 555, 556, 557, 622, 634, 615, 616, 668/2, 668/1, 669/1, 669/2, 666, | 481/1, 481/2, 479, 470/4, 470/3, 470/2, 470/1, 464/3, 464/4, 463, 462, 461, 455, 454, 453, 452, 483, 484/3, 484/2, 491, 493, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 451, 450, 449, 555, 556, 557, 622, 634, 615, 616, 668/2, 668/1, 669/1, 669/2, 666, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|-----------|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 663, 661, 662, 519/1, 521, 552, 548, 553/1623., 633, 702, 701, 700, 691, 671, 672, 673, 554, 669/3 , 4662 | 663, 661, 662, 519/1, 521, 552, 548, 553/1623, 633, 702, 701, 700, 691, 671, 672, 673, 480, 467/1, 448, 447, 443, 558, 551/2, 551/1, 549/2, 631, 667, 664, 703, 704, 692, 690, 554, 669/3, 462, 471/1, 617, 618, |
| Damoh | Pathariya | Devran | .139, 140, 141, 142, 143, 271, 272, 313, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 348, 350, 351, 352, 361, 354, 355, 356, 357, 278, 279, 280, 284, 282, 283, 294, 295, 310, 309, 307, 308, 360 | .139, 140, 141, 142, 143, 271, 272, 313, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 348, 350, 351, 352, 361, 354, 355, 356, 357, 278, 279, 280, 284, 282, 283, 294, 295, 310, 309, 307, 144/1, 327, 326, 347, 308, 144/2, 360, |
| Damoh | Pathariya | Bansa Tarkheda | 35, 36, 37, 38, 41, 49/2, 49/1, 48, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 14, 20, 13, 16, 17, 11, 134, 130, 131, 132, 120, 68, 67, 65, 64, 62, 61, 58, 20, 55, 54, 51, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 28, 22, 21, 71, 66, 73, 74, 54, 53, 52, 34, 135, 32 | 35, 36, 37, 38, 41, 49/2, 49/1, 48, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 14, 13, 16, 17, 11, 134, 130, 131, 132, 120, 68, 67, 65, 64, 62, 61, 58, 20, 55, 54, 51, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 28, 22, 21, 71, 66, 73, 74, 54, 53, 52, 34, 135, 32 |
| Damoh | Damoh | Sihora | 276, 277, 278, 282, 284, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 320, 319, 511, 512, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 495, 494, 493, 491, 490, 272, 275, 447, 459, 489, 486, 482, 481, 480, 479, 471, 470, 446, 496, 442 | 276, 277, 278, 282, 284, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 320, 319, 511, 512, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 495, 494, 493, 491, 490, 272, 275, 237, 446, 447, 459, 489, 486, 482, 481, 480, 479, 471, 470, 273, 274, 281, 287, 288, 285, 289, 302, 319, 305, 513, 533, 534, 545, 496, 439, 438, 444, 458, 464, 487, 483, 477, 478, 496, 442, 258 |
| Damoh | Damoh | Padariya Sihora | 199, 203, 196, 195, 206, 194, 216, 225, 131, 135, 136, 152, 191, 182, 181, 180, 179, 104, 103, 9493, 92, 91, 226, 232, 233, 227, 228, 229, 230, 89, 128, 154, 177, 106, 105, 224, 138, | 199, 203, 196, 195, 206, 194, 216, 225, 131, 135, 136, 152, 191, 182, 181, 180, 179, 104, 103, 94, 93, 92, 91, 225, 226, 232, 233, 227, 228, 229, 230, 200, 217, 185, 96, 134, 140, 183, 178, 215, 89, 128, 154, 177, 106, 105, 224, 138 |
| Damoh | Damoh | Hathna | 4/1, 4/4, 6, 5, 4/3, 4/2, 2 | 4/1, 4/4, 6, 5, 4/3, 4/2, 2 |
| Damoh | Damoh | Kounrasa | 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/2-3, 114/1, 114/4, 115/1, 115/2, 116/1, 117, 118, 123, 124, 125, 133/2, 272, 271, 273, 278/1, 281/1, 283/2, 284, 286, 287, 289, 290, 291, 294, 295, 26, 27/2, 27/1, 28/2, 29, 30, 31/1, 33/347/1, 36, 37/3, 38/1, 38/2, 38/4, 39/2, 42/3, 61, 62, 64, 68, 78, 95, 103, 104, 106/1, 270, 280, 268/1, 283/1, 296/1, 77, 80, 92, 100, 105, 158, 146, 130, 270, 269, 40, 60, 66, 70, 150, 283/1, 63, 116/2, 76, 81, 100, 105, | 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/2-3, 114/1, 114/4, 115/1, 115/2, 116/1, 117, 118, 123, 124, 125, 133/2, 272, 271, 273, 278/1, 283/2, 284, 286, 287, 289, 290, 291, 294, 295, 26, 27/2, 27/1, 28/2, 29, 30, 31/1, 33/347, 36, 37/3, 38/1, 38/2, 38/4, 39/2, 42/3, 61, 62, 64, 68, 78, 95, 103, 104, 106/1, 270, 280, 268/1, 283/1, 296/1, 77, 80, 92, 100, 105, 158, 146, 130, 270, 269, 40, 60, 66, 70, 150, 283/1, 63, 116/2, 76, 81, 100, 105, |
| Damoh | Damoh | Barwansa | 496 | 496 |
| Damoh | Damoh | Madiya Pangarha | 24/1, 24/2, 25/2, 25/1, 26/1-3/1, 26/2, 27, 28, 5, 6, 7/1, 8/1, 10/2, 10/1, 11/2, 11/1, 12/3, 12/1, 12/5, 13/6, 14/1-5, 13/3-4, 14/2, 16, 17/1, 18, 22/2, 19, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3, 20, | 24/1, 24/2, 25/2, 25/1, 26/1-3/1, 26/2, 27, 28, 5, 6, 7/1, 8/1, 10/2, 10/1, 11/2, 11/1, 12/3, 12/1, 12/5, 13/6, 14/1-5, 14, 13/3-4, 14/2, 16, 17/1, 18, 22/2, 19, 8/2, 20, 3/2, 4/1, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 4/1, 4/2, 22/1, 8/2, 14/2, | 4/2, 4/3, 20, 22/1, 8/2, 14/2, |
| Damoh | Damoh | Kunwarpur | 337/1, 337/2, 331/2, 335, 331, 332, 333, 3341-2 | 337/1, 337/2, 331/2, 335, 331, 332, 333, 3341-2, 336/1, 322/1, 321/1, |
| Damoh | Damoh | Hirdepur | 17, 18, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 27, 26, 61, 71, 72, 73, 75, 61, 115, 116, 118, 39 | 17, 18, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 29, 27, 26, 61, 71, 72, 73, 75, 61, 115, 116, 39, 28, 70, 74/1, 117, 118, 20, 16, 68, 34, 29, 69, 66, |
| Damoh | Damoh | Damoh Khas | 111, 112, 113, 116, 117, 121, 122, 123, 126, 127, 125, 124, 128, 455, 456, 457, 458, 459, 460, | 111, 112, 113, 116, 117, 121, 122, 123, 126, 127, 125, 124, 128, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 87, 120, 69, 86, 88, 94, |

1

Under Section 12(2) of Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, any or all persons affected by such notification who may wish to make any objection or suggestion with respect to the issue of such notification, may submit their objections or suggestions in writing to the Highway Authority (Managing Director/Divisional Manager M.P. Road Development Corporation Ltd.) or appear before such authority within one month of the publication of the notification in the official Gazette or within 15 days from the date of the publication of the notification in the village, whichever period expires later.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

क्रमांक संख्या २३-०२/२०१५/सामग्री/१९ मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 12 (1) के निबंधनों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निम्न अनुसूची के खण्ड-अ में वर्णित राज्य राजमार्ग के लिए खण्ड-ब में अंकित भूमि विवरण के अनुरूप भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखा की अधिसूचना जारी किया जाना प्रस्तावित है :-

I)

“खण्ड-अ”

| अ. क्र. | अधिसूचित मार्ग का नाम | सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में) | राज्यमार्ग में आने वाले जिले |
|---------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1 | दमोह-बटियागढ़-बक्सवाहा- हीरापुर मार्ग राज्यमार्ग-३७ | 71.30 | दमोह-छतरपुर-सागर |

खण्ड-“ब”

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| दमोह | दमोह | दमोह खास | 984, 985, 988, 989, 991, 997, 998, 999, 1001. | 984, 985, 988, 989, 991, 997, 998, 999, 1001. |
| दमोह | दमोह | सिंगपुर | 187/5, 187/6, 187/10, 187/8, 187/7, 188/9, 294/5, 294/1, 171/5, 292, 265, 296/2. | 187/5, 187/6, 187/10, 187/8, 187/7, 188/9, 294/5, 294/1, 171/5, 290, 188/1, 187/9, 292, 265, 296/2. |
| दमोह | दमोह | महुआखेड़ा | 5/3, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116/2, 117, 119, 120, 121, 122, 137, 139, 141, 145, 146, 183, 184, 186, 194, 195, 196, 197/2, 199, 202, 203, 204, 219, 220, 221, 222/2, 223, 242, 243/1, 243/2, 246/1, 246/2, 247, 248/1, 248/2, 253, 255, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 281, 282, 181, 293, 198 | 4, 5/1, 5/3, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12/2, 13/1, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 92, 113, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116/2, 117, 119, 120, 121, 122, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 146, 147, 183, 184, 186, 194, 195, 196, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 218, 219, 220, 221, 222/2, 223, 224/1, 242, 243/1, 243/2, 245, 249/2, 246/1, 246/2, 247, 248/1, 248/2, 252, 253, 255, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 279, 280, 281, 282, 293, 181, 293, 198, 5/2, 217, 251, 291 |
| दमोह | दमोह | हिन्नाई | 62, 98/2, 104, 106/5, 164/2, 186, 184/1, 183/1, 197/1, 190/5, 252, 254, 263, 264, 267, 268, 208, 200 190/2, 97/1, 97/2, 97/3, 278, 99, 100, 101, 103, 106/3, 253, 265, 266, 106/3, 162, 164/1, 165, 166/1, 166/2-3, 183/4, 181, 180, 102, 161, 167, 187, 202, 201, 199, 196, 190/2-3 | 98/1, 106/1, 163, 187, 267, 268, 269, 271, 191, 250, 251, 254, 263, 267, 268, 208, 200 190/2, 97/1, 97/2, 97/3, 278, 99, 100, 101, 103, 106/3, 253, 265, 266, 106/3, 162, 164/1, 165, 166/1, 166/2-3, 183/4, 181, 180, 197, 198, 94, 93, 90/2, 104, 106/4, 106/5, 106/3, 190/5, 252, 264, 267, 160/2, 161, 164/2, 167, 186, 183/1, 182, 179/2, 102, 161, 167, 187, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|--------|----------------|--|--|
| दमोह | दमोह | जमरी | 6, 7, 8, 9, 10, 18/2, 19, 24, 25, 28, 29, 30, 41, 42, 71, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 95, 93, 109/1, 109/2, 109/3, 18/1, 18/4, 94/4, 94/5, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 136, 137, 139 140, 189, 192, 194, 263, 267, 268. | 202, 201, 199, 196, 190/2-3, 210 6, 8, 9, 10, 18/1, 18/4, 19, 27, 24, 25, 29, 42, 30, 41, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 92, 95, 94/4, 94/5, 109/1, 109/2, 109/3, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 136, 137, 138, 139, 28, 189, 194, 192, 195, 196, 261, 263, 267, 268, 70, 88, 148, 142, 141 |
| दमोह | दमोह | मारा सूखी | 132, 133, 135, 137, 136, 141, 156, 157, 174, 175/1, 175/2, 175/3, 182, 184, 185, 191/4, 191/7, 201, 203, 208, 209, 210, 140 | 132, 133, 135, 136, 157, 158, 174, 175/1, 175/2, 175/3, 175/2, 176/1, 175/2, 177/2, 177/1, 182, 184, 185, 191/7, 191/4, 201, 203, 208, 209, 210, 211, 140, 131, 130, 134 191, 180 |
| दमोह | दमोह | सूखी पिपरिया | 168/4, 171, 172, 173, 174, 214, 216, 217, 272, 274, 270/2, 270/3, 269, 280, 273, 294, 295, 267, 268, 102/3, 101/2, 101/1, 100, 298, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312. | 168/4, 171, 172, 173, 174, 213, 214, 216, 271, 272, 270/2, 270/3, 269, 280, 273, 279, 293 294, 267, 268, 102/1, 102/3, 101/2, 101/1, 100, 298, 308, 309, 310, 311, 168/5, 170, 175/1, 175/2, 218, 271, 274, 284, 285, 283, 295, 298, 306, 307, 312, 313, 314, 168/1, 217, 270/1, 104, 102/2, 97, 99 |
| दमोह | दमोह | परासई | 51, 52, 76, 77, 79/1, 79/2, 79/3, 80, 81, 82/2, 82/3, 82/4, 82/7, 83, 87, 88, 88/5, 89/2, 96, 97/1, 95, 97/1, 95, 97/2, 97/4, 98, 99, 99, 100, 101/1, 101/2, 85, 86 | 51, 52, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 79/3, 80, 81, 82/2, 82/3, 82/4, 82/7, 83, 87, 88, 88/5, 89/2, 96, 97/1, 95, 97/2, 97/4, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 85, 86, 69, 70/1, 54/4 |
| दमोह | पथरिया | ककरा | 1/4, 3, 4, 17/1, 18, 20, 21/1/2, 21/3, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 22, 26, 39, 40, 41, 42, 34, 38, 33 | 1/3, 1/4, 3, 4, 17/1, 18, 20, 21/1/2, 21/3, 22, 45, 46, 47, 48, 49, 58, 59/2, 50, 22, 57, 56, 31, 35, 36 |
| दमोह | दमोह | महली नरसिंहगढ़ | 37, 38, 39, 40, 41, 57, 58, 60, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 155/1, 155/2, 156, 92/1, 92/2, 93, 94, 95, 117, 118/1, 118/2, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 154, 91, 90, 96, 97, 89, 87, 35, 36/1, 36/2, 20, 158, 302, 326/1, 326/2, 326/3, 236/4, 326/5, 327/1, 327/2, 328/1, 328/2, 329, 330/1, 330/2, 332, 331, 333/1, 333/2, 334, 335/1, 335/2, 338/1, 338/2, 338/3, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 342/1, 342/2, 342/3, 343/1, 343/2, 343/3, 344, 345/1, 345/2, 346/1, 346/2, 347/1, 347/2, 348, 349, 365, 364, 363, 366, 367, 368, 369, 383, 382, 59, 117, 118, 132, 155, 96, 89, 92, 36, 195, 160, 326, 325, 327, 330, 335, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 346, 347, 370 | 37, 38, 39, 40, 41, 57, 58, 59, 60, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 155/1, 155/2, 156, 92/1, 92/2, 93, 94, 95, 117, 118/1, 118/2, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 154, 91, 90, 96, 97, 89, 87, 35, 36/1, 36/2, 20, 158, 302, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 327/1, 327/2, 328/1, 328/2, 329, 330/1, 330/2, 332, 331, 333/1, 333/2, 334, 335/1, 335/2, 338/1, 338/2, 338/3, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 342/1, 342/2, 342/3, 343/1, 343/2, 343/3, 344, 345/1, 345/2, 346/1, 346/2, 347/1, 347/2, 348, 349, 365, 364, 363, 366, 367, 368, 369, 382, 383, 196, 195, 199/1, 199/2, 194, 179, 178, 177, 171, 170, 169, 167, 159, 160, 161, 336, 337/1, 337/2, 337/3, 362, 361, 360, 371, 372, 374, 370, 375/1, 375/2, 381/1, 381/2, 381/3, 381/4, 59, 117, 118, 132, 155, 96, 89, 92, 36, 195, |

| जिला | तहसील | ग्राम | मवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|--------|------------------|--|--|
| | | | | 160, 326, 325, 327, 330, 335, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 346, 347, 370, 116, 120, 129, 127, 149, 150, 153, 105, 34, 208, 206, 194, 193, 180, 173, 341, 350, 358, 375 |
| दमोह | पथरिया | पिपरिया चम्पत | 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220/1, 220/2, 221, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 145, 143, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244/1, 244/2, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 121, 122, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 93/1, 93/2, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 260, 261, 259, 157, 155, 144, 141, 140, 111, 90, 92, 93, 150, 220, 231, 244, 259, 261 | 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 220/2, 221, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 145, 144/1, 144/2, 143, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244/1, 244/2, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140/1, 140/2, 121, 122, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 93/1, 93/2, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 259, 260, 261, 157, 155, 144, 141, 140, 111, 90, 92, 93, 150, 220, 231, 244, 259, 261, 87, 225, 248, 249, 258 |
| दमोह | पथरिया | नरसिंहगढ़ | 179, 180, 181, 182, 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 217/1, 217/2, 218, 219, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 246/1, 246/2, 246/3, 247, 248/1, 248/2, 248/3, 251/1, 251/2, 250/1, 250/2, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285/1, 285/2, 285/3, 288/1, 288/2, 288/3, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 177, 387, 386/1, 386/2, 386/3, 385, 378, 377, 376, 363/1, 363/2, 362, 361/1, 361/2, 361/3, 354/1, 354/2, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 337, 336, 335, 334, 252, 289/1, 289/2, 154/1, 154/2, 148, 147, 139, 138, 136, 135, 134, 132, 119, 118, 78, 77, 76, 75, 73, | 179, 180, 181, 182, 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 217/1, 217/2, 218, 219, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 246/1, 246/2, 246/3, 247, 248/1, 248/2, 248/3, 251/1, 251/2, 250/1, 250/2, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285/1, 285/2, 285/3, 288/1, 288/2, 288/3, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 177, 387, 386/1, 386/2, 386/3, 385, 378, 377, 376, 363/1, 363/2, 362, 361/1, 361/2, 361/3, 360, 354/1, 354/2, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 337, 336, 335, 334, 286, 287, 252, 289/1, 289/2, 286, 287, 364, 347/1, 347/2, 347/3, 338, 154/1, 154/2, 148, 147, 139, 138, 136, 135, 134, 132, 119, 118, 78, 77, 76, 75, 73, 72, 120, 116, 80, 79, 71, 74, 81, 129, |

| जिला | तहसील | ग्राम | मवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|----------|---------|---|---|
| | | | 72, 116, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 165/1, 165/2, 167, 166, 391, 392/1, 392/2, 392/3, 392/4, 170, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 172/7, 172/8, 172/9, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 174/1, 174/2, 178, 177, 154, 80, 216, 217, 245, 218, 220, 219, 248, 288, 285, 316, 332, 160, 165, 166, 171, 174, 178, 176, 387, 389, 363, 364, 354, 333, 133, 112, 360, 354, 333 | 115, 114, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 165/1, 165/2, 167, 166, 391, 392/1, 392/2, 392/3, 392/4, 170, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 172/7, 172/8, 172/9, 172/10, 172/11, 172/12, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 174/1, 174/2, 178, 157, 158, 175, 176, 154, 80, 216, 217, 245, 218, 220, 219, 248, 288, 285, 316, 332, 160, 165, 171, 174, 178, 176, 387, 389, 363, 364, 354, 333, 133, 112, 82, 70, 249, 252, 164, 175, 347 |
| दमोह | बटियागढ़ | चैनपुरा | 83, 82, 81, 80, 78, 77, 76, 75, 66, 126, 127, 125, 123, 121, 120, 119, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 55, 38, 35, 34, 33, 20, 19/1, 19/2, 19/3, 15, 12, 11/1, 10, 6, 122, 124, 11, 18 | 83, 84, 82, 81, 80, 78, 77, 76, 75, 66, 126, 127, 125, 123, 121, 120, 119, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 55, 38, 35, 34, 33, 31, 20, 19/1, 19/2, 19/3, 17, 15, 12, 11/1, 10, 6, 122, 124, 11, 18, 74, 73, 3, 69/1, 14, 51, 58 |
| दमोह | बटियागढ़ | सिरसिया | 24, 25, 37/6, 43, 46, 49, 48, 55, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61, 62, 52, 44, 75 | 24, 25, 26, 37/6, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61, 62, 52, 44, 75, |
| दमोह | बटियागढ़ | मोठा | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90/1, 91/1, 100, 104/1, 104/2, 66/2, 49, 90/2 | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90/1, 91/1, 91/2, 100, 104/1, 104/2, 66/2, 49, 90/2, 63, 92, 102/2 |
| दमोह | बटियागढ़ | भटेरा | 9, 10, 11, 14/1, 14/2, 25, 26, 126, 127, 118/1, 118/2, 118/3, 119, 108, 106/1, 106/2, 107, 246, 243/1, 242, 240, 239/1, 239/2, 219/3, 219/2, 219/1, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 209/1, 208/2, 207/3, 206/4, 205/5, 204/6, 203/7, 202/8, 201/9, 200/10, 199/11, 198/12, 197/13, 196/14, 195/15, 194/16, 193/17, 192/18, 191/19, 190/20, 189/21, 188/22, 187/23, 186/24, 185/25, 184/26, 183/27, 182/28, 181/29, 180/30, 179/31, 178/32, 177/33, 176/34, 175/35, 174/36, 173/37, 172/38, 171/39, 170/40, 169/41, 168/42, 167/43, 166/44, 165/45, 164/46, 163/47, 162/48, 161/49, 160/50, 159/51, 158/52, 157/53, 156/54, 155/55, 154/56, 153/57, 152/58, 151/59, 150/60, 149/61, 148/62, 147/63, 146/64, 145/65, 144/66, 143/67, 142/68, 141/69, 140/70, 139/71, 138/72, 137/73, 136/74, 135/75, 134/76, 133/77, 132/78, 131/79, 130/80, 129/81, 128/82, 127/83, 126/84, 125/85, 124/86, 123/87, 122/88, 121/89, 120/90, 119/91, 118/92, 117/93, 116/94, 115/95, 114/96, 113/97, 112/98, 111/99, 110/100, 109/101, 108/102, 107/103, 106/104, 105/105, 104/106, 103/107, 102/108, 101/109, 100/110, 99/111, 98/112, 97/113, 96/114, 95/115, 94/116, 93/117, 92/118, 91/119, 90/120, 89/121, 88/122, 87/123, 86/124, 85/125, 84/126, 83/127, 82/128, 81/129, 80/130, 79/131, 78/132, 77/133, 76/134, 75/135, 74/136, 73/137, 72/138, 71/139, 70/140, 69/141, 68/142, 67/143, 66/144, 65/145, 64/146, 63/147, 62/148, 61/149, 60/150, 59/151, 58/152, 57/153, 56/154, 55/155, 54/156, 53/157, 52/158, 51/159, 50/160, 49/161, 48/162, 47/163, 46/164, 45/165, 44/166, 43/167, 42/168, 41/169, 40/170, 39/171, 38/172, 37/173, 36/174, 35/175, 34/176, 33/177, 32/178, 31/179, 30/180, 29/181, 28/182, 27/183, 26/184, 25/185, 24/186, 23/187, 22/188, 21/189, 20/190, 19/191, 18/192, 17/193, 16/194, 15/195, 14/196, 13/197, 12/198, 11/199, 10/200, 9/201, 8/202, 7/203, 6/204, 5/205, 4/206, 3/207, 2/208, 1/209, 0/210, 19/211, 18/212, 17/213, 16/214, 15/215, 14/216, 13/217, 12/218, 11/219, 10/220, 9/221, 8/222, 7/223, 6/224, 5/225, 4/226, 3/227, 2/228, 1/229, 0/230, 19/231, 18/232, 17/233, 16/234, 15/235, 14/236, 13/237, 12/238, 11/239, 10/240, 9/241, 8/242, 7/243, 6/244, 5/245, 4/246, 3/247, 2/248, 1/249, 0/250, 19/251, 18/252, 17/253, 16/254, 15/255, 14/256, 13/257, 12/258, 11/259, 10/260, 9/261, 8/262, 7/263, 6/264, 5/265, 4/266, 3/267, 2/268, 1/269, 0/270, 19/271, 18/272, 17/273, 16/274, 15/275, 14/276, 13/277, 12/278, 11/279, 10/280, 9/281, 8/282, 7/283, 6/284, 5/285, 4/286, 3/287, 2/288, 1/289, 0/290, 19/291, 18/292, 17/293, 16/294, 15/295, 14/296, 13/297, 12/298, 11/299, 10/300, 9/301, 8/302, 7/303, 6/304, 5/305, 4/306, 3/307, 2/308, 1/309, 0/310, 19/311, 18/312, 17/313, 16/314, 15/315, 14/316, 13/317, 12/318, 11/319, 10/320, 9/321, 8/322, 7/323, 6/324, 5/325, 4/326, 3/327, 2/328, 1/329, 0/330, 19/331, 18/332, 17/333, 16/334, 15/335, 14/336, 13/337, 12/338, 11/339, 10/340, 9/341, 8/342, 7/343, 6/344, 5/345, 4/346, 3/347, 2/348, 1/349, 0/350, 19/351, 18/352, 17/353, 16/354, 15/355, 14/356, 13/357, 12/358, 11/359, 10/360, 9/361, 8/362, 7/363, 6/364, 5/365, 4/366, 3/367, 2/368, 1/369, 0/370, 19/371, 18/372, 17/373, 16/374, 15/375, 14/376, 13/377, 12/378, 11/379, 10/380, 9/381, 8/382, 7/383, 6/384, 5/385, 4/386, 3/387, 2/388, 1/389, 0/390, 19/391, 18/392, 17/393, 16/394, 15/395, 14/396, 13/397, 12/398, 11/399, 10/400, 9/401, 8/402, 7/403, 6/404, 5/405, 4/406, 3/407, 2/408, 1/409, 0/410, 19/411, 18/412, 17/413, 16/414, 15/415, 14/416, 13/417, 12/418, 11/419, 10/420, 9/421, 8/422, 7/423, 6/424, 5/425, 4/426, 3/427, 2/428, 1/429, 0/430, 19/431, 18/432, 17/433, 16/434, 15/435, 14/436, 13/437, 12/438, 11/439, 10/440, 9/441, 8/442, 7/443, 6/444, 5/445, 4/446, 3/447, 2/448, 1/449, 0/450, 19/451, 18/452, 17/453, 16/454, 15/455, 14/456, 13/457, 12/458, 11/459, 10/460, 9/461, 8/462, 7/463, 6/464, 5/465, 4/466, 3/467, 2/468, 1/469, 0/470, 19/471, 18/472, 17/473, 16/474, 15/475, 14/476, 13/477, 12/478, 11/479, 10/480, 9/481, 8/482, 7/483, 6/484, 5/485, 4/486, 3/487, 2/488, 1/489, 0/490, 19/491, 18/492, 17/493, 16/494, 15/495, 14/496, 13/497, 12/498, 11/499, 10/500, 9/501, 8/502, 7/503, 6/504, 5/505, 4/506, 3/507, 2/508, 1/509, 0/510, 19/511, 18/512, 17/513, 16/514, 15/515, 14/516, 13/517, 12/518, 11/519, 10/520, 9/521, 8/522, 7/523, 6/524, 5/525, 4/526, 3/527, 2/528, 1/529, 0/530, 19/531, 18/532, 17/533, 16/534, 15/535, 14/536, 13/537, 12/538, 11/539, 10/540, 9/541, 8/542, 7/543, 6/544, 5/545, 4/546, 3/547, 2/548, 1/549, 0/550, 19/551, 18/552, 17/553, 16/554, 15/555, 14/556, 13/557, 12/558, 11/559, 10/560, 9/561, 8/562, 7/563, 6/564, 5/565, 4/566, 3/567, 2/568, 1/569, 0/570, 19/571, 18/572, 17/573, 16/574, 15/575, 14/576, 13/577, 12/578, 11/579, 10/580, 9/581, 8/582, 7/583, 6/584, 5/585, 4/586, 3/587, 2/588, 1/589, 0/590, 19/591, 18/592, 17/593, 16/594, 15/595, 14/596, 13/597, 12/598, 11/599, 10/600, 9/601, 8/602, 7/603, 6/604, 5/605, 4/606, 3/607, 2/608, 1/609, 0/610, 19/611, 18/612, 17/613, 16/614, 15/615, 14/616, 13/617, 12/618, 11/619, 10/620, 9/621, 8/622, 7/623, 6/624, 5/625, 4/626, 3/627, 2/628, 1/629, 0/630, 19/631, 18/632, 17/633, 16/634, 15/635, 14/636, 13/637, 12/638, 11/639, 10/640, 9/641, 8/642, 7/643, 6/644, 5/645, 4/646, 3/647, 2/648, 1/649, 0/650, 19/651, 18/652, 17/653, 16/654, 15/655, 14/656, 13/657, 12/658, 11/659, 10/660, 9/661, 8/662, 7/663, 6/664, 5/665, 4/666, 3/667, 2/668, 1/669, 0/670, 19/671, 18/672, 17/673, 16/674, 15/675, 14/676, 13/677, 12/678, 11/679, 10/680, 9/681, 8/682, 7/683, 6/684, 5/685, 4/686, 3/687, 2/688, 1/689, 0/690, 19/691, 18/692, 17/693, 16/694, 15/695, 14/696, 13/697, 12/698, 11/699, 10/700, 9/701, 8/702, 7/703, 6/704, 5/705, 4/706, 3/707, 2/708, 1/709, 0/710, 19/711, 18/712, 17/713, 16/714, 15/715, 14/716, 13/717, 12/718, 11/719, 10/720, 9/721, 8/722, 7/723, 6/724, 5/725, 4/726, 3/727, 2/728, 1/729, 0/730, 19/731, 18/732, 17/733, 16/734, 15/735, 14/736, 13/737, 12/738, 11/739, 10/740, 9/741, 8/742, 7/743, 6/744, 5/745, 4/746, 3/747, 2/748, 1/749, 0/750, 19/751, 18/752, 17/753, 16/754, 15/755, 14/756, 13/757, 12/758, 11/759, 10/760, 9/761, 8/762, 7/763, 6/764, 5/765, 4/766, 3/767, 2/768, 1/769, 0/770, 19/771, 18/772, 17/773, 16/774, 15/775, 14/776, 13/777, 12/778, 11/779, 10/780, 9/781, 8/782, 7/783, 6/784, 5/785, 4/786, 3/787, 2/788, 1/789, 0/790, 19/791, 18/792, 17/793, 16/794, 15/795, 14/796, 13/797, 12/798, 11/799, 10/800, 9/801, 8/802, 7/803, 6/804, 5/805, 4/806, 3/807, 2/808, 1/809, 0/810, 19/811, 18/812, 17/813, 16/814, 15/815, 14/816, 13/817, 12/818, 11/819, 10/820, 9/821, 8/822, 7/823, 6/824, 5/825, 4/826, 3/827, 2/828, 1/829, 0/830, 19/831, 18/832, 17/833, 16/834, 15/835, 14/836, 13/837, 12/838, 11/839, 10/840, 9/841, 8/842, 7/843, 6/844, 5/845, 4/846, 3/847, 2/848, 1/849, 0/850, 19/851, 18/852, 17/853, 16/854, 15/855, 14/856, 13/857, 12/858, 11/859, 10/860, 9/861, 8/862, 7/863, 6/864, 5/865, 4/866, 3/867, 2/868, 1/869, 0/870, 19/871, 18/872, 17/873, 16/874, 15/875, 14/876, 13/877, 12/878, 11/879, 10/880, 9/881, 8/882, 7/883, 6/884, 5/885, 4/886, 3/887, 2/888, 1/889, 0/890, 19/891, 18/892, 17/893, 16/894, 15/895, 14/896, 13/897, 12/898, 11/899, 10/900, 9/901, 8/902, 7/903, 6/904, 5/905, 4/906, 3/907, 2/908, 1/909, 0/910, 19/911, 18/912, 17/913, 16/914, 15/915, 14/916, 13/917, 12/918, 11/919, 10/920, 9/921, 8/922, 7/923, 6/924, 5/925, 4/926, 3/927, 2/928, 1/929, 0/930, 19/931, 18/932, 17/933, 16/934, 15/935, 14/936, 13/937, 12/938, 11/939, 10/940, 9/941, 8/942, 7/943, 6/944, 5/945, 4/946, 3/947, 2/948, 1/949, 0/950, 19/951, 18/952, 17/953, 16/954, 15/955, 14/956, 13/957, 12/958, 11/959, 10/960, 9/961, 8/962, 7/963, 6/964, 5/965, 4/966, 3/967, 2/968, 1/969, 0/970, 19/971, 18/972, 17/973, 16/974, 15/975, 14/976, 13/977, 12/978, 11/979, 10/980, 9/981, 8/982, 7/983, 6/984, 5/985, 4/986, 3/987, 2/988, 1/989, 0/990, 19/991, 18/992, 17/993, 16/994, 15/995, 14/996, 13/997, 12/998, 11/999, 10/1000, 9/1001, 8/1002, 7/1003, 6/1004, 5/1005, 4/1006, 3/1007, 2/1008, 1/1009, 0/10010, 19/10011, 18/10012, 17/10013, 16/10014, 15/10015, 14/10016, 13/10017, 12/10018, 11/10019, 10/10020, 9/10021, 8/10022, 7/10023, 6/10024, 5/10025, 4/10026, 3/10027, 2/10028, 1/10029, 0/10030, 19/10031, 18/10032, 17/10033, 16/10034, 15/10035, 14/10036, 13/10037, 12/10038, 11/10039, 10/10040, 9/10041, 8/10042, 7/10043, 6/10044, 5/10045, 4/10046, 3/10047, 2/10048, 1/10049, 0/10050, 19/10051, 18/10052, 17/10053, 16/10054, 15/10055, 14/10056, 13/10057, 12/10058, 11/10059, 10/10060, 9/10061, 8/10062, 7/10063, 6/10064, 5/10065, 4/10066, 3/10067, 2/10068, 1/10069, 0/10070, 19/10071, 18/10072, 17/10073, 16/10074, 15/10075, 14/10076, 13/10077, 12/10078, 11/10079, 10/10080, 9/10081, 8/10082, 7/10083, 6/10084, 5/10085, 4/10086, 3/10087, 2/10088, 1/10089, 0/10090, 19/10091, 18/10092, 17/10093, 16/10094, 15/10095, 14/10096, 13/10097, 12/10098, 11/10099, 10/10100, 9/10091, 8/10092, 7/10093, 6/10094, 5/10095, 4/10096, 3/10097, 2/10098, 1/10099, 0/100100, 19/100101, 18/100102, 17/100103, 16/100104, 15/100105, 14/100106, 13/100107, 12/100108, 11/100109, 10/100110, 9/100111, 8/1001 | |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|----------|----------|--|--|
| | | | 97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 97/15, 97/16, 97/16, 97/17, 98, 94/386, 273, 274, 282, 264, 265, 266, 267, 260, 261, 258, 257, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 210, 211, 212, 100, 104, 103/1, 103/1, 103/2, 103/3, 108, 109, 110/1, 110/2, 111, 206, 207, 72, 218, 256, 113/2, 101, 255, 259, 262, 26, 97, 95 | 97/12, 97/13, 97/14, 97/15, 97/16, 97/16, 97/17, 98, 94/386, 273, 274, 282, 264, 265, 266, 267, 260, 261, 258, 257, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 210, 211, 212, 100, 104, 103/1, 105/1, 105/2, 105/3, 103/2, 103/3, 108, 109, 110/1, 110/2, 111, 112, 206, 207, 72, 218, 256, 113/2, 101, 255, 259, 262, 26, 97, 95, 113/1, 114, 220, 27/2, 74/2, 86, 88/1, 94 |
| दमोह | बटियागढ़ | लुकाझन | 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 105, 107, 108, 122, 124, 128, 136, 141, 150, 151, 153, 154, 155, 157/1, 157/2, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 186, 199, 200/1, 202, 205, 207, 65, 187 | 34, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 68, 100, 105, 107, 108, 122, 124, 128, 136, 141, 150, 151, 153, 154, 155, 157/1, 157/2, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 185, 186, 187, 199, 200/1, 201, 202, 205, 206, 207, 65, 187 |
| दमोह | बटियागढ़ | बरकवाइन | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 50, 74/1, 74/2, 75/216, 75/1, 76/1, , 78, 79, 81, 156, 157/1, 162, 164/1, 164/3, 167, 175/1, 175/2, 177, 178, 180/2, 4, 180/3, 253, 77, 75/2, 6, 155, 181, | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 46/282, 46/283, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 61, 62, 64/2, 64/3, 65, 55, 56, 57, 59, 60, 50, 73, 80, 74/1, 74/2, 75/216, 75/1, 76/1, , 78, 79; 81, 156, 157/1, 162, 164/1, 164/2, 164/3, 165, 167, 173, 174/1, 176, 179, 180/1, 182175/1, 175/2, 176, 177, 178, , 4, 180/3, 77, 75/2, 6, 155, 181, 180/2, 4, 180/3, 18, 139, 182 |
| दमोह | बटियागढ़ | वसिया | 179, 180, 181, 182, 185, 186, 212, 213, 215, 219, 220, 221, 222/1, 229, 230, 231, 232, 256, 257/2, 257/1, 259, 260, 261/1, 261/2, 261/3, 262, 263, 264, 178, | 179, 180, 181, 182, 185, 186, 212, 213, 215, 219, 220, 221, 222/1, 229, 230, 231, 232, 256, 257/2, 257/1, 259, 260, 261/1, 261/2, 261/3, 262, 263, 264, 176, 191/3, 211/1, 211/2, 217, 218, 223, 228, 253, 255, 258, 178, 176, 187, 258, 255 |
| दमोह | बटियागढ़ | सरिया | 119, 121/2, 120/2 | 118/1, 119, 120/2, 120/1, 121/2, 120/2 |
| दमोह | बटियागढ़ | नीमखेड़ा | 187, 189, 190/1, 190/2, 200, 207, 208, 190 | 186/1, 187, 189, 190/1, 190/2, 200, 205, 206/1, 206/2, 207, 208, 190, 192/1 |
| दमोह | बटियागढ़ | बटियागढ़ | 1137, 1138, 1139/2, 1148/2, 1149/1, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1160/2, 1160/3, 1203, 1204, 1221, 1209, 1210, 1220, 1219, 1218, 1140, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1223/1, 1223/2, 1224/1, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 270, 269, 263, 264, 265, 267, 266, 282, 295, 296, 297, 299, 395, 397, 396, 398, 399/1, 399/2, 400, 401/36, 401/27, 401/2, 401/1, 401/2, 401/1, 408, 409, 403/1, 403/2, 410, 412/1, 412/4, 412/2, | 1137, 1138, 1139/2, 1148/2, 1149/1, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1203, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1221, 1209, 1217/2, 1217/1, 1220, 1219, 1218, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1223/1, 1223/2, 1224/1, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 270, 269, 263, 264, 265, 267, 266, 282, 295, 296, 297, 299, 395, 397, 396, 398, 399/1, 399/2, 400, 401/36, 401/27, 401/2, 401/1, 408, 409, 403/1, 403/2, 410, 412/1, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|--------|----------|--------------|--|---|
| | | | 412/3, 413/2, 413/1, 415, 416, 417, 418, 436, 437, 438/2, 438/1, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 176, 227, 233, 234, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 501, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 496, 495, 488, 486, 487, 485, 484, 467, 457, 456, 454, 451, 450, 449, 448, 443, 445/1, 445/2, 440, 498, 492, 489, 458, 466, 456, 454, 451, 450, 448, 446, 444/2, 443, 441, 1136/2, 1211, 1212/1, 277, 393, 401, 411, 412, 414, 1141, 1142, 1224/2, 155, 218, 238, 236, 500, 499, 491, 493, 471, 459, 446, 442, 1135, 1136/1, 1132, 1131, 1161/1, 1161/2, 1161/3, 1161/4, 1208, 1212/2, 278, 268/1, 268/2, 293, 294, 298, 300, 402, 405, 407, 427, 428, 429, 431, 435, 1217/2, 1212/1 | 412/4, 412/2, 412/3, 413/2, 413/1, 415, 416, 417, 418, 436, 437, 438/2, 438/1, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 176, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 235, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 501, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 496, 495, 488, 486, 487, 485, 484, 469, 470, 468, 467, 457, 456, 454, 451, 450, 455, 449, 448, 443, 445/1, 445/2, 440, 441, 498, 492, 489, 458, 466, 456, 454, 451, 450, 448, 446, 444/2, 443, 441, 1136/2, 1211, 277, 393, 401, 411, 412, 414, 1141, 1142, 1224/2, 155, 218, 238, 236, 500, 499, 491, 493, 471, 459, 446, 442, 1135, 1136/1, 1132, 1131, 1161/1, 1161/2, 1161/3, 1161/4, 1208, 1212/2, 278, 268/1, 268/2, 293, 294, 298, 300, 402, 405, 407, 427, 428, 429, 431, 435, 1217/2, 1212/1 |
| दमोह | बटियागढ़ | घनश्याम पुरा | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 30, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 136, 138, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 158, 159, 167, 168, 171, 172 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 136, 138, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 167, 168, 171, 172, 157, 34, 51 |
| दमोह | बटियागढ़ | शहजादपुरा | 5, 7, 15, 199, 172/1, 197, 199, 200, 201, 203 | 5, 7, 15, 199, 172/1, 172/2, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 209 |
| छतरपुर | वक्सवाहा | अमोदा | 04, 81, 83, 86, 87, 88, 189, 191, 195, 197, 206, 207, 209, 210, 222, 223, 228, 229, 230, 232, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 312, 313, 315, 317, 320, 322, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 336, 338, 340, 350, 351, 363, 364, 365, 367, 368, 413, 415, 416, 470, 471, 472, 352, 353, 348, 326 | 04, 24, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 189, 191, 195, 197, 206, 207, 209, 210, 222, 223, 224, 228, 229, 230, 232, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 348, 336, 338, 340, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 363, 364, 365, 367, 368, 413, 415, 416, 463, 470, 471, 472, 479/299, 352, 353, 348, 326, 221, 479/229, 84 |
| छतरपुर | वक्सवाहा | जुझारपुरा | 1, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 265, 267, 269, 270, 274, 275, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 287, 288, 289, 291, 292, 298, 299, 300, 301, 305, 314, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 377, 378, | 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 44, 53, 212, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 298, 299, 300, 301, 305, 306, 307, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सङ्क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सङ्क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|-----------|----------|---------|---|--|
| | | | 382, 383, 385, 386, 403, 404, 405, 406, 427, 432, 708, 786, 790, 787, 794, 798, 800, 807, 809, 810, 817, 819, 31, 36, 217, 278, 285, 796, 304, 381, 431, 785, 784, 783, 780, 781, 778, 752, 777, 776, 775, 772, 773 | 308, 314, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 334, 375, 376, 377, 378, 382, 383, 385, 386, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 427, 431, 432, 453, 458, 460, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 714, 715, 752, 768, 769, 786, 790, 787, 794, 798, 800, 806, 807, 809, 810, 811, 817, 818, 819, 826/716, 828/716, 31, 36, 217, 278, 285, 796, 304, 381, 431, 785, 784, 783, 780, 781, 787, 752, 777, 776, 775, 772, 773, 54, 816, 319, 379, 380, 394, 411, 750 |
| छत्तीसगढ़ | वक्सवाहा | मगरई | 9, 11, 13, 15, 16, 157, 158, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 179, 180, 182, 185, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 204, 214, 215, 216, 221, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 235, 239, 529, 12, 198 | 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 157, 158, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 203, 204, 212, 213, 214, 215, 216, 221, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 234, 235, 236, 239, 529, 12, 198, 530, 189 |
| छत्तीसगढ़ | वक्सवाहा | डगरई | 9, 11, 12, 13, 23, 24, 26, 31, 32, 39, 40, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 93, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 300, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 10, 27, 60, 131, 97, 95, 299, 298, 297 | 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 92, 152, 93, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 283, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 299, 300, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 10, 27, 60, 131, 97, 95, 299, 298, 297, 6, 325/15, 28, 104, 107 |
| छत्तीसगढ़ | वक्सवाहा | भड़ाटोर | 5, 6, 7, 23, 24, 25, 27, 51, 52/1, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 59, 74, 75, 76, 79, 80, 84, 85, 86, 3, 2, 60, 78, | 5, 6, 7, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 51, 52/1, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 59, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 3, 2, 60, 78, 28 |
| छत्तीसगढ़ | वक्सवाहा | गड़ाही | 337, 338, 363, 364, 366, 372, 374, 375, 377, 380, 381, 384, 385, 386, 389, 390, 400, 402, 404, 405, 408, 409, 410, 411, 412, 454, 455, 458, 459, 461, 481, 487, 488, 489, 488, 490, 491, 492, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 510, 512, 513, 515, 667, 672, 781, 782, 786, 789, 790, 793, 795, 800, 803, 804, 805, 807, 813, 814, 818, 820, 822, 824, 825, 476, 382, 379, 798, 802 | 34, 307, 337, 338, 340, 341, 363, 364, 366, 369, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 384, 385, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 397, 399, 400, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 454, 455, 458, 459, 461, 481, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 510, 512, 513, 515, 667, 672, 770, 781, 782, 783, 784, 786, 789, 790, 793, 795, 800, 802, 803, 804, 805, 807, 808, 812, 813, 814, 816, 818, 820, 822, 823, 824, 825, 476, 382, 379, |

| | | | | |
|--------|----------|---------|---|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
| | | | | 798, 802, 453, 370 |
| छतरपुर | वक्सवाहा | केरों | 5, 6, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 51, 52/1, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 59, 74, 75, 76, 84, 79, 80, 85, 86, 2, 3, 78, 60 | 5, 6, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 51, 52/1, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 59, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 2, 3, 78, 60, 28, 77 |
| सागर | शाहगढ़ | हीरापुर | 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1142, 1143, 1144, 1148/2, 1133, 1141 | 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1140, 1142, 1147, 1148/1, 1148/2, 1149, 1152/1, 1152/2, 1133, 1141, 1160 |

राज्य राजमार्ग अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन से एक माह के अंतर्गत या ग्राम में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इनमें से जो भी कालावधि पश्चातवर्ती हो कोई व्यक्ति लिखित में अपनी आपत्ति या सुझाव राजमार्ग प्राधिकारी (प्रबंध संचालक / संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सड़क विकास निगम) को प्रस्तुत कर सकता है या राजमार्ग प्राधिकारी के समक्ष उपरिथत हो सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

पृ. क्र. एफ-23-2-2015-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-23-2-2015-सा-उन्नीस, दिनांक 7 अप्रैल 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

No. F-23-02 /2015/01en./19

Bhopal, the 7th April 2015

In exercise of the powers conferred by clause (1) of section 12 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam 2004 (No. 11 of 2005) the State Government hereby propose for the roads as specified in Part-A of the schedule as per specification given below in Part-B of the schedule to be the Building line and Control line.

S C H E D U L E

I

Part-A

| S.No. | Name of State Highway | Total Length (in Km.) | Name of Districts on the way |
|-------|--|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Damoh-Batiyagarh-Bakswaha-Heerapur State Highway-37 | 71.30 | Damoh-Chhatarpur-Sagar |

Part-B

Details of land in between Building Lines and Control Lines

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|-------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Damoh | Damoh | Damoh Khas | 984, 985, 988, 989, 991, 997, 998, 999, 1001. | 984, 985, 988, 989, 991, 997, 998, 999, 1001. |
| Damoh | Damoh | Singpur | 187/5, 187/6, 187/10, 187/8, 187/7, 188/9, 294/5, 294/1, 171/5, 292, 265, 296/2. | 187/5, 187/6, 187/10, 187/8, 187/7, 188/9, 294/5, 294/1, 171/5, 290, 188/1, 187/9, 292, 265, 296/2. |
| Damoh | Damoh | Mahua kheda | 5/3, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116/2, 117, 119, 120, 121, 122, 137, 139, 141, 145, 146, 183, 184, 186, 194, 195, 196, 197/2, 199, 202, 203, 204, 221, 222/2, 223, 242, 243/1, 243/2, 246/1, 246/2, 247, 248/1, 248/2, 253, 255, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 281, 282, 181, 293, 198 | 4, 5/1, 5/3, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12/2, 13/1, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 92, 113, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116/2, 117, 119, 120, 121, 122, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 146, 147, 183, 184, 186, 194, 195, 196, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 218, 219, 220, 221, 222/2, 223, 224/1, 242, 243/1, 243/2, 245, 249/2, 246/1, 246/2, 247, 248/1, 248/2, 252, 253, 255, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 279, 280, 281, 282, 293, 181, 293, 198, 5/2, 217, 251, 291 |
| Damoh | Damoh | Hinnai | 62, 98/2, 104, 106/5, 164/2, 186, 184/1, 183/1, 197/, 190/5, 252, 254, 263, 264, 267, 268, 208, 200 190/2, 97/1, 97/2, 97/3, 278, 99, 100, 101, 103, 106/3, 253, 265, 266, 106/3, 162, 164/1, 165, 166/1, 166/2-3, 183/4, 181, 180, 102, 161, 167, 187, 202, 201, | 98/1, 106/1, 163, 187, 267, 268, 269, 271, 191, 250, 251, 254, 263, 267, 268, 208, 200 190/2, 97/1, 97/2, 97/3, 278, 99, 100, 101, 103, 106/3, 253, 265, 266, 106/3, 162, 164/1, 165, 166/1, 166/2-3, 183/4, 181, 180, 197, 198, 94, 93, 90/2, 104, 106/4, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|-----------|-------------------|--|---|
| | | | 199, 196, 190/2-3 | 106/5, 106/3, 190/5, 252, 264, 267, 160/2, 161, 164/2, 167, 186, 183/1, 182, 179/2, 102, 161, 167, 187, 202, 201, 199, 196, 190/2-3, 210 |
| Damoh | Damoh | Umari | 6, 7, 8, 9, 10, 18/2, 19, 24, 25, 28, 29, 30, 41, 42, 71, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 95, 93, 109/1, 109/2, 109/3, 18/1, 18/4, 94/4, 94/5, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 136, 137, 139 140, 189, 192, 194, 263, 267, 268. | 6, 8, 9, 10, 18/1, 18/4, 19, 27, 24, 25, 29, 42, 30, 41, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 92, 95, 94/4, 94/5, 109/1, 109/2, 109/3, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 136, 137, 138, 139, 28, 189, 194, 192, 195, 196, 261, 263, 267, 268, 70, 88, 148, 142, 141 |
| Damoh | Damoh | Mara Sukhi | 132, 133, 135, 137, 136, 141, 156, 157, 174, 175/1, 175/2, 175/3, 182, 184, 185, 191/4, 191/7, 201, 203, 208, 209, 210, 140 | 132, 133, 135, 136, 157, 158, 174, 175/1, 175/2, 175/3, 175/2, 176/1, 175/2, 177/2, 177/1, 182, 184, 185, 191/7, 191/4, 201, 203, 208, 209, 210, 211, 140, 131, 130, 134 191, 180 |
| Damoh | Damoh | Sukhi Pipariya | 168/4, 171, 172, 173, 174, 214, 216, 217, 272, 274, 270/2, 270/3, 269, 280, 273, 294, 295, 267, 268, 102/3, 101/2, 101/1, 100, 298, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312. | 168/4, 171, 172, 173, 174, 213, 214, 216, 271, 272, 270/2, 270/3, 269, 280, 273, 279, 293 294, 267, 268, 102/1, 102/3, 101/2, 101/1, 100, 298, 308, 309, 310, 311, 168/5, 170, 175/1, 175/2, 218, 271, 274, 284, 285, 283, 295, 298, 306, 307, 312, 313, 314, 168/1, 217, 270/1, 104, 102/2, 97, 99 |
| Damoh | Damoh | Prasai | 51, 52, 76, 77, 79/1, 79/2, 79/3, 80, 81, 82/2, 82/3, 82/4, 82/7, 83, 87, 88, 88/5, 89/2, 97/1, 95, 97/2, 97/4, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 85, 86 | 51, 52, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 79/3, 80, 81, 82/2, 82/3, 82/4, 82/7, 83, 87, 88, 88/5, 89/2, 96, 97/1, 95, 97/2, 97/4, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 85, 86, 69, 70/1, 54/4 |
| Damoh | Pathariya | Kakara | 1/4, 3, 4, 17/1, 18, 20, 21/1/2, 21/3, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 22, 26, 39, 40, 41, 42, 34, 38, 33 | 1/3, 1/4, 3, 4, 17/1, 18, 20, 21/1/2, 21/3, 22, 45, 46, 47, 48, 49, 58, 59/2, 50, 22, 57, 56, 31, 35, 36 |
| Damoh | Damoh | Muhali Narsingarh | 37, 38, 39, 40, 41, 57, 58, 60, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 155/1, 155/2, 156, 92/1, 92/2, 93, 94, 95, 87, 91, 35, 36/1, 36/2, 20, 158, 302, 326/1, 326/2, 326/3, 236/4, 326/5, 327/1, 327/2, 328/1, 328/2, 329, 330/1, 330/2, 332, 331, 333/1, 333/2, 335/1, 335/2, 338/1, 338/2, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 342/1, 342/2, 342/3, 343/1, 343/2, 343/3, 344, 345/1, 345/2, 346/1, 346/2, 347/1, 347/2, 348, 349, 365, 364, 363, 366, 367, 368, 369, 383, 382, 59, 117, 118, 132, 155, 96, 89, 92, 36, 195, 160, 326, 325, 327, 330, 335, 336, 337, 338, | 37, 38, 39, 40, 41, 57, 58, 59, 60, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 155/1, 155/2, 156, 92/1, 92/2, 93, 94, 95, 117, 118/1, 118/2, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 154, 91, 90, 96, 97, 89, 87, 35, 36/1, 36/2, 20, 158, 302, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 327/1, 327/2, 328/1, 328/2, 329, 330/1, 330/2, 332, 331, 333/1, 333/2, 334, 335/1, 335/2, 338/1, 338/2, 338/3, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 342/1, 342/2, 342/3, 343/1, 343/2, 343/3, 344, 345/1, 345/2, 346/1, 346/2, 347/1, 347/2, 348, 349, 365, 364, 363, 366, 367, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m, either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m, either sides of the road) |
|----------|-----------|------------------|--|---|
| | | | 339, 342, 343, 346, 347, 370 | 368, 369, 382, 383, 196, 195, 199/1, 199/2, 194, 179, 178, 177, 171, 170, 169, 167, 159, 160, 161, 336, 337/1, 337/2, 337/3, 362, 361, 360, 371, 372, 374, 370, 375/1, 375/2, 381/1, 381/2, . 381/3, 381/4, 159, 117, 118, 132, 155, 96, 89, 92, 36, 195, 160, 326, 325, 327, 330, 335, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 346, 347, 370, 116, 120, 129, 127, 149, 150, 153, 105, 34, 208, 206, 194, 193, 180, 173, 341, 350, 358, 375 |
| Damoh | Pathariya | Pipariya Champat | 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220/1, 220/2, 221, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 145, 143, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 242, 243, 244/1, 244/2, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 93/1, 93/2, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 260, 261, 259, 157, 155, 144, 141, 140, 111, 90, 92, 93, 150, 220, 231, 244, 259, 261 | 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 220/2, 221, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 145, 144/1, 144/2, 143, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244/1, 244/2, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140/1, 140/2, 121, 122, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 93/1, 93/2, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 260, 261, 157, 155, 144, 141, 140, 111, 90, 92, 93, 150, 220, 231, 244, 259, 261, 87, 225, 248, 249, 258 |
| Damoh | Pathariya | Narsingarh | 179, 180, 181, 182, 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 217/1, 217/2, 218, 219, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 246/1, 246/2, 246/3, 247, 248/1, 248/2, 248/3, 251/1, 251/2, 250/1, 250/2, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285/1, 285/2, 285/3, 288/1, 288/2, 288/3, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 317, 318, | 179, 180, 181, 182, 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 217/1, 217/2, 218, 219, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 246/1, 246/2, 246/3, 247, 248/1, 248/2, 248/3, 251/1, 251/2, 250/1, 250/2, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285/1, 285/2, 285/3, 288/1, 288/2, 288/3, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 317, 318, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|------------|-----------|---|---|
| | | | 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 177, 387, 386/1, 386/2, 386/3, 385, 378, 377, 376, 363/1, 363/2, 362, 361/1, 361/2, 361/3, 354/1, 354/2, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 337, 336, 335, 334, 252, 289/1, 289/2, 154/1, 154/2, 148, 147, 139, 138, 136, 135, 134, 132, 119, 118, 78, 77, 76, 75, 73, 72, 116, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 165/1, 165/2, 167, 166, 391, 392/1, 392/2, 392/3, 392/4, 170, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 172/7, 172/8, 172/9, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 174/1, 174/2, 178, 177, 154, 80, 216, 217, 245, 218, 220, 219, 248, 288, 285, 316, 332, 160, 165, 171, 174, 178, 176, 387, 389, 363, 364, 360, 354, 333 | 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 177, 387, 386/1, 386/2, 386/3, 385, 378, 377, 376, 363/1, 363/2, 362, 361/1, 361/2, 361/3, 360, 354/1, 354/2, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 337, 336, 335, 334, 286, 287, 252, 289/1, 289/2, 286, 287, 364, 347/1, 347/2, 347/3, 338, 154/1, 154/2, 148, 147, 139, 138, 136, 135, 134, 132, 119, 118, 78, 77, 76, 75, 73, 72, 120, 116, 80, 79, 71, 74, 81, 129, 115, 114, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 165/1, 165/2, 167, 166, 391, 392/1, 392/2, 392/3, 392/4, 170, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 172/7, 172/8, 172/9, 172/10, 172/11, 172/12, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 174/1, 174/2, 178, 154, 80, 216, 217, 245, 218, 220, 219, 248, 288, 285, 316, 332, 160, 165, 171, 174, 178, 176, 387, 389, 363, 364, 354, 333, 133, 112, 82, 70, 249, 252, 164, 175, 347 |
| Damoh | Batiyagarh | Chainpura | 83, 82, 81, 80, 78, 77, 76, 75, 66, 126, 127, 125, 123, 121, 120, 119, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 55, 38, 35, 34, 33, 20, 19/1, 19/2, 19/3, 15, 12, 11/1, 10, 6, 122, 124, 11, 11, 18 | 83, 84, 82, 81, 80, 78, 77, 76, 75, 66, 126, 127, 125, 123, 121, 120, 119, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 55, 38, 35, 34, 33, 31, 20, 19/1, 19/2, 19/3, 17, 15, 12, 11/1, 10, 6, 122, 124, 11, 18, 74, 73, 3, 69/1, 14, 51, 58 |
| Damoh | Batiyagarh | Sirsuya | 24, 25, 37/6, 43, 46, 49, 48, 55, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61, 62, 52, 44, 75 | 24, 25, 26, 37/6, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61, 62, 52, 44, 75, |
| Damoh | Batiyagarh | Motha | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90/1, 91/1, 100, 104/1, 104/2, 66/2, 49, 90/2 | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90/1, 91/1, 91/2, 100, 104/1, 104/2, 66/2, 49, 90/2, 63, 92, 102/2 |
| Damoh | Batiyagarh | Bhatera | 9, 10, 11, 14/1, 14/2, 25, 26, 126, 127, 118/1, 118/2, 118/3, 119, 108, 106/1, 106/2, 107, 246, 243/1, 242, 240, 239/1, 239/2, 219/3, 219/2, 219/1, 217, 216, 215, 214, 213, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 171, 15, 14, 8, 16, 12, 23, | 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 14/1, 14/2, 15, 16, 126, 127, 118/1, 118/2, 118/3, 119, 108, 106/1, 106/2, 107, 246, 243/1, 242, 240, 239/1, 239/2, 219/3, 219/2, 219/1, 217, 216, 215, 214, 213, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 171, 211/1, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|------------|------------|--|---|
| | | | 118/4, 218, 239 | 212/1, 212/2, 212/3, 243/2, 243/3, 105, 122, 125, 23, 27, 28, 29, 30, 25, 26, 13, 15, 14, 8, 16, 12, 118/4, 218, 239, 17, 21, 31, 34, 123, 121, 140, 212, 250 |
| Damoh | Batiyagarh | Bakayan | 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 24/3-4, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 25, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/14, 96/15, 96/16, 96/17, 96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/22, 96/23, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8, 97/9, 97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 97/15, 97/16, 97/17, 98, 94/386, 273, 274, 282, 264, 265, 266, 267, 260, 261, 258, 257, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 210, 211, 212, 100, 104, 103/1, 105/1, 105/2, 105/3, 103/1, 103/2, 103/3, 108, 109, 110/1, 110/2, 111, 112, 206, 207, 72, 218, 256, 113/2, 101, 255, 259, 262, 26, 97, 95 | 19, 88/2, 75, 268, 269, 270, 263, 250, 251, 107, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 24/3-4, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/14, 96/15, 96/16, 96/17, 96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/22, 96/23, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8, 97/9, 97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 97/15, 97/16, 97/17, 98, 94/386, 273, 274, 282, 264, 265, 266, 267, 260, 261, 258, 257, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 210, 211, 212, 100, 104, 103/1, 105/1, 105/2, 105/3, 103/2, 103/3, 108, 109, 110/1, 110/2, 111, 112, 206, 207, 72, 218, 256, 113/2, 101, 255, 259, 262, 26, 97, 95, 113/1, 114, 220, 27/2, 74/2, 86, 88/1, 94 |
| Damoh | Batiyagarh | Lukayan | 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 105, 107, 108, 122, 124, 128, 136, 141, 150, 151, 153, 154, 155, 157/1, 157/2, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 186, 199, 200/1, 202, 205, 207, 65, 187 | 34, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 68, 100, 105, 107, 108, 122, 124, 128, 136, 141, 150, 151, 153, 154, 155, 157/1, 157/2, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 185, 186, 187, 199, 200/1, 201, 202, 205, 206, 207, 65, 187 |
| Damoh | Batiyagarh | Barkawaeen | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 50, 74/1, 74/2, 75/216, 75/1, 76/1, , 78, 79, 81, 156, 157/1, 162, 164/1, 164/3, 167, 175/1, 175/2, 177, 178, 180/2, 4, 180/3, 253, 77, 75/2, 6, 155, 181, | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 46/282, 46/283, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 61, 62, 64/2, 64/3, 65, 55, 56, 57, 59, 60, 50, 73, 80, 74/1, 74/2, 75/216, 75/1, 76/1, 78, 79, 81, 156, 157/1, 162, 164/1, 164/2, 164/3, 165, 167, 173, 174/1, 176, 179, 180/1, 182/175/1, 175/2, 176, 177, 178, , 4, 180/3, 77, 75/2, 6, 155, 181, 180/2, 4, 180/3, 18, 139, 182 |
| Damoh | Batiyagarh | Basiya | 179, 180, 181, 182, 185, 186, 212, 213, 215, 219, 220, 221, 222/1, 229, 230, 231, 232, 256, 257/2, 257/1, 259, 260, 261/1, 261/2, 261/3, 262, 263, 264, 178, | 179, 180, 181, 182, 185, 186, 212, 213, 215, 219, 220, 221, 222/1, 229, 230, 231, 232, 256, 257/2, 257/1, 259, 260, 261/1, 261/2, 261/3, 262, 263, 264, 176, 191/3, 211/1, 211/2, 217, 218, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|------------|----------------|---|--|
| | | | | 223, 228, 253, 255, 258, 178, 176, 187, 258, 255 |
| Damoh | Batiyagarh | Sariya | 119, 121/2, 120/2 | 118/1, 119, 120/2, 120/1, 121/2, 120/2 |
| Damoh | Batiyagarh | Neemkheda | 187, 189, 190/1, 190/2, 200, 207, 208, 190 | 186/1, 187, 189, 190/1, 190/2, 200, 205, 206/1, 206/2, 207, 208, 190, 192/1 |
| Damoh | Batiyagarh | Batiyagarh | 1137, 1138, 1139/2, 1148/2, 1149/1, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1203, 1204, 1221, 1209, 1210, 1220, 1219, 1218, 1140, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1223/1, 1223/2, 1224/1, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 270, 269, 263, 264, 265, 267, 266, 282, 295, 296, 297, 299, 395, 397, 396, 398, 399/1, 399/2, 400, 401/36, 401/27, 401/2, 401/1, 408, 409, 403/1, 403/2, 410, 412/1, 412/4, 412/2, 412/3, 413/2, 413/1, 415, 416, 417, 418, 436, 437, 438/2, 438/1, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 176, 227, 233, 234, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 501, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 496, 495, 488, 486, 487, 485, 484, 469, 468, 467, 457, 456, 454, 450, 449, 448, 443, 445/1, 445/2, 440, 498, 492, 489, 458, 466, 456, 454, 451, 450, 451, 450, 448, 446, 444/2, 443, 442, 441, 1136/2, 1211, 1212/1, 277, 393, 401, 401, 411, 412, 412, 414, 1141, 1142, 1142, 1224/2, 155, 218, 238, 236, 500, 499, 491, 493, 471, 459, 446, 442, 1135, 1136/1, 1132, 1131, 1161/1, 1161/2, 1161/3, 1161/4, 1208, 1212/2, 278, 268/1, 268/2, 293, 294, 298, 300, 402, 405, 407, 427, 428, 429, 431, 435, 1217/2, 1212/1 | 1137, 1138, 1139/2, 1148/2, 1149/1, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1203, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1221, 1209, 1217/2, 1217/1, 1220, 1219, 1218, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1223/1, 1223/2, 1224/1, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 270, 269, 263, 264, 265, 267, 266, 282, 295, 296, 297, 299, 395, 397, 396, 398, 399/1, 399/2, 400, 401/36, 401/27, 401/2, 401/1, 408, 409, 403/1, 403/2, 410, 412/1, 412/4, 412/2, 412/3, 413/2, 413/1, 415, 416, 417, 418, 436, 437, 438/2, 438/1, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 176, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 235, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 501, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 496, 495, 488, 486, 487, 485, 484, 469, 470, 468, 467, 457, 456, 454, 451, 450, 455, 449, 448, 443, 445/1, 445/2, 440, 441, 498, 492, 489, 458, 466, 456, 454, 451, 450, 448, 446, 444/2, 443, 441, 1136/2, 1211, 277, 393, 401, 411, 412, 414, 1141, 1142, 1224/2, 155, 218, 238, 236, 500, 499, 491, 493, 471, 459, 446, 442, 1135, 1136/1, 1132, 1131, 1161/1, 1161/2, 1161/3, 1161/4, 1208, 1212/2, 278, 268/1, 268/2, 293, 294, 298, 300, 402, 405, 407, 427, 428, 429, 431, 435, 1217/2, 1212/1 |
| Damoh | Batiyagarh | Ghanshyam pura | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 30, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 136, 138, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 158, 159, 167, 168, 171, 172 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 136, 138, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 167, 168, 171, 172, 157, 34, 51 |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|------------|------------|--------------|--|--|
| Damoh | Batiyagarh | Shahjad pura | 5, 7, 15, 199, 172/1, 197, 199, 200, 201, 203 | 5, 7, 15, 199, 172/1, 172/2, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 209 |
| Chhatarpur | Bakswaha | Amoda | 04, 81, 83, 86, 87, 88, 189, 191, 195, 197, 206, 207, 209, 210, 222, 223, 228, 229, 230, 232, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 312, 313, 315, 317, 320, 322, 324, 325, 327, 328, 329, 350, 351, 363, 364, 365, 367, 368, 413, 415, 416, 470, 471, 472, 352, 353, 348, 326, 330, 331, 336, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 363, 364, 365, 367, 368, 413, 415, 416, 463, 470, 471, 472, 479/299, 352, 353, 348, 326, 221, 479/229, 84 | 04, 24, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 189, 191, 195, 197, 206, 207, 209, 210, 222, 223, 224, 228, 229, 230, 232, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 348, 336, 338, 340, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 363, 364, 365, 367, 368, 413, 415, 416, 463, 470, 471, 472, 479/299, 352, 353, 348, 326, 221, 479/229, 84 |
| Chhatarpur | Bakswaha | Jujharpura | 1, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 265, 267, 269, 270, 274, 275, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 287, 288, 289, 291, 292, 298, 299, 300, 301, 305, 314, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 377, 378, 382, 383, 385, 386, 403, 404, 405, 406, 427, 432, 708, 786, 790, 787, 794, 798, 800, 807, 809, 810, 817, 819, 31, 36, 217, 278, 285, 796, 304, 381, 431, 785, 784, 783, 780, 781, 778, 752, 777, 776, 775, 772, 773 | 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 44, 53, 212, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 298, 299, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 314, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 334, 375, 376, 377, 378, 382, 383, 385, 386, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 427, 431, 432, 453, 458, 460, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 714, 715, 752, 768, 769, 786, 790, 787, 794, 798, 800, 806, 807, 809, 810, 811, 817, 818, 819, 826/716, 828/716, 31, 36, 217, 278, 285, 796, 304, 381, 431, 785, 784, 783, 780, 781, 787, 752, 777, 776, 775, 772, 773, 54, 816, 319, 379, 380, 394, 411, 750 |
| Chhatarpur | Bakswaha | Magrai | 9, 11, 13, 15, 16, 157, 158, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 179, 180, 182, 185, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 204, 214, 215, 216, 221, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 235, 239, 529, 12, 198 | 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 157, 158, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 203, 204, 212, 213, 214, 215, 216, 221, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 234, 235, 236, 239, 529, 12, 198, 530, 189 |
| Chhatarpur | Bakswaha | Dagrai | 9, 11, 12, 13, 23, 24, 26, 31, 32, 39, 40, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 66, | 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|------------|----------|-----------|---|--|
| | | | 67, 70, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 93, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 300, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 10, 27, 60, 131, 97, 95, 299, 298, 297 | 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 92, 152, 93, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 283, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 299, 300, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 10, 27, 60, 131, 97, 95, 299, 298, 297, 6, 325/15, 28, 104, 107 |
| Chhatarpur | Bakswaha | Bhadhator | 5, 6, 7, 23, 24, 25, 27, 51, 52/1, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 59, 74, 75, 76, 79, 80, 84, 85, 86, 3, 2, 60, 78, | 5, 6, 7, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 51, 52/1, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 59, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 3, 2, 60, 78, 28 |
| Chhatarpur | Bakswaha | Gadhahi | 337, 338, 363, 364, 366, 372, 374, 375, 377, 380, 381, 384, 385, 386, 389, 390, 400, 402, 404, 405, 408, 409, 410, 411, 412, 454, 455, 458, 459, 461, 481, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 501, 502, 503, 504, 506, 510, 512, 513, 515, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 515, 667, 672, 790, 793, 795, 800, 803, 804, 805, 807, 813, 814, 818, 820, 822, 824, 825, 476, 382, 379, 798, 802 | 34, 307, 337, 338, 340, 341, 363, 364, 366, 369, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 384, 385, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 397, 399, 400, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 454, 455, 458, 459, 461, 481, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 510, 512, 513, 515, 667, 672, 770, 781, 782, 783, 784, 786, 789, 790, 793, 795, 800, 802, 803, 804, 805, 807, 808, 812 813, 814, 816, 818, 820, 822, 823, 824, 825, 476, 382, 379, 798, 802, 453, 370 |
| Chhatarpur | Bakswaha | Kainron | 5, 6, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 51, 52/1, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 59, 74, 75, 76, 84, 79, 80, 85, 86, 2, 3, 78, 60 | 5, 6, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 51, 52/1, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 59, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 2, 3, 78, 60, 28, 77 |
| Sagar | Shahgarh | Heerapur | 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1142, 1143, 1144, 1148/2, 1133, 1141 | 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1140, 1142, 1147, 1148/1, 1148/2, 1149, 1152/1, 1152/2, 1133, 1141, 1160 |

Under Section 12(2) of Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, any or all persons affected by such notification who may wish to make any objection or suggestion with respect to the issue of such notification, may submit their objections or suggestions in writing to the Highway Authority (Managing Director/Divisional Manager M.P. Road Development Corporation Ltd.) or appear before such authority within one month of the publication of the notification in the official Gazette or within 15 days from the date of the publication of the notification in the village, whichever period expires later.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

क्रमांक स्फु. २३-०२/१५/सा./मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 12 (1) के निबंधनों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निम्न अनुसूची के खण्ड-अ में वर्णित राज्य राजमार्ग के लिए खण्ड-ब में अंकित भूमि विवरण के अनुरूप भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखा की अधिसूचना जारी किया जाना प्रस्तावित है :-

I)

"खण्ड-अ"

| अ. क्र. | अधिसूचित मार्ग का नाम | सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में) | राज्यमार्ग में आने वाले जिले |
|---------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1 | बीना - कुरवाई - सिरोंज मार्ग (राज्य राजमार्ग क्र.-14) | 57.10 | विदिशा, सागर |

"खण्ड-ब"

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|-----------|--|---|
| | | | 4 | 5 |
| सागर | बीना | सब्दा | 114, 123, 123/137, 111, 113, 104/135, 103 101, 99, 98, 95, 94, 93, 92, 91, 122 | 114, 123, 123/137, 111, 113, 104/135, 103 101, 99, 98, 95, 94, 93, 92, 91, 115, 125, 100, 96, 85 ,89, 122 |
| सागर | बीना | पाली | 91, 92, 94, 95, 96, 97/1, 97/3, 97/2, 137/1, 138/1, 138/2, 138/9, 141, 142, 143/1, 143/2, 144, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 27, 26, 32, 33, 34, 86, 85, 83, 81, 64, 54, 79, 78, 52, 88, 90, 91, 92, 3, 6, 4, 5, 7, 9, 10, 15 | 91, 92, 94, 95, 96, 97/1, 97/3, 97/2, 137/1, 138/1, 138/2, 138/9, 141, 142, 143/1, 143/2, 144, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 27, 26, 32, 33, 34, 86, 85, 83, 81, 64, 54, 79, 78, 52, 88, 90, 91, 92, 3, 6, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 102, 101, 97/4, 136/1, 140, 146, 147, 14, 22, 30, 67, 68, 65, 63, 64, 55, 50, 89, 102, 14, |
| सागर | बीना | किर्वावदा | 131, 214, 213, 216, 215, 217, 218, 230, 274, 275, 279, 280, 281, 282, 284, 283, 306, 307, 420, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 441, 443, 82, 92, 117, 95, 232, 231, 238, 239, 272, 271, 267, 265, 266, 268, 263, 269, 121, 120 119/1, 119/2, 129/1 129/2, 129/2, 130, 132, 43, 414, 75, 76 77/2, 77/3, 77/1, 70, 78, 79/3, 79/1, 80, 81, 88, 212, 211, 220, 219, 286, 91, 94, 93, 116, 241, 260, 270, 128, 141/2, 74, 69, 305, 442 | 131, 214, 213, 216, 215, 217, 218, 230, 274, 275, 279, 280, 281, 282, 284, 283, 306, 307, 420, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 441, 443, 82, 92, 117, 95, 232, 231, 238, 239, 272, 271, 267, 265, 266, 268, 263, 269, 121, 120 119/1, 119/2, 129/1 129/2, 130, 132, 43, 414, 75, 76 77/2, 77/3, 77/1, 70, 78, 79/3, 79/1, 80, 81, 88, 212, 211, 220, 219, 286, 91, 94, 93, 116, 241, 260, 270, 128, 141/2, 74, 69, 305, 442 |
| सागर | बीना | हलखाती | 465/3, 466, 1, 2, 3, 467, 468/2, 468/1, 494/1, 494/2, 495, 501/5, 500/1, 500/4, 508, 500/2, 509, 404/4, 404/10, 506/1 | 465/3, 466, 1, 2, 3, 467, 468/2, 468/1, 494/1, 494/2, 495, 501/5, 500/1, 500/4, 508, 500/2, 509, 404/4, 404/10, 504/2, 506/1 |
| सागर | बीना | गोदना | 29/2, 16/1, 15, 14/1, 13, 7, 6, 5/2, 47/1, 48/2, 48/3, 81/1, 83, 84/2, 87, 2, 84/2, 87, 2, 3, 4, 85, 17/2, 5/1, 47/2, 80/1, 80/5, 80/6, 84/1, 88, | 29/2, 16/1, 15, 14/1, 13, 7, 6, 5/2, 47/1, 48/2, 48/3, 81/1, 83, 84/2, 87, 2, 3, 4, 85, 17/2, 5/1, 47/2, 80/1, 80/5, 80/6, 84/1, 88, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|--------|--------|----------------|---|---|
| विदिशा | कुरवाई | परसोरिया | 84, 85, 82, 80, 79, 75, 74, 38, 37, 35, 34, 33, 32, 49, 48, 9, 10, 8, 1, 27, 28, 29, 91, 78, 73, 40, 44, 47, | 84, 85, 82, 80, 79, 75, 74, 38, 37, 35, 34, 33, 32, 49, 48, 9, 10, 8, 1, 27, 28, 29, 91, 78, 73, 40, 44, 47, |
| विदिशा | कुरवाई | मलिया खेड़ी | 120, 121, 150, 151, 152, 156, 160/1, 162, 160/3, 118, 117, 116, 110, 108, 109, 103/1/2, 103/1/3, 102, 99, 100, 98, 72, 68, 67, 50, 49, 100, 98, 72, 68, 67, 50, 49, 122, 157, 109, 103/1/1, 77, 74, 48, | 120, 121, 150, 151, 152, 156, 160/1, 162, 160/3, 118, 117, 116, 110, 108, 103/1/2, 103/1/3, 102, 99, 100, 98, 72, 68, 67, 50, 49, 122, 157, 109, 103/1/1, 77, 74, 48, |
| विदिशा | कुरवाई | लायरा | 1067, 1056, 1058, 1061, 974, 841, 843, 840, 860, 862, 868, 837, 871, 835, 834, 833, 594, 593, 598, 890, 895, 910, 899, 517, 545, 520, 518, 502, 464, 462, 447, 444, 443, 430, 425, 1051, 1052, 1053, 1050, 1054, 978, 983, 824, 825, 826, 816, 815, 829, 831, 823, 790, 791, 600, 568, 587, 583, 552, 588, 550, 553, 549, 548, 547, 544, 543, 536, 526, 525, 524, 419, 421, 410, 409, 404, 403, 402, 396, 395, 392, 374, 468, 1059, 1060, 968, 891, 849, 599, 584, 984, 903, 901, 902, 504, 445, 442, 428, 1048, 979, 818, 816, 813, 812, 787, 602, 584, 570, 571, 576, 574, 542, 538, 527, 418, 415, 394, 375, 901, 79 | 1067, 1056, 1058, 1061, 974, 841, 843, 840, 860, 862, 868, 837, 871, 835, 834, 833, 594, 593, 598, 890, 895, 910, 899, 517, 545, 520, 518, 502, 464, 462, 447, 444, 443, 430, 425, 1051, 1052, 1053, 1050, 1054, 978, 983, 824, 825, 826, 816, 815, 829, 831, 823, 790, 791, 600, 568, 587, 583, 552, 588, 550, 553, 549, 548, 547, 544, 543, 536, 526, 525, 524, 419, 421, 410, 409, 404, 403, 402, 396, 395, 392, 374, 468, 1059, 1060, 968, 891, 849, 599, 584, 984, 903, 901, 902, 504, 445, 442, 428, 1048, 979, 818, 816, 813, 812, 787, 602, 584, 570, 571, 576, 574, 542, 538, 527, 418, 415, 394, 375, 901, 79 |
| विदिशा | कुरवाई | केशरांगज | 58/1/1, 58/1/2, 58/1/3, 59/2, 62/1, 61/1, 103/112, 113, 104, 109/1/2, 134, 133/2, 132/6, 135/1, 135/2, 156/2/1, 146/3, 155/1, 150/1, 151, 58/2/1, 58/2/2, 58/2/4, 63/1, 101/1/1-2-3-4, 102/2, 102/1, 103/1/1, 117/1, 114/1/1, 119/1, 133/1, 132/2, 131/2, 136, 139, 146/1, 144/1/1, 148, 143, 150/3, 154, 58/1/4/1, 112/111, 145/2 | 58/1/1, 58/1/2, 58/1/3, 59/2, 62/1, 61/1, 103/112, 113, 104, 109/1/2, 134, 133/2, 132/6, 135/1, 135/2, 156/2/1, 146/3, 155/1, 150/1, 151, 58/2/1, 58/2/2, 58/2/4, 63/1, 101/1/1-2-3-4, 102/2, 102/1, 103/1/1, 117/1, 114/1/1, 119/1, 133/1, 132/2, 131/2, 136, 139, 146/1, 144/1/1, 148, 143, 150/3, 164, 59/1, 60, 106, 105, 108, 158/2, 158/1/1, 152/1, 158/2/3, 64, 87/1, 87/2, 118, 120, 130, 154, 58/1/4/1, 112/111, 145/2 |
| विदिशा | कुरवाई | इकौदा | 10, 11, 21, 23, 24, 25, 33, 34, 43, 44, 45, 14, 78, 77, 76, 75, 66, 65, 54, 53, 50, | 10, 11, 21, 23, 24, 25, 33, 34, 43, 44, 45, 14, 78, 77, 76, 75, 66, 65, 54, 53, 50, 35, 81 |
| विदिशा | कुरवाई | कुरवाई करवा | 1399, 1400, 1520, 1525, 1378, 1377, 1380, 1381, 1383, 1394, 1392, 1277, 1397, 1528, 1530, 1580, 1591, 1531, 1638, 1633, 1625, 1624, 1595, 1622, 1625, 1624, 1595, 1622, 1597, 1693, 1255, 1524/2, 1246, 1121, 1120, 1124, 1126, 1158, 1160, 1156, 1156, 545, 543/2, 529, 531/3, 533, 532/2, 534, 535/1, 527, 519, 520, 526, 525/3, 524, 525/2/1, 525/2/2, 475/2, 475/1, 471/2, 469, 445, 443/1, 443/2, 442/2, 441, 535/2, 561, 563, 565, 568, 363/1, 363, 364, 365/2, 374, 376, 347, 348, 346, 442/2, 441, 535/2, 561, 563, 565, | 1399, 1400, 1520, 1525, 1378, 1377, 1380, 1381, 1383, 1394, 1392, 1277, 1397, 1528, 1530, 1580, 1591, 1531, 1638, 1633, 1625, 1624, 1595, 1622, 1597, 1693, 1255, 1524/2, 1246, 1121, 1120, 1124, 1126, 1158, 1160, 1156, 545, 543/2, 529, 531/3, 533, 532/2, 534, 535/1, 527, 519, 520, 526, 525/3, 524, 525/2/1, 525/2/2, 475/2, 475/1, 471/2, 469, 445, 443/1, 443/2, 442/2, 441, 535/2, 561, 563, 565, 568, 363/1, 363, 364, 365/2, 374, 376, 347, 348, 346, 341, 440, 415, 378, 379, 260, 245, |

| जिला | तहसील | ग्राम | मवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं। (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | सियंग्रेन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं। (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|--------|--------|---------------|--|---|
| | | | 568, 363/1, 363, 364, 365/2, 374, 376, 347, 348, 346, 341, 440, 415, 378, 379, 260, 245, 243, 246, 239, 233, 231, 230, 185, 238, 340, 380, 384, 227, 208, 224, 223, 222, 221, 220, 187, 1401, 1521, 1522, 1376, 1383, 1537, 1621, 1620, 1650, 1253, 1233, 1150, 531/1, 525/1/3, 525/1/2, 478, 473, 471/1, 446, 442/1, 573, 572, 571, 570, 373, 375, 345, 439, 416, 413, 381, 342, 246, 237, 234, 235, 382, 209, 210, 219, 218, | 243, 246, 239, 233, 231, 230, 185, 238, 340, 380, 384, 227, 208, 224, 223, 222, 221, 220, 187, 1401, 1521, 1522, 1376, 1383, 1537, 1621, 1620, 1650, 1253, 1233, 1150, 531/1, 525/1/3, 525/1/2, 478, 473, 471/1, 446, 442/1, 573, 572, 571, 570, 373, 375, 345, 439, 416, 413, 381, 342, 246, 237, 234, 235, 382, 209, 210, 219, 218, |
| विदिशा | कुरवाई | भौंसरा | 941, 939, 937, 936, 935, 932, 956/999, 944, 951, 947, 945, | 941, 939, 937, 936, 935, 932, 956/999, 944, 951, 947, 945, |
| विदिशा | कुरवाई | शाहपुर कछप | 11, 34, 46, 47, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 17, 19, 21, 22, 23, 33, 2, | 11, 34, 46, 47, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 17, 19, 21, 22, 23, 33, 2, 35, 24, 25, 4, |
| विदिशा | कुरवाई | कुछपुरा | 39, 40, 43, 35, 6, 5, 2, 47, 48, 43, 45, 56, 55, 51, 49, | 39, 40, 43, 35, 6, 5, 2, 47, 48, 43, 45, 56, 55, 51, 49, 7, 4, 3, 9, 50, |
| विदिशा | कुरवाई | पेराखेड़ी | 123, 126, 127, 128, 129, 233, 234, 235, 236, 239, 283, 295, 293, 292, 291, 290, 288, 287, 303, 302, 301, 300 | 123, 126, 127, 128, 129, 233, 234, 235, 236, 239, 283, 295, 293, 292, 291, 290, 288, 287, 303, 302, 301, 300, 94, 130, 298, 299, 241, |
| विदिशा | कुरवाई | रेहकलां | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 19, 17, 16, 10, 9, | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 19, 17, 16, 10, 9, 18, 13, 14, |
| विदिशा | कुरवाई | महलुआ | 386, 387, 388, 389, 380, 391, 343, 344, 345, 275, 275/3, 273/2, 273/1, 269/1, 260/4, 221, 219, 266, 267, 10, 11, 12, 13, 14, 381, 369/2, 374/1, 374/3, 373/1, 373, 369, 363, 362/1, 361, 360, 369, 358/1, 355, 356, 358, 355/2, 6, 5, 3, 2, 1, 343/5, 275/4, 275/2, 275/1, 278, 268, 343/5 | 386, 387, 388, 389, 380, 391, 343, 344, 345, 275, 275/3, 273/2, 273/1, 269/1, 260/4, 221, 219, 266, 267, 10, 11, 12, 13, 14, 381, 369/2, 374/1, 374/3, 373/1, 373, 369, 363, 362/1, 361, 360, 369, 358/1, 355, 356, 358, 355/2, 6, 5, 3, 2, 1, 343/5, 275/4, 275/2, 275/1, 278, 268, 343/5 |
| विदिशा | सिरोंज | घटवार | 138, 135, 108, 111, 110, 112, 72, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 106, 171, 170, 152, 151, 150, 147, 143, 46/3, 48, 50, 59, 62, 63, 72, 212, 211, 205, 192, 188, 187, 186, 178, 177, 176, 175, 174, 8, 9, 2, 23, 29, 31, 33, 43, 44, 46/1, 46/2, 46/3, 217, 216, 215, 5, 7 | 138, 135, 108, 111, 110, 112, 72, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 106, 171, 170, 152, 151, 150, 147, 143, 46/3, 48, 50, 59, 62, 63, 72, 212, 211, 205, 192, 188, 187, 186, 178, 177, 176, 175, 174, 8, 9, 2, 23, 29, 31, 33, 43, 44, 46/1, 46/2, 46/3, 217, 216, 215, 5, 7, 149, 60, 20, 32, 218, 220, 213, 155, 102 |
| विदिशा | सिरोंज | सोना | 6/1, 6/2, 7, 20, 19, 41, 42/1/1, 42/2/2, 42/2/1, 95, 94, 84, 80, 79, 78, 77, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 44, 46, 47, 72, 74, 75, 21, 22, 40, 81, 71, 45 | 6/1, 6/2, 7, 20, 19, 41, 42/1/1, 42/2/2, 42/2/1, 95, 94, 84, 80, 79, 78, 77, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 44, 46, 47, 72, 74, 75, 21, 22, 40, 81, 71, 45 |
| विदिशा | सिरोंज | महादेवखेड़ी | 504, 514, 513, 515, 519, 520 451, 450, 522, 523, 524 | 504, 514, 513, 515, 519, 520 451, 450, 522, 523, 524, 517 |
| विदिशा | सिरोंज | शाहपुर | 1, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 172, 171, 164, 163, 162, 151/1/1 151/1/2 149, 143, 142/1, 73, 16, 15 19, 20, 27, 21/2, 28 29, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 174, 165, 161, 148, 144 26, 31, 64 | 1, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 172, 171, 164, 163, 162, 151/1/1 151/1/2 149, 143, 142/1, 73, 16, 15 19, 20, 27, 21/2, 28 29, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 174, 165, 161, 148, 144 26, 31, 64 |
| विदिशा | सिरोंज | हासमपुर | 23, 22, 21, 19, 18, 12, 11, 10, 1, 2, 3, 6, 8, 4, 7 | 23, 22, 21, 19, 18, 12, 11, 10, 1, 2, 3, 6, 8, 4, 7 |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|--------|--------|-----------------|---|---|
| विदिशा | सिरोंज | सियालपुर | 949, 928, 927, 926, 917, 916, 915, 763, 912, 913, 899, 895, 894, 890, 889, 805, 795, 761, 891 | 949, 928, 927, 926, 917, 916, 915, 763, 912, 913, 899, 895, 894, 890, 889, 805, 795, 761, 891 |
| विदिशा | सिरोंज | पथरिया | 146, 145/1, 145/2, 138, 137, 120/1, 119/2, 174/1, 175, 176/1, 176/7, 176/8, 176/6, 179, 180/1, 9, 10, 11, 12, 25, 116, 26, 115, 97, 98, 96, 94, 144, 141, 140, 136, 137, 135, 139, 132, 8/2, 24, 22/2, 112, 113, 103, 95/3, 95/2, 120/2, 121/1 | 146, 145/1, 145/2, 138, 137, 120/1, 119/2, 174/1, 175, 176/1, 176/7, 176/8, 176/6, 179, 180/1, 9, 10, 11, 12, 25, 116, 26, 115, 97, 98, 96, 94, 144, 141, 140, 136, 137, 135, 139, 132, 8/2, 24, 22/2, 112, 113, 103, 95/3, 95/2, 120/2, 121/1 |
| विदिशा | सिरोंज | रुसल्ला दामा | 83, 216, 215, 218, 219, 220, 223, 227, 228, 10, 82, 81, 80, 53, 52, 54, 50, 49, 48, 87, 89 85, 84, 99, 83 13, 11, 10, 16 | 83, 216, 215, 218, 219, 220, 223, 227, 228, 10, 82, 81, 80, 53, 52, 54, 50, 49, 48, 89 85, 84, 99, 83, 13, 11, 10, 16, 77, 95, 98, 12, 60 |
| विदिशा | सिरोंज | दामखेड रुस | 38, 37, 36, 35, 27, 24, 22, 23, 17, 14, 13, 10/198 | 38, 37, 36, 35, 27, 24, 22, 23, 17, 14, 13, 10/198, 28 |
| विदिशा | सिरोंज | वीरपुर | 220, 219, 217, 216, 215, 214, 124, 125, 126, 127, 128, 212/1/1, 212/1/6, 218 | 220, 219, 217, 216, 215, 214, 124, 125, 126, 127, 128, 212/1/1, 212/1/6, 222, 123, 218 |
| विदिशा | सिरोंज | भटोली | 269, 270, 268, 229, 228, 230, 231, 266, 265, 264, 263, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 279 | 269, 270, 268, 229, 228, 230, 231, 266, 265, 264, 263, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 225 |
| विदिशा | कुरवाई | वीरपुर | 770, 774, 775, 776, 780, 779, 245, 784, 243, 242, 239, 795, 794, 793, 791, 789, 737, 738, 740, 741, 755, 756, 757, 758, 768, 770, 774, 798, 797, 796, 795, 794, 680, 687, 688, 689, 690, 697, 698, 701, 699, 700, 703, 659, 660, 661, 664, 670, 671, 672, 674, 675, 676, 707, 708, 715, 717, 718, 246, 241, 739, 760, 686, 692, 669, 668, | 770, 774, 775, 776, 780, 779, 245, 784, 243, 242, 239, 795, 794, 793, 791, 789, 737, 738, 740, 741, 755, 756, 757, 758, 768, 770, 774, 798, 797, 796, 795, 794, 680, 687, 688, 689, 690, 697, 698, 701, 699, 700, 703, 659, 660, 661, 664, 670, 671, 672, 674, 675, 676, 707, 708, 715, 717, 718, 246, 241, 739, 760, 686, 692, 669, 668, |
| विदिशा | कुरवाई | माला | 69, 71, 73 | 69, 71, 73 |
| विदिशा | कुरवाई | वेरखडी | 3, 5, 8, 10, 12, 13 | 3, 5, 8, 10, 12, 13, 18, 50, 127, 125, 124 |
| विदिशा | सिरोंज | बगरोदा | 731, 730, 729, 728, 727, 716, 711, 706, 705, 704, 703, 691, 692, 694, 696, 699, 700, 789, 788, 787, 776, 744, 743, 738, 735, 734, 666, 667, 668, 678, 683, 684, 6845, 691, 802, 800, 799, 798, 797, 796, 794, 792, 778, 568, 569, 567, 570, 574, 575, 576, 623, 624, 625, | 731, 730, 729, 728, 727, 716, 711, 706, 705, 704, 703, 691, 692, 694, 696, 699, 700, 789, 788, 787, 776, 784, 786, 785, 744, 743, 738, 735, 734, 666, 667, 668, 678, 683, 684, 6845, 691, 802, 800, 799, 798, 797, 796, 794, 792, 778, 568, 569, 567, 570, 574, 575, 576, 623, 624, 625, 708, 698, 670, 669, 677, 801, 793, |
| विदिशा | सिरोंज | कस्बा सिरोंज | 2282, 2288, 2289, 2455, 2456, 2457, 2281, 2275, 2268, 2267, 2263, 2266, 2262, 2261, 2257, 2258, 2256, 2255, 2242, 2243, 2244, 2241, 2240, 2239, 2229, 2228, 2227, 2154, 2153, 2152, 2150, 2123, 2124, 2125, 2127, 2126, 2017, 2019, 2021, 2022, 2029, 2030, 2031, 2057, 2058, 2059, 2061, 2062, 2029, 2030, 2031, 2057, 2058, | 2282, 2288, 2289, 2455, 2456, 2457, 2281, 2275, 2268, 2267, 2263, 2266, 2262, 2261, 2257, 2258, 2256, 2255, 2242, 2243, 2244, 2241, 2240, 2239, 2229, 2228, 2227, 2154, 2153, 2152, 2150, 2123, 2124, 2125, 2127, 2126, 2017, 2019, 2021, 2022, 2029, 2030, 2031, 2057, 2058, 2059, 2061, 2062, 2063, 2072, 2073, 2074, 2070, 2099, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|-------|--|---|
| | | | 2059, 2061, 2062, 2063, 2072, 2073 2074, 2070, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2110, 2111, 2118, 2120, 2121, 2294, 2291, 2292, 2459, 2265, 2259, 2251, 2252, 2254, 2232, 2161, 2162, 2128, 1998, 1999, 2023, 2026, 2027, 2033, 2065, 2071, 2097, 2105, 2112, 2113, 2112, 2119, 2065, 2075, 2076, 2077, 2079, 2078, | 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2110, 2111, 2118, 2120, 2121, 2294, 2291, 2292, 2459, 2265, 2259, 2251, 2252, 2254, 2232, 2161, 2162, 2128, 1998, 1999, 2023, 2026, 2027, 2033, 2065, 2071, 2097, 2105, 2112, 2113, 2112, 2119, 2065, 2075, 2076, 2077, 2079, 2078, |

राज्य राजमार्ग अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन से एक माह के अंतर्गत या ग्राम में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इनमें से जो भी कालावधि पश्चातवर्ती हो कोई व्यक्ति लिखित में अपनी आपत्ति या सुझाव राजमार्ग प्राधिकारी (प्रबंध संचालक/संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सड़क विकास निगम) को प्रस्तुत कर सकता है या राजमार्ग प्राधिकारी के समक्ष उपरिथित हो सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

पृ. क्र. एफ-23-02-2015-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-23-02-2015-सा.-उन्नीस, दिनांक 7 अप्रैल 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

No. F - 23-02/2015/Gen./19

Bhopal, the 7th April 2015

In exercise of the powers conferred by clause (1) of section 12 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam 2004 (No. 11 of 2005) the State Government hereby propose for the roads as specified in Part-A of the schedule as per specification given below in Part-B of the schedule to be the Building line and Control line.

S C H E D U L E**I****Part-A**

| S.No. | Name of State Highway | Total Length (in Km.) | Name of Districts on the way |
|-------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Beena-Kurwai-Sironj (SH-14) | 57.10 | Vidisha, Sagar |

Part-B**Details of land in between Building Lines and Control Lines**

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|-----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sagar | Beena | Sabda | 114, 123, 123/137, 111, 113, 104/135, 103 101, 99, 98, 95, 94, 93, 92, 91, 122 | 114, 123, 123/137, 111, 113, 104/135, 103 101, 99, 98, 95, 94, 93, 92, 91, 115, 125, 100, 96, 85, 89, 122 |
| Sagar | Beena | Pali | 91, 92, 94, 95, 96, 97/1, 97/3, 97/2, 137/1, 138/1, 138/2, 138/9, 141, 142, 143/1, 143/2, 144, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 27, 26, 32, 33, 34, 86, 85, 83, 81, 64, 54, 79, 78, 52, 88, 90, 91, 92, 3, 6, 4, 5, 7, 9, 10, 15 | 91, 92, 94, 95, 96, 97/1, 97/3, 97/2, 137/1, 138/1, 138/2, 138/9, 141, 142, 143/1, 143/2, 144, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 27, 26, 32, 33, 34, 86, 85, 83, 81, 64, 54, 79, 78, 52, 88, 90, 91, 92, 3, 6, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 102, 101, 97/4, 136/1, 140, 146, 147, 14, 22, 30, 67, 68, 65, 63, 64, 55, 50, 89, 102, 14, |
| Sagar | Beena | Kirrawada | 131, 214, 213, 216, 215, 217, 218, 230, 274, 275, 279, 280, 281, 282, 284, 283, 306, 307, 420, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 441, 443, 82, 92, 117, 95, 232, 231, 238, 239, 272, 271, 267, 265, 266, 268, 263, 269, 121, 120 119/1, 119/2, 129/1 129/2, 130, 132, 43, 414, 75, 76 77/2, 77/3, 77/1, 70, 78, 79/3, 79/1, 80, 81, 88, 305, 442 | 131, 214, 213, 216, 215, 217, 218, 230, 274, 275, 279, 280, 281, 282, 284, 283, 306, 307, 420, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 441, 443, 82, 92, 117, 95, 232, 231, 238, 239, 272, 271, 267, 265, 266, 268, 263, 269, 121, 120 119/1, 119/2, 129/1 129/2, 130, 132, 43, 414, 75, 76 77/2, 77/3, 77/1, 70, 78, 79/3, 79/1, 80, 81, 88, 212, 211, 220, 219, 286, 91, 94, 93, 116, 241, 260, 270, 128, 141/2, 74, 69, 305, 442 |
| Sagar | Beena | Halkhati | 465/3, 466, 1, 2, 3, 467, 468/2, 468/1, 494/1, 494/2, 495, 501/5, 500/1, 500/4, 508, 500/2, 509, 404/4, 404/10, 506/1 | 465/3, 466, 1, 2, 3, 467, 468/2, 468/1, 494/1, 494/2, 495, 501/5, 500/1, 500/4, 508, 500/2, 509, 404/4, 404/10, 504/2, 506/1 |
| Sagar | Beena | Godna | 29/2, 16/1, 15, 14/1, 13, 7, 6, 5/2, 47/1, 48/2, 48/3, 81/1, 83, 84/2, 87, 2, 3, 4, 85, | 29/2, 16/1, 15, 14/1, 13, 7, 6, 5/2, 47/1, 48/2, 48/3, 81/1, 83, 84/2, 87, 2, 3, 4, 85, 17/2, 5/1, 47/2, |

1

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|-----------------|---|---|
| | | | | 80/1, 80/5, 80/6, 84/1, 88, |
| Vidisha | Kurwai | Parso riya | 84, 85, 82, 80, 79, 75, 74, 38, 37, 35, 34, 33, 32, 49, 48, 9, 10, 8, 1, 27, 28, 29, | 84, 85, 82, 80, 79, 75, 74, 38, 37, 35, 34, 33, 32, 49, 48, 9, 10, 8, 1, 27, 28, 29, 91, 78, 73, 40, 44, 47, |
| Vidisha | Kurwai | Maliya khedi | 120, 121, 150, 151, 152, 156, 160/1, 162, 160/3, 118, 117, 116, 110, 108, 103/1/2, 103/1/3, 102, 99, 100, 98, 72, 68, 67, 50, 49, | 120, 121, 150, 151, 152, 156, 160/1, 162, 160/3, 118, 117, 116, 110, 108, 103/1/2, 103/1/3, 102, 99, 100, 98, 72, 68, 67, 50, 49, 122, 157, 109, 103/1/1, 77, 74, 48, |
| Vidisha | Kurwai | Layara | 1067, 1056, 1058, 1061, 974, 841, 843, 840, 860, 862, 868, 837, 871, 835, 834, 833, 594, 593, 598, 890, 895, 910, 899, 517, 545, 520, 518, 502, 468, 464, 462, 447, 444, 443, 430, 425, 1051, 1052, 1053, 1050, 1054, 978, 983, 824, 825, 826, 816, 815, 829, 831, 823, 790, 791, 600, 568, 587, 583, 552, 588, 550, 553, 549, 548, 547, 544, 543, 536, 526, 525, 524, 419, 421, 410, 409, 404, 403, 402, 396, 395, 392, 374, 901, 79 | 1067, 1056, 1058, 1061, 974, 841, 843, 840, 860, 862, 868, 837, 871, 835, 834, 833, 594, 593, 598, 890, 895, 910, 899, 517, 545, 520, 518, 502, 464, 462, 447, 444, 443, 430, 425, 1051, 1052, 1053, 1050, 1054, 978, 983, 824, 825, 826, 816, 815, 829, 831, 823, 790, 791, 600, 568, 587, 583, 552, 588, 550, 553, 549, 548, 547, 544, 543, 536, 526, 525, 524, 419, 421, 410, 409, 404, 403, 402, 396, 395, 392, 374, 468, 1059, 1060, 968, 891, 849, 599, 584, 984, 903, 901, 902, 504, 445, 442, 428, 1048, 979, 818, 816, 813, 812, 787, 602, 584, 570, 571, 576, 574, 542, 538, 527, 418, 415, 394, 375, 901, 79 |
| Vidisha | Kurwai | Keshar ganj | 58/1/1, 58/1/2, 58/1/3, 59/2, 62/1, 61/1, 103/112, 113, 104, 109/1/2, 134, 133/2, 132/6, 135/1, 135/2, 156/2/1, 146/3, 155/1, 150/1, 151, 58/2/1, 58/2/2, 58/2/4, 63/1, 101/1/1-2-3-4, 102/2, 102/1, 103/1/1, 117/1, 114/1/1, 119/1, 133/1, 132/2, 131/2, 136, 139, 146/1, 144/1/1, 148, 143, 150/3, 154, 58/1/4/1, 112/111, 145/2 | 58/1/1, 58/1/2, 58/1/3, 59/2, 62/1, 61/1, 103/112, 113, 104, 109/1/2, 134, 133/2, 132/6, 135/1, 135/2, 156/2/1, 146/3, 155/1, 150/1, 151, 58/2/1, 58/2/2, 58/2/4, 63/1, 101/1/1-2-3-4, 102/2, 102/1, 103/1/1, 117/1, 114/1/1, 119/1, 133/1, 132/2, 131/2, 136, 139, 146/1, 144/1/1, 148, 143, 150/3, 164, 59/1, 60, 106, 105, 108, 158/2, 158/1/1, 152/1, 158/2/3, 64, 87/1, 87/2, 118, 120, 130, 154, 58/1/4/1, 112/111, 145/2 |
| Vidisha | Kurwai | Ekouda | 10, 11, 21, 23, 24, 25, 33, 34, 43, 44, 45, 14, 78, 77, 76, 75, 66, 65, 54, 53, 50, | 10, 11, 21, 23, 24, 25, 33, 34, 43, 44, 45, 14, 78, 77, 76, 75, 66, 65, 54, 53, 50, 35, 81 |
| Vidisha | Kurwai | Kurwai Kasba | 1399, 1400, 1520, 1525, 1378, 1377, 1380, 1381, 1383, 1394, 1392, 1277, 1397, 1528, 1530, 1580, 1591, 1531, 1638, 1633, 1625, 1624, 1595, 1622, 1597, 1693, 1255, 1524/2, 1246, 1121, 1120, 1124, 1126, 1158, 1160, 1156, 545, 543/2, 529, 531/3, 533, 532/2, 534, 535/1, 1240, 1241, 1236, 1215, 1161, 527, 519, 520, 526, 525/3, 524, 525/2/1, 525/2/2, 475/2, 475/1, 471/2, 469, 445, 443/1, 443/2, 442/2, 441, | 1399, 1400, 1520, 1525, 1378, 1377, 1380, 1381, 1383, 1394, 1392, 1277, 1397, 1528, 1530, 1580, 1591, 1531, 1638, 1633, 1625, 1624, 1595, 1622, 1597, 1693, 1255, 1524/2, 1246, 1121, 1120, 1124, 1126, 1158, 1160, 1156, 545, 543/2, 529, 531/3, 533, 532/2, 534, 535/1, 1240, 1241, 1236, 1215, 1161, 527, 519, 520, 526, 525/3, 524, 525/2/1, 525/2/2, 475/2, 475/1, 471/2, 469, 445, 443/1, 443/2, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|-----------------|---|--|
| | | | 535/2, 561, 563, 565, 568, 363/1, 363, 364, 365/2, 374, 376, 347, 348, 346, 341, 440, 415, 378, 379, 260, 245, 243, 246, 239, 233, 231, 230, 185, 238, 340, 380, 384, 227, 208, 224, 223, 222, 221, 220, 187, | 442/2, 441, 535/2, 561, 563, 565, 568, 363/1, 363, 364, 365/2, 374, 376, 347, 348, 346, 341, 440, 415, 378, 379, 260, 245, 243, 246, 239, 233, 231, 230, 185, 238, 340, 380, 384, 227, 208, 224, 223, 222, 221, 220, 187, 1401, 1521, 1522, 1376, 1383, 1537, 1621, 1620, 1650, 1253, 1233, 1150, 531/1, 525/1/3, 525/1/2, 478, 473, 471/1, 446, 442/1, 573, 572, 571, 570, 373, 375, 345, 439, 416, 413, 381, 342, 246, 237, 234, 235, 382, 209, 210, 219, 218, |
| Vidisha | Kurwai | Bhouunrasa | 941, 939, 937, 936, 935, 932, 956/999, 944, 951, 947, 945, | 941, 939, 937, 936, 935, 932, 956/999, 944, 951, 947, 945, |
| Vidisha | Kurwai | Shahpur Kachhap | 11, 34, 46, 47, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 17, 19, 21, 22, 23, 33, 2, | 11, 34, 46, 47, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 17, 19, 21, 22, 23, 33, 2, 35, 24, 25, 4, |
| Vidisha | Kurwai | Kuchhpura | 39, 40, 43, 35, 6, 5, 2, 47, 48, 43, 45, 56, 55, 51, 49, | 39, 40, 43, 35, 6, 5, 2, 47, 48, 43, 45, 56, 55, 51, 49, 7, 4, 3, 9, 50, |
| Vidisha | Kurwai | Perakhedi | 123, 126, 127, 128, 129, 233, 234, 235, 236, 239, 283, 295, 293, 292, 291, 290, 288, 287, 303, 302, 301, 300 | 123, 126, 127, 128, 129, 233, 234, 235, 236, 239, 283, 295, 293, 292, 291, 290, 288, 287, 303, 302, 301, 300, 94, 130, 298, 299, 241, |
| Vidisha | Kurwai | Renh Kalan | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 19, 17, 16, 10, 9, | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 19, 17, 16, 10, 9, 18, 13, 14, |
| Vidisha | Kurwai | Mahalua | 386, 387, 388, 389, 380, 391, 343, 344, 345, 275, 275/3, 273/2, 273/1, 269/1, 260/4, 221, 219, 266, 267, 10, 11, 12, 13, 14, 381, 369/2, 374/1, 374/3, 373/1, 373, 369, 363, 362/1, 361, 360, 369, 358/1, 355, 356, 358, 355/2, 6, 5, 3, 2, 1, 343/5, 275/4, 275/2, 275/1, 278, 268, 343/5 | 386, 387, 388, 389, 380, 391, 343, 344, 345, 275, 275/3, 273/2, 273/1, 269/1, 260/4, 221, 219, 266, 267, 10, 11, 12, 13, 14, 381, 369/2, 374/1, 374/3, 373/1, 373, 369, 363, 362/1, 361, 360, 369, 358/1, 355, 356, 358, 355/2, 6, 5, 3, 2, 1, 343/5, 275/4, 275/2, 275/1, 278, 268, 343/5 |
| Vidisha | Sironj | Ghatwar | 138, 135, 108, 111, 110, 112, 72, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 106, 171, 170, 152, 151, 150, 147, 143, 46/3, 48, 50, 59, 62, 63, 72, 212, 211, 205, 206, 192, 188, 187, 186, 178, 177, 176, 175, 174, 8, 9, 2, 23, 29, 31, 33, 43, 44, 46/1, 46/2, 46/3, 217, 216, 215, 5, 7, 149, 60, 20, 32, 218, 220, 213, 155, 102 | 138, 135, 108, 111, 110, 112, 72, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 106, 171, 170, 152, 151, 150, 147, 143, 46/3, 48, 50, 59, 62, 63, 72, 212, 211, 205, 206, 192, 188, 187, 186, 178, 177, 176, 175, 174, 8, 9, 2, 23, 29, 31, 33, 43, 44, 46/1, 46/2, 46/3, 217, 216, 215, 5, 7, 149, 60, 20, 32, 218, 220, 213, 155, 102 |
| Vidisha | Sironj | Sona | 6/1, 6/2, 7, 20, 19, 41, 42/1/1, 42/2/2, 42/2/1, 95, 94, 84, 80, 79, 78, 77, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 44, 46, 47, 72, 74, 75, 45, | 6/1, 6/2, 7, 20, 19, 41, 42/1/1, 42/2/2, 42/2/1, 95, 94, 84, 80, 79, 78, 77, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 44, 46, 47, 72, 74, 75, 21, 22, 40, 81, 71, 45 |
| Vidisha | Sironj | Mahadev Khedi | 504, 514, 513, 515, 519, 520 451, 450, 522, 523, 524 | 504, 514, 513, 515, 519, 520 451, 450, 522, 523, 524, 517 |
| Vidisha | Sironj | Shahpur | 1, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 172, 171, 164, 163, 162, 151/1/1 151/1/2 149, 143, 142/1, 73, 16, 15 19, 20, 27, 21/2, 28 29, 63, 66, 68, 69, 70 | 1, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 172, 171, 164, 163, 162, 151/1/1 151/1/2 149, 143, 142/1, 73, 16, 15 19, 20, 27, 21/2, 28 29, 63, 66, 68, 69, 70, 174, 165, 161, 148, 144 26, 31, 64 |
| Vidisha | Sironj | Hasampur | 23, 22, 21, 19, 18, 12, 11, 10, 1, 2, | 23, 22, 21, 19, 18, 12, 11, 10, 1, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m, either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m, either sides of the road) |
|----------|--------|--------------|--|---|
| | | | 3, 6, 8 949, 928, 927, 926, 917, 916, 915, 763, 912, 913, 899, 895, 894, 890, 889, 805, 795, 761 | 2, 3, 6, 8, 4, 7 949, 928, 927, 926, 917, 916, 915, 763, 912, 913, 899, 895, 894, 890, 889, 805, 795, 761, 891 |
| Vidisha | Sironj | Siyalpur | | |
| Vidisha | Sironj | Pathariya | 146, 145/1, 145/2, 138, 137, 120/1, 119/2, 174/1, 175, 176/1, 176/7, 176/8, 176/6, 179, 180/1, 9, 10, 11, 12, 25, 116, 26, 115, 97, 98, 96, 94 | 146, 145/1, 145/2, 138, 137, 120/1, 119/2, 174/1, 175, 176/1, 176/7, 176/8, 176/6, 179, 180/1, 9, 10, 11, 12, 25, 116, 26, 115, 97, 98, 96, 94, 144, 141, 140, 136, 137, 135, 139, 132, 8/2, 24, 22/2, 112, 113, 103, 95/3, 95/2, 120/2, 121/1 |
| Vidisha | Sironj | Rusalla Dama | 83, 216, 215, 218, 219, 220, 223, 227, 228, 10, 82, 81, 80, 53, 52, 54, 50, 49, 87, 89 85, 84, 99, 83 13, 11, 10, 16 | 83, 216, 215, 218, 219, 220, 223, 227, 228, 10, 82, 81, 80, 53, 52, 54, 50, 49, 87, 89 85, 84, 99, 83 , 13, 11, 10, 16, 77, 95, 98, 12, 60 |
| Vidisha | Sironj | Damkhed Roos | 38, 37, 36, 35, 27, 24, 22, 23, 17, 14, 13, 10/198 | 38, 37, 36, 35, 27, 24, 22, 23, 17, 14, 13, 10/198, 28 |
| Vidisha | Sironj | Veerpur | 220, 219, 217, 216, 215, 214, 124, 125, 126, 127, 128, 212/1/1, 212/1/6, 218 | 220, 219, 217, 216, 215, 214, 124, 125, 126, 127, 128, 212/1/1, 212/1/6, 222, 123, 218 |
| Vidisha | Sironj | Bhatoli | 269, 270, 268, 229, 228, 230, 231, 266, 265, 264, 263, 273, 274, 276, 277, 278, 279 | 269, 270, 268, 229, 228, 230, 231, 266, 265, 264, 263, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 225 |
| Vidisha | Kurwai | Veerpur | 770, 774, 775, 776, 780, 779, 245, 784, 243, 242, 239, 795, 794, 793, 791, 789, 737, 738, 740, 741, 755, 756, 757, 758, 768, 770, 774, 798, 797, 796, 795, 794, 680, 687, 688, 689, 690 697, 698, 701, 699, 700, 703, 659, 660, 661, 664, 670, 671, 672, 674, 675, 676, 707, 708, 715, 717, 718, | 770, 774, 775, 776, 780, 779, 245, 784, 243, 242, 239, 795, 794, 793, 791, 789, 737, 738, 740, 741, 755, 756, 757, 758, 768, 770, 774, 798, 797, 796, 795, 794, 680, 687, 688, 689, 690 697, 698, 701, 699, 700, 703, 659, 660, 661, 664, 670, 671, 672, 674, 675, 676, 707, 708, 715, 717, 718, 246, 241, 739, 760, 686, 692, 669, 668, |
| Vidisha | Kurwai | Mala | 69, 71, 73 | 69, 71, 73 |
| Vidisha | Kurwai | Berkhedi | 3, 5, 8, 10, 12, 13 | 3, 5, 8, 10, 12, 13, 18, 50, 127, 125, 124 |
| Vidisha | Sironj | Bagroda | 731, 730, 729, 728, 727, 716, 711, 706, 705, 704, 703, 691, 692, 694, 696, 699, 700, 789, 788, 787, 776, 784, 786, 785, 744, 743, 738, 735, 734, 666, 667, 668, 678, 683, 684, 6845, 691, 802, 800, 799, 798, 797, 796, 794, 792, 778, 568, 569, 567, 570, 574, 575, 576, 623, 624, 625, | 731, 730, 729, 728, 727, 716, 711, 706, 705, 704, 703, 691, 692, 694, 696, 699, 700, 789, 788, 787, 776, 784, 786, 785, 744, 743, 738, 735, 734, 666, 667, 668, 678, 683, 684, 6845, 691, 802, 800, 799, 798, 797, 796, 794, 792, 778, 568, 569, 567, 570, 574, 575, 576, 623, 624, 625, 708, 698, 670, 669, 677, 801, 793, |
| Vidisha | Sironj | Kasba Sironj | 2282, 2288, 2289, 2455, 2456, 2457, 2281, 2275, 2268, 2267, 2263, 2266, 2262, 2261, 2257, 2258, 2256, 2255, 2242, 2243, 2244, 2241, 2240, 2239, 2229, 2228, 2227, 2154, 2153, 2152, 2150, 2123, 2124, 2125, 2127, 2126, 2017, 2019, 2021, 2022, 2029, 2030, 2031, 2057, 2058, 2059, 2061, 2062, 2063, 2072, 2073 2074, 2070, 2099, | 2282, 2288, 2289, 2455, 2456, 2457, 2281, 2275, 2268, 2267, 2263, 2266, 2262, 2261, 2257, 2258, 2256, 2255, 2242, 2243, 2244, 2241, 2240, 2239, 2229, 2228, 2227, 2154, 2153, 2152, 2150, 2123, 2124, 2125, 2127, 2126, 2017, 2019, 2021, 2022, 2029, 2030, 2031, 2057, 2058, 2059, 2061, 2062, 2063, 2072, 2073, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m, either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m, either sides of the road) |
|----------|--------|---------|---|---|
| | | | 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2110, 2111, 2118, 2120, 2121, 2065, 2075, 2076, 2077, 2079, 2078, | 2074, 2070, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2110, 2111, 2118, 2120, 2121, 2294, 2291, 2292, 2459, 2265, 2259, 2251, 2252, 2254, 2232, 2161, 2162, 2128, 1998, 1999, 2023, 2026, 2027, 2033, 2065, 2071, 2097, 2105, 2112, 2113, 2112, 2119, 2065, 2075, 2076, 2077, 2079, 2078, |

Under Section 12(2) of Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, any or all persons affected by such notification who may wish to make any objection or suggestion with respect to the issue of such notification, may submit their objections or suggestions in writing to the Highway Authority (Managing Director/Divisional Manager M.P. Road Development Corporation Ltd.) or appear before such authority within one month of the publication of the notification in the official Gazette or within 15 days from the date of the publication of the notification in the village, whichever period expires later.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

क्रमांक १५ २३-२/१५/सा/१९ मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 12 (1) के निर्बंधनों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निम्न अनुसूची के खण्ड-अ में वर्णित राज्य राजमार्ग के लिए खण्ड-ब में अंकित भूमि विवरण के अनुरूप भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखा की अधिसूचना जारी किया जाना प्रस्तावित हैः—

I)

"खण्ड-अ"

| अ. क्र. | अधिसूचित मार्ग का नाम | सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में) | राज्यमार्ग में आने वाले जिले |
|---------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | दमोह – कटनी राज्य राजमार्ग.-14 | 117.90 | दमोह, पन्ना, कटनी |

"खण्ड-ब"

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| दमोह | दमोह | धरमपुरा | 177, 175, 174, 173, 180, 188, 198, 199, 200, 210, 211, 280, 279, 278, 277, 272, 270, 271, 250, 249, 213, 214/2, 214/1, 215, 216, 217, 218, 249, 222, 221, 220, 255, 212, 280, 282, | 177, 178, 175, 174, 173, 180, 188, 198, 199, 200, 210, 211, 280, 279, 278, 277, 272, 270, 271, 250, 249, 213, 241/2, 214/1, 215, 216, 217, 218, 249, 222, 221, 220, 182, 180, 181, 208, 212, 283, 276, 275/1, 273, 266, 269, 255, 254, 247, 248, 255, 276, 282, 225, 224 |
| दमोह | दमोह | समन्ना रैतवारी | 15, 17/1, 18/1, 18/2, 37, 36, 20, 21, 23/1, 23/2, 24, 25, 27/1, 27/2, 40, 26 | 15, 17/1, 18/1, 18/2, 37, 36, 20, 21, 23/1, 23/2, 24, 25, 27/1, 27/2, 40, 26 |
| दमोह | दमोह | समन्ना मॉल | 475, 476, 477/1, 477/2, 478, 479, 483, 484, 490, 335, 334, 332, 322, 321, 318, 319, 317, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 303, 303, 182/1, 187/1, 163, 164, 160, 161, 158, 159, 154, 152, 153, 151, 492, 493, 494, 496, 498, 500, 501/1, 201/2, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 516, 514, 518, 520/2, 521, 522/1, 522/2, 523, 497, 513/1_3, 519/1, 519/5, 539/1, 565, 566/1, 567, 568/1, 569.537/1, | 475, 476, 477/1, 477/2, 478, 479, 483, 484, 490, 335, 334, 332, 322, 321, 318, 319, 317, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 303, 182/1, 187/1, 163, 164, 160, 161, 158, 159, 154, 152, 153, 151, 492, 493, 494, 496, 495, 498, 500, 501/1, 201/2, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 515, 516, 514, 518, 519/2, 520/2, 521, 522/1, 522/2, 523, 474, 481, 482, 487, 459, 332, 323, 325, 324, 337, 317, 316, 326, 285, 286, 287, 290, 313, 305, 304, 301, 195, 182/1, 194, 186, 162, 165, 169/2, 149549, 546, 5455, 543, 542, 497, 541, 564/4, 564/3, 564/2, 584, 568/1, 569, |
| दमोह | दमोह | करैया हजारी | 218/1, 218/2, 218/3, 219/2, 220, 223/2, 224, 230, 258, 259, 260, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 281, 282, 284, 285, 286, , 240, 241, 243, 245, 254, 253, 225. | 218/1, 218/2, 218/3, 219/2, 220, 223/2, 224, 230, 258, 259, 260, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 263, 261, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 230, 240, 241, 245, 254.253, 225, 263, 261, 239. |
| दमोह | दमोह | भदौली | 37, 245, 248, 250, 257, 258, 259, 260, 217, 285, 289, 290, 294, 295, 297, 298, 304, 305, 309, 314, 315, 316/1, 316/2, 316/3, 410, 721/2, | 37, 245, 248, 250, 257, 258, 259, 260, 217, 285, 289, 290, 294, 295, 297, 298, 304, 305, 309, 314, 315, 316/1, 316/2, 316/3, 410, 721/2, 718, 716, 713, 243, |

| जिला | तहसील | ग्राम | मध्यन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 718, 716, 713/2, 414, 704, 703, 702/2, 701, 700/23, 695/3, 694, 693, 692/2, 709, 707, 247, 286, 296, 303, 311, 711/2, 70 | 246, 247, 250, 253, 411, 412/1, 413/1, 705, 284, 286, 414/5, 414/2, 702/2, 701, 700/2, 695/2, 695/3, 693, 692/2, 291, 296, 301, 303, 308, 311, 312, 307, 317, 711/2, 713, 712, 701/1, 701/3, 709, 710, , 247, 286, 296, 303, 311, 711/2, 70, 244, 291, 300, |
| दमोह | दमोह | आनू | 1712, 1713, 1706, 1709, 1706, 1701, 1700, 1695, 1694, 1692, 1691, 1679, 1678, 1710/1793, 1794, 1796, 1797/1800/11808, 1807, 1806, 1805, 1804 | 1712, 1713, 1706, 1709, 1706, 1701, 1700, 1695, 1694, 1692, 1691, 1679, 1678, 585, 586, 698/3, 699, 700, 978, 979, 993, , 994, 995, 996, 997, 998, 1001, 1677, 1674, 1676, 1788, 1790, 1792, 1794, 1796, 1797, 1800/1808, 1806, 1805, 1804, 1809, 1820/2, 1820/1, 999/1, |
| दमोह | दमोह | गुन्जी | 672/2, 669, 640, 639, 638, 619, 618, 615, 614, 612, 611, 607, 606, 594, 593, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 687, 685, 686, | 672/2, 669, 640, 639, 638, 619, 618, 615, 614, 612, 611, 607, 606, 594, 593, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 687, 667/1, 668, 642, 641, 637, 608, 605, 604, 592, 685, 686, 739, 667/2, |
| दमोह | दमोह | बम्हौरी गुन्जी | 24, 23, 22, 21, 20/1, 20/2, 18, 15, 15/2, 15/1, 10/1, 11/2, 9, 169, 170, 308, 309., 310/1, 313, 314, 27/1, 29, 30/1, 24, 31/2, 178, 32, 38, 39, 40, 318, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 314, 315, 297, 296, 295, 294, 287, 292, 288/1, 19/2, 16, 17, 304/2, 40, 299, 333, | 24, 23, 22, 21, 20/1, 20/2, 18, 15, 15/2, 15/1, 10/1, 11/2, 9, 169, 170, 308, 309., 310/1, 313, 314, 27/1, 29, 30/1, 24, 31/2, 178, 32, 38, 39, 40, 318, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 314, 315, 297, 296, 295, 294, 287, 292, 288/1, 19/2, 16, 17, 304/2, 40, 299, 333, |
| दमोह | दमोह | बिलतरा सड़क | 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 7, 23, 24, 35/3, 35/4, 35/1, 35/2, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 76, 98, 103, 102, 121, 122, 123, 125, 119, 126, 128, 144, 147, 152, 149, 153, 156, 157, 158, 159/2, 159/1, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 132, 131, 133, 135, 136, 140, 139, 141, 142, 143, 144, 149, 152, 153, 156, 157, 158, 159/2, 159/1, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 132, 131, 133, 135, 136, 140, 139, 141, 142, 143, 168, 40, 42/2, 97, 95, 119, 188, 144, 149, 152, 153, 156, 157, 129, 128, 26, 125, 123, 122, 121, 102, 103, 110, 118, 110, 103, 126, 21, 22/1, 54, 53, 50, 49, 94, 97, 5, 134, 137, 145, 154, 155, 118, 168, | 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 27, 23, 24, 35/3, 35/4, 35/1, 35/2, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 76, 98, 103, 102, 121, 122, 123, 125, 119, 126, 128, 144, 147, 152, 149, 153, 156, 157, 158, 159/2, 159/1, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 132, 131, 133, 135, 136, 140, 139, 141, 142, 143, 168, 40, 42/2, 97, 95, 119, 188, 144, 149, 152, 153, 156, 157, 129, 128, 26, 125, 123, 122, 121, 102, 103, 110, 118, 110, 103, 126, 21, 22/1, 54, 53, 50, 49, 94, 97, 5, 134, 137, 145, 154, 155, 118, 168, |
| दमोह | दमोह | हिनौती गिंजाई | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19/2, 16/1, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19/2, 16/1, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6, 2/1, 2/2, 31, 30, 20, 21, 22, 54. |
| दमोह | दमोह | हरदवानी खुर्द | 11, 12, 13, 14, 15, 36, 35, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 58, 57, 126, 123, 121, 120, 118, 119, 108, 106, 105, 104, 66, 65, 63, 31, 33, 32, 46, 116, 67, 68, 69, 64, 61, 60 | 11, 12, 13, 14, 15, 36, 35, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 58, 57, 126, 123, 121, 120, 118, 119, 108, 106, 105, 104, 66, 65, 63, 31, 33, 32, 46, 116, 67, 68, 69, 64, 61, 60 |
| दमोह | दमोह | घाटपिपरिया | 280, 281, 294, 295, 296, 297, 298, 145, 147, 148, 174, 175, 176, 177, 190, 193/1, 194/1, 194/2, 194/3, 197/2, 197/3, 198, 226, 227, 228, 236, 303, 304, 305, 306/2, 307, 308, | 280, 281, 294, 295, 296, 297, 298, 145, 147, 148, 174, 175, 176, 177, 190, 193/1, 194/1, 194/2, 194/3, 197/2, 197/3, 198, 226, 227, 228, 236, 303, 304, 305, 306/2, 307, 308, 311, 310, 312, 314, 315, 316, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|-------|--------|-----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 311, 310, 312, 314, 315, 316, 316, 317, 318, 319, 320, 325/4, 321, 354, 397, 394, 409, 411, 414, 392, 237, 265, 269-72, 267, 275, 273/1, 274, | 316, 317, 318, 319, 320, 325, 350, 146, 178, 192, 20/2, 225, 229/1, 229/2, 313, 344, 342 |
| दमोह | पटेरा | घुघरी | 56, 70, 73 | 71, 56, 70, 73 |
| दमोह | दमोह | सुरखी | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 21, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 38, 39 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 21, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 38, 39 |
| दमोह | पटेरा | पड़री | 59, 57, 55, 54, 56, 68, 69, 70, 72/9, 72/4, 72/5, 72/7, 53, 9, 11, 12, 13, 14, 8, 23, 24, 31/1, 31/2, 31/3, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 52, 31/3, 32/2, 32/1, 34/1, 35, 36, 37, 38/4, 38/5, 39/3, 58, 10, 6, 7, 22, 25, 86, 82, 83, 38/2, 38/1, | 59, 57, 55, 54, 56, 68, 69, 70, 72/9, 72/4, 72/5, 72/7, 53, 9, 11, 12, 13, 14, 8, 23, 24, 31/1, 31/2, 31/3, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 52, 31/3, 32/2, 32/1, 34/1, 35, 36, 37, 38/4, 38/5, 39/3, 58, 10, 6, 7, 22, 25, 86, 82, 83, 38/2, 38/1, |
| दमोह | पटेरा | गाता | 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 91, 89/2, 89/1, 81, 88, 78/2, 78/1, 76, 51, 51/2, 49, 4, 5, 6, 8, 7, 10/1, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20/2, 20, 86, 75/1, 52, 10/3, 16, 18, 25/1, 24, 22, 28, 29 | 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 91, 89/2, 89/1, 81, 88, 78/2, 78/1, 76, 51, 51/2, 49, 4, 5, 6, 8, 7, 10/1, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20/2, 20, 86, 75/1, 52, 10/3, 16, 18, 25/1, 24, 22, 28, 29 |
| दमोह | पटेरा | चीलधाट | 378, 379, 380, 381/1, 382, 405, | 378, 379, 380, 381/1, 382, 405, 377 |
| दमोह | दमोह | कुम्हारी | 529, 530, 515, 514, 513, 512, 511, 510, 509, 478, 476/3, 476/2, 473/2, 475, 474, 434, 437, 433, 432, 438, 532, 533, 561/1, 561/2, 562, 563, 564, 626, 628, 629, 630, 632, 646, 647, 651, 652, 653, 654, 655, 732, 881, 882, 880, 884, 899, 901/1, 900, 902, 916, 917, 918/1, 1103, 1104, 1105, 1095, 749, 751, 768, 770, 771, 778, 778, 777, 779, 780, 879, 878, 875, 873, 1112, 1113/18/1, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1072, 1071, 107, 1068, 1046, 1044, 1043/873, 1112, 1113, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1049, 1048, 477, 476/1, 645, 648, 769, 1103, 1104, 1095, 1073, 1130, | 529, 530, 515, 514, 513, 512, 511, 510, 509, 478, 476/3, 476/2, 473/2, 475, 474, 434, 437, 433, 432, 438, 532, 533, 561/1, 561/2, 562, 563, 564, 626, 628, 629, 630, 632, 646, 647, 651, 652, 653, 654, 655, 732, 528, 525, 524, 523, 516, 517, 518, 519, 504, 508, 480, 479, 477, 476/1, 568, 565, 625, 624, 633, 645, 648, 665, 663, 658, 729, 881, 882, 880, 884, 899, 901/1, 900, 902, 916, 917, 918/1, 1103, 1104, 1105, 1095, 749, 751, 768, 770, 771, 777, 779, 780, 879, 878, 875, 873, 1112, 1113, 354, 886/1, 885, 891, 887, 9894, 1102, 749, 767, 794, 792, 788, 787, 782, 874, 871, 872, 1115, 918/1, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1072, 1071, 107, 1068, 1046, 1044, 1043, 873, 1112, 1113, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1049, 1048, 1102, 1104, 1094, 872, 1115, 1121, 1135, 1133, 1132, 1131, 1130, 1050, 1048, 505, 471, 472, 473, 441, 440, 438, 644, 649, 655, 904, 1102, 767, |
| दमोह | पटेरा | गुदरी | 101, 95, 96, 97, 98, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 131, 132, 130, 129, 128, 127, 126, 109, 110, 111, 112, 72, 49, 48, 47, 272, 273, 274, 114, 123, 115, 124, 126, 127, 47, 276, 277, 343, 350, 349, 348, 344 | 101, 95, 96, 97, 98, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 131, 132, 130, 129, 128, 127, 126, 107, 205, 204, 109, 110, 111, 112, 72, 49, 48, 47, 272, 273, 274, 114, 123, 115, 124, 126, 127, 125, 47, 276, 277, 343, 350, 349, 348, 344, 278, 348, 351, 345, 352, 57 |
| पन्ना | रैपुरा | कुआँखेड़ा | 51/2, 52/2, 52/1, 51/1, 55, 56/1, 57, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 297, 298.299, | 51/2, 52/2, 52/1, 51/1, 55, 56/1, 57, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 297, 298.299, 300, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|-------|--------|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 300, 316, 296, 294, 283, 282, 284, 280, 261/2, 261/1, 316, 321, 322, 326, 327, 328, 329, 330, 332/3, 332/1, 259, 250, 257, 256, 223, 253, 216, 198, 197, 196, 195, 152, 153, 150, 151, 149, 154, 155, 148, 141, 143, 144, 50, 54, 83, 92, 91, 94, 90, 98, 139, 138, 99, 280, 281, 288, 289, 290, 291, 293, 295, 296, 302, 315, 316, 325, 328, 332/2, 142, 137, 132, 145, 157, 155, 156, 160, 161, 194, 203, 201, 199, 200 | 316, 296, 294, 283, 282, 284, 280, 261/2, 261/1, 316, 321, 322, 326, 327, 328, 329, 330, 332/3, 332/1, 259, 250, 257, 256, 223, 253, 216, 198, 197, 196, 195, 152, 153, 150, 151, 149, 154, 155, 148, 141, 143, 144, 50, 54, 83, 92, 91, 94, 90, 98, 139, 138, 99, 280, 281, 288, 289, 290, 291, 293, 295, 296, 302, 315, 316, 325, 328, 332/2, 142, 137, 132, 145, 157, 155, 156, 160, 161, 194, 203, 201, 199, 200 |
| पन्ना | रैपुरा | खुसरा | 694, 695, 692, 691, 690, 696, 688, 689, 698, 697, 699, 700, 701, 704, 705, 710, 705, 710, 702, 754, 755, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 770, 763, 764, 785, 786, 787, 799, 798, 800, 802, 803, 805, 806, 807, 817, 814, 813, 821, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 824, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 839, 841, 840, 843, 693, 683, 687, 712, 711, 713, 709, 706, 707, 708, 723, 752, 753, 751, 757, 758, 744, 771, 772, 768, 765, 767, 766, 797, 801, 804, 807, 813, 821, 911, 912, 913, 910, 874, 873, 870, 871, 868, 846, 774, 782, 789, 770, 710, | 694, 695, 692, 691, 690, 696, 688, 689, 698, 697, 699, 700, 701, 704, 705, 710, 702, 754, 755, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 770, 763, 764, 785, 786, 787, 799, 798, 800, 802, 803, 805, 806, 807, 817, 814, 813, 821, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 824, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 839, 841, 840, 843, 693, 683, 687, 712, 711, 713, 709, 706, 707, 708, 723, 752, 753, 751, 757, 758, 744, 771, 772, 768, 765, 767, 766, 797, 801, 804, 807, 813, 821, 911, 912, 913, 910, 874, 873, 870, 871, 868, 846, 774, 782, 789, 770, 710, |
| पन्ना | रैपुरा | भरवारा | 240, 238, 235, 243, 247, 248, 249, 250/1, 251, 253, 254, 256, 230, 387/2, 255, 260, 262, 347, 346/4, 353, 638, 349, 639, 641, 642, 644, 651, 654, 655, 666, 669, 668, 678, 667, 680, 679, 680/2, 871, 869, 868, 346, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 712, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 697, 698, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 686, 687/2, 682, 683, 824, 822, 829, 830, 832, 829, 830, 832, 342, 334, 331, 701/1, 797, 816, | 240, 238, 235, 243, 247, 248, 249, 250/1, 251, 253, 254, 256, 230, 387/2, 255, 260, 262, 347, 346/4, 353, 638, 349, 639, 641, 642, 644, 651, 654, 655, 666, 669, 668, 678, 667, 680, 679, 680/2, 871, 869, 868, 346, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 712, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 697, 698, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 686, 687/2, 682, 683, 824, 822, 829, 830, 832, 246, 250/1, 637, 645, 646, 648, 657, 670, 675, 677, 679, 879, 642, 334, 333, 713/2, 714, 698, 699, 767, 769, 695, 770, 778, 779, 684, 822, 832, 713/1-2, 237, 800, 817, 815, 819, 799, |
| पन्ना | रैपुरा | रैपुरा | 4286, 4287, 4288, 4355, 4358, 4359, 4387, 4284, 4281, 4280, 4243, 4242, 4243, 4242, 4238, 4237, 4236, 4230, 4289, 4352, 4230, 4366, 4386, 4385, 4421, 4422, 4571, 4576, 4999, 5008, 5009, 4992, 4991, 4992, 4991, 4990, 4989, 4988, 4901, 4899, 4897, 4869, 4898, 4856, 4864, 5682, 5686, 5687, 5690, 5692, 56934747, 4811, 4815, 4816, 4847, 4850, 4852, 5769, 5768, 5765, 5763, 5752, 5761, 5693, 5694, 5695, 5708, 5709, 5711, 5696, 5725, 5726, 5727, 5741, 5742, | 4286, 4287, 4288, 4355, 4358, 4359, 4387, 4284, 4281, 4280, 4243, 4242, 4238, 4237, 4236, 4230, 4289, 4352, 4369, 4368, 4282, 4247, 3985, 4281, 4248, 4249, 4253, 4230, 4366, 4386, 4385, 4421, 4422, 4571, 4576, 4999, 5008, 5009, 4992, 4991, 4368, 4384, 4391, 4417, 4423, 4572, 4575, 5016, 5010, 5011, 4982, 4237, 4161, 4581, 4725, 4727, 4741, 4745, 4992, 4991, 4992, 4991, 4990, 4989, 4988, 4901, 4899, 4897, 4869, 4898, 4856, 4864, 5682, 5686, 5687, 5690, 5692, 5693, 4747, 4811, 4815, 4816, 4847, 4850, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 5751, 5761, 5759, 5757, 5755, 5756, 5800, 5803, 5804, 5810, 4357 | 4852, 5769, 5768, 5765, 5763, 5752, 5761, 4695, 4984, 4982, 4984, 4980, 4903, 4905, 4895, 4861, 4863, 5685, 5688, 5691, 5607, 5666, 4741, 4746, 4745, 4754, 4787, 4809, 4818, 4817, 4845, 4843, 4842, 5774, 5771, 5782, 5783, 5786, 5693, 5694, 5695, 5708, 5709, 5711, 5696, 5725, 5726, 5727, 5741, 5742, 5751, 5761, 5759, 5757, 5755, 5756, 5800, 5803, 5804, 5810, 5666, 5697, 5696, 5707, 5710, 5712, 5706, 5722, 5724, 5729, 5728, 5740, 5743, 5810, 5804, 4353, 4354, 4370, 436, 4391, 4317, |
| कटनी | कटनी | मझगवां | 1, 2, 137, 136, 133, 132/2, 126, 124, 125, 123/2, 123/1, 122, 138, 139, 140, 141/2, 142, 334, 335, 338, 339, 123/2, 123/1, 122, 121/1, 108, 113, 101, 98, 99, 84, 85, 81, 82, 83, 66, 68, 65, 64, 340, 345, 346, 344, 348, 351, 443, 61/1, 61/2, 58/2, 57/1, 55, 50/1, 50/6, 50/5, 50/3, 50/4, 445/1-2, 457, 459/1, 462, 463, 464, 466, 474, 57/1, 50/1, 50/6, 50/5, 50/3, 50/4, 49, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 336 | 1, 2, 137, 136, 133, 132/2, 126, 124, 125, 123/2, 123/1, 122, 138, 139, 140, 141/2, 142, 334, 335, 338, 339, 123/2, 123/1, 122, 121/1, 108, 113, 101, 98, 99, 84, 85, 81, 82, 83, 66, 68, 65, 64, 340, 345, 346, 344, 348, 351, 443, 61/1, 61/2, 58/2, 57/1, 55, 50/1, 50/6, 50/5, 50/3, 50/4, 445/1-2, 457, 459/1, 462, 463, 464, 466, 474, 57/1, 50/1, 50/6, 50/5, 50/3, 50/4, 49, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 135, 144, 145/1, 146/1, 143, 153, 155, 331, 337, 336, 102, 96, 80, 79, 70, 71, 72, 329, 343, 350, 60/2, 56/1, 56/2, 449, 450, 456, 476, 474, 473, 476, 474, 473, 470, 469, |
| कटनी | कटनी | चनहटी | 26, 27, 29, 24, 30, 31, 32, 33, 7, 218, 219, 221, 222, 199, 223, 224, 230, 231, 236, 237, 238, 239, 240, 224, 225, 226, 167, 169, 165, 164, 242, 254, 255, 256, 269, 270, 271, | 26, 27, 29, 24, 30, 31, 32, 33, 7, 218, 219, 221, 222, 199, 223, 224, 230, 231, 236, 237, 238, 239, 240, 224, 225, 226, 167, 169, 165, 164, 242, 254, 255, 256, 269, 270, 271, 28, 25, 23, 22, 34, 228, 217, 200, 197, 173, 174, 175, 170, 163, 246, 247, 248, 252, 256, 268, 272, 258 |
| कटनी | कटनी | देवडोगरा | 23, 24, 25, 16, 15, 158, 35, 34, 33, 26, 29, 31, 30, 156, 28, 27, 157, 155, 210, 209, 198, 14, 195, 194, 193, 208, 200/1, 200/2, 236, 237, 243, 245, 246, 275, 192 | 23, 24, 25, 16, 15, 158, 35, 34, 33, 26, 29, 31, 30, 156, 28, 27, 157, 155, 210, 209, 198, 14, 195, 194, 193, 208, 200/1, 200/2, 236, 237, 243, 245, 246, 275, 192, 21, 20, 18, 31, 38/2, 38/3, 211, 206, 207/1, 244, 247, 168, 169, 170, 191/3, 191/6, 191/7, |
| कटनी | कटनी | कूड़ो | 2, 7, 8/1, 10, 11, 13, 14, 15, 142, 143, 139, 135, 131, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 205, 215, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 181, 80, 228, 134 | 2, 7, 3, 8/1, 10, 11, 13, 14, 15, 142, 143, 139, 135, 131, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 205, 215, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 181, 80, 228, 3, 138, 120, 152, 203, 204, 206, 227, 223, 231, 229, 230, 79, 82, 134 |
| कटनी | कटनी | हरदुआ | 332, 333, 334, 335, 336, 337, 348, 352, 353, 355, 441, 446, 447, 448, 451, 554, 555, 556, 555, 654, 657, 658, 659, 686, 687, 688, 713, 712, 715, 716, 717, 719, 720, 716, 717, 719, 720, 721, 718, 723, | 332, 333, 334, 335, 336, 337, 348, 352, 353, 355, 441, 446, 447, 448, 451, 554, 556, 555, 654, 657, 658, 659, 686, 687, 688, 713, 712, 715, 716, 717, 719, 720, 721, 718, 723, 724, 725, 726, 652, 648, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|-------------------|---|---|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| | | | 724, 725, 726, 652, 648, 647, 630, 629, 628, 627, 626, 624, 625, 622, 619, 617, 559, 568, 570, 572, 573, 6574, 576, 657, | 647, 630, 629, 628, 627, 626, 624, 625, 622, 619, 617, 559, 568, 570, 572, 573, 6574, 576, 331, 328, 339, 338, 360, 434, 440, 453, 452, 456, 689, 690, 560, 569, 575, 651, 646, 641, 634, 621, 553, |
| कटनी | कटनी | रामपुर (वीराज) | 142, 143, 124, 122, 123, 121, 117, 116, 115, 113, 148, 149, 147, 145, 146, 163, 164, 165, 168, 176, 177, 178, 179, 184, 186, 189, 191, 192, 141, 140, 74, 129, 130, 91, 125, 128, 127, 120, 119, 92, , 104, 107, 11, 112, 150, 151, 152, 162, 167, 175, 180, 187, 183, 193, 191, 194, 195, 162, 168, 188, | 142, 143, 124, 122, 123, 121, 117, 116, 115, 113, 148, 149, 147, 145, 146, 163, 164, 165, 168, 176, 177, 178, 179, 184, 186, 189, 191, 192, 141, 140, 74, 129, 130, 91, 125, 128, 127, 120, 119, 92, , 104, 107, 11, 112, 150, 151, 152, 162, 167, 175, 180, 187, 183, 193, 191, 194, 195, 162, 168, 188, |
| कटनी | कटनी | पटेहरा | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 52, 328, 324, 328, 311, 310, 325, 309, 314, 314, 306, 296, 294, 295, 292, 331, 334, 335, 336, 369, 372, 374, 382, 375, 434, 435, 330, 437, 440, 455, 456, 460, 476, 477, 478, 494, 490, 480, 482, 483, 484, 485, 488, 487, 33, 34, 35, 38, 45, 49, 53, 54, 323, 318, 305, 297, 284, 333, 343, 342, 338, 340, 370, 373, 383, 432, 456, 457, 458, 500, 499, 489, 487, 486, 491, 281, 291, 289, 288, 285, 271, 272, 493, | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 52, 328, 324, 328, 311, 310, 325, 309, 314, 306, 296, 294, 295, 292, 331, 334, 335, 336, 369, 372, 374, 382, 375, 434, 435, 330, 437, 440, 455, 456, 460, 476, 479, 292, 290, 287, 286, 268, 266, 270, 269, 476, 477, 478, 494, 490, 480, 482, 483, 484, 485, 488, 487, 33, 34, 35, 38, 45, 49, 53, 54, 323, 318, 305, 297, 284, 333, 343, 342, 338, 340, 370, 373, 383, 432, 456, 457, 458, 500, 499, 489, 487, 486, 491, 281, 291, 289, 288, 285, 271, 272, 493, |
| कटनी | रीठी | देवगाँव | 223, 3, 39, 40, 46, 48, 50, 51, 53, 191, 52, 56, 59, 68, 67, 74, 71, 73, 117, 75, 116, 119, 121, 112, 122, 222, 221, 219, 225, 217, 214, 216, 215, 213, 200, 198, 192, 193, 195, 774, 773, 779, 778, 777, 783, 782, 128, 130, 131, 136, 138, 144, 181, 147, 182, 189, 190, 784, 785, 786, 886, 887, 885, 876, 891, 888, 890, 896, 897, 903, 964, 965, 968, 969, 987, 986, 4, 41, 42, 43, 38, 61, 63, 65, 77, 81, 82, 86, 111, 224, 229, 231, 195, 196, 293, 769, 767, 768, 781, 111, 132, 141, 180, 183, 787, 884, 880, 879, 877, 875, 874, 893, 905, 962, 971, 974, 975, 984, 985, 988, 781, 904, 779, | 223, 3, 39, 40, 46, 48, 50, 51, 53, 191, 52, 56, 59, 68, 67, 74, 71, 73, 117, 75, 116, 119, 121, 112, 122, 222, 221, 219, 225, 217, 214, 216, 215, 213, 200, 198, 192, 193, 195, 774, 773, 779, 778, 777, 783, 782, 128, 130, 131, 136, 138, 144, 181, 147, 182, 189, 190, 784, 785, 786, 886, 887, 885, 876, 891, 888, 890, 896, 897, 903, 964, 965, 968, 969, 987, 986, 4, 41, 42, 43, 38, 61, 63, 65, 77, 81, 82, 86, 111, 224, 229, 231, 195, 196, 293, 769, 767, 768, 781, 111, 132, 141, 180, 183, 787, 884, 880, 879, 877, 875, 874, 893, 905, 962, 971, 974, 975, 984, 985, 988, 781, 904, 779, |
| कटनी | रीठी | मङ्गादेवरी | 449,447 | 449,447 |
| कटनी | रीठी | जमुनिया | 792, 791, 788, 785, 784, 772, 770, 769, 761, 747, 795, 798, 799, 800, 801, 802, 848, 849, 850, 858, 854, 855, 856, 857, 858, 746, 747, 734, 725, 724, 723, 709, 706, 707, 695, 867, 866, 868, 877, 878, 876, 880, 881, 786, | 792, 791, 788, 785, 784, 772, 770, 769, 761, 747, 795, 798, 799, 800, 801, 802, 848, 849, 850, 858, 854, 855, 856, 857, 858, 746, 747, 734, 725, 724, 723, 709, 706, 707, 695, 867, 866, 868, 877, 878, 876, 880, 881, 786, 771, 814, 813, 812, 852, 859, 726, 727, 722, 705, 694, 859, |
| कटनी | रीठी | चिखला | 16, 20, 18, 19, 17, 22, 26, 27, 30, 34, 21, 39, | 16, 20, 18, 19, 17, 22, 26, 27, 30, 28, 28, 34, 21, 39, 25, 32, 33, 31, 38, 40, |
| कटनी | रीठी | पटौन्हा | 234/922, 231, 233, 234, 235, 236, | 234/922, 231, 233, 234, 235, 236, 237, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|-----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 237, 238, 239, 240, 232, 244, 245, 247, 252, 254, 258, 268, 270, 271, 279, 232, 804, 288, 270, 271, 279, 804, 803, 808, 810, 801, 803, 800, 799, 796, 795, 794, 793, 799, 796, 795, 794, 793, 251, | 238, 239, 240, 232, 244, 245, 247, 252, 254, 258, 268, 270, 271, 279, 232, 804, 288, 270, 271, 279, 804, 803, 808, 810, 801, 803, 800, 799, 796, 795, 794, 793, 154, 155, 171, 173, 189, 190, 191, 230, 229, 281, 657, 241, 853, 852, 242, 243, 251, 259, 281, 282, 283, 329, 330, 331, 336, 342, 343, 785, 786, 788, 789, 288, 266, 267, 272, 277, 817, 798, 794, |
| कटनी | रीठी | देवरीकलौं | 328, 327, 329, 344, 347, 353, 352, 380, 540, 539, 541, 542, 543, 538, 546, 547, 548, 549, 549, 550, 551, 552, 554, 553, 658, 657, 356, 360, 359, 357, 375, 374, 378, 377, 376, 378, 379, 494, 516, 518, 517, 519, 524, 525, 528, 527, 529, 532, 533, 560, 559, 536, 556, 656, 980, 979, 981, 976, 975, 973, 660, 982, 984, 985, 981, 534, 988, 989, 332, 331, 330, 348, 382, 659, 359, 361, 365, 358, 374, 373, 377, 372, 514, 520, 526, 530, 563, 561, 558, 557, 655, 996, 997, 995, 994, 993, 991, 339, 990, | 328, 327, 329, 344, 347, 353, 352, 380, 540, 539, 541, 542, 543, 538, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 658, 657, 356, 360, 359, 357, 375, 374, 378, 377, 376, 378, 379, 494, 516, 518, 517, 519, 524, 525, 528, 527, 529, 532, 533, 560, 559, 536, 556, 656, 980, 979, 981, 976, 975, 973, 660, 982, 984, 985, 981, 534, 988, 989, 332, 331, 330, 348, 382, 659, 359, 361, 365, 358, 374, 373, 377, 372, 514, 520, 526, 530, 563, 561, 558, 557, 655, 996, 997, 995, 994, 993, 991, 339, 990, |
| कटनी | रीठी | हरद्वारा | 637, 638, 636, 635, 648, 647, 649, 651, 652, 1236, 1231, 1210, 1209, 1207, 1240, 1242, 1245, 1271, 1322, 1321, 1323, 1324, 1334, 1333, 1336, 1335, 1338, 1339, 1238, 1369, 1196, 1195, 1188, 1187, 1183, 1182, 1180, 1178, 1175, 1173, 1172, 1171, 1169, 1168, 1238, 1371, 1382, 1383, 1391, 1413, 1414, | 637, 638, 636, 635, 648, 647, 649, 651, 652, 1236, 1231, 1210, 1209, 1207, 1240, 1242, 1245, 1271, 1322, 1321, 1323, 1324, 1325, 1334, 1333, 1336, 1335, 1337, 1338, 1339, 1238, 1369, 1196, 1195, 1188, 1187, 1183, 1182, 1180, 1178, 1175, 1173, 1172, 1171, 1169, 1168, 1238, 1371, 1382, 1383, 1391, 1409, 1410, 1413, 1414, 631, 632, 633, 639, 640, 642, 647, 645, 1236, 1232, 1230, 1211, 1244, 1245, 1246, 1274, 1320, 1321, 1318, 1331, 1332, 1347, 1335, 1346, 1340, 1196, 1194, 1189, 1186, 1181, 1174, 1165, 1167, 1374, 1381, 1380, 1384, 1395, 1415, 1414, |
| कटनी | रीठी | झारखेड़ा | 416, 415, 413, 414, 411, 412, 410, 409, 425, 487, 488, 489, 497, 496, 499, 422, 421, 423, 526, 530, 525, 523, 519, 518, 517, 516, 515, 513, 512, 506, 505, 504, 502, 501, 407, 408, 428, 426, 486, 490, 493, 499, 420, 521, 520, 510, 514, 511, 507, 508, 562, 561, 563, 567, | 416, 415, 413, 414, 411, 412, 410, 409, 425, 487, 488, 489, 497, 496, 499, 422, 421, 423, 526, 530, 525, 523, 519, 518, 517, 516, 515, 513, 512, 506, 505, 504, 502, 501, 407, 408, 428, 426, 486, 490, 493, 499, 420, 521, 520, 510, 514, 511, 507, 508, 562, 561, 563, 567, |
| कटनी | रीठी | कछारगांव | 2, 3, 12, 11, 10, 9, 24, 29, 31, 30, 4, 5, 7, 6, 8, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 33, 40, 41, 33/1, 43, 128, 129, 130, 131, 138, 140, 139, 25, 28, 36, 35, 137 | 2, 3, 12, 11, 10, 9, 24, 29, 31, 30, 4, 5, 7, 6, 8, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 33, 40, 41, 33/1, 43, 128, 129, 130, 131, 138, 140, 139, 25, 28, 36, 35, 137 |
| कटनी | रीठी | अहिरगांव | 2/2, 2/1, 3, 4/1, 3, 4/2, 4/4, 4/3, 4/5, 8, 9, 10, 13, 19/1, 25, 19/2, 27, 34, 35, 52, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 53, 60, 59, 65, 66/1, 66/2, 67, | 2/2, 2/1, 3, 26, 4/1, 3, 4/2, 4/4, 4/3, 4/5, 8, 9, 10, 13, 19/1, 26, 25, 19/2, 27, 34, 35, 52, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 53, 60, 59, 65, 66/1, 66/2, 67, 7, 5, 9, 12, 48, 49, 50/1, |

| जिला | तहसील | ग्राम | मवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| कटनी | रीठी | ममार | 1, 6, 7, 9, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 505, 498, 484, 509, 13, 14, 12, 15, 11, 561, 459, 460, 466, 465, 462, 463, 511, 482, 510, 5, 4, 498, 494, 503, 16, 17, 20, 467, 465, 475, 479, 480, 20. | 1, 6, 7, 9, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 505, 498, 484, 509, 13, 14, 12, 15, 11, 561, 459, 460, 466, 465, 462, 463, 511, 482, 510, 5, 4, 498, 494, 503, 16, 17, 20, 467, 465, 475, 479, 480, 20. |
| कटनी | रीठी | रीठी | 762, 763, 764, 765, 739, 738/1, 737, 736, 724, 719, 716, 717, 718, 707, 703, 697, 700, 696, 770, 773, 774, 802, 803/1, 803/3, 804/2, 508, 806/1, 806/2, 817, 844, 848, 697, 700, 610, 605, 599, 598, 593, 594, 590, 589, 578, 576, 574, 572, 857, 969, 985, 984, 985, 1039, 1043, 1044, 1045, 1126, 1047804/1, 805, 579, 1049, 761, 767, 740/1, 740/3, 735, 725, 722, 721, 723, 720, 715, 710, 709, 705, 708, 691, 694, 982, 650, 689, 687, 843, 686, 779, 778, 777, 808, 807, 843, 865, 691, 964, 692, 62, 624, 621, 620, 619, 610, 580, 588, 575, 574, 865, 1094, 877, 980, 981, 1038, 1035/1, 1134, 1046, | 762, 763, 764, 765, 739, 738/1, 737, 736, 724, 719, 716, 717, 718, 707, 703, 697, 700, 696, 770, 773, 774, 802, 803/1, 803/3, 804/2, 508, 806/1, 806/2, 817, 844, 848, 697, 700, 610, 605, 599, 598, 593, 594, 590, 589, 578, 576, 574, 572, 857, 969, 985, 984, 985, 1039, 1043, 1044, 1045, 1126, 1047804/1, 805, 579, 1049, 761, 767, 740/1, 740/3, 735, 725, 722, 721, 723, 720, 715, 710, 709, 705, 708, 691, 694, 982, 650, 689, 687, 843, 686, 779, 778, 777, 808, 807, 843, 865, 691, 964, 692, 62, 624, 621, 620, 619, 610, 580, 588, 575, 574, 865, 1094, 877, 980, 981, 1038, 1035/1, 1134, 1046, |
| कटनी | रीठी | बरहटा | 62, 63, 64, 65, 66, 69, 72, 73, 74, 79, 85/2, 85/1, 84/1, 87, 86, 88, 105, 107, 108, 109, 104, 152, 153, 151, 155, 156, 150, 149, 148/1, 146/1, 144, 143/1, 138, 122, 121, 110, 83 | 62, 63, 64, 65, 66, 69, 72, 73, 74, 79, 85/2, 85/1, 84/1, 87, 86, 88, 105, 107, 108, 109, 104, 152, 153, 151, 155, 156, 150, 149, 148/1, 146/1, 144, 143/1, 138, 122, 121, 110, 60, 68, 70/1, 80, 83, 89, 146/2, 137, |
| कटनी | रीठी | उमरिया | 6, 4, 5, 7, 16, 15, 17, 18, 19, 9, 8, 10, 11, 12, 14, 13, 29, 27, 28, 26, 20, 150, 151, 154, 153, 155, 156, 157, 158, 162, 161, 250/1024, 158, 161, 162, 164, 192, 191, 189, 189, 191, 529, 148, 149, 247, 246, 248, 249, 250, 251, 232, 231, 193, 196, 194, 621, 528, 620, 572, 573, 580, 581, 583, 585, 586, 587, 588, 610, 611, 612, 606, 621, 620, 619, 616, 615, 615, 654, 660, 656, 657, 697, 698, 699, 25, 26, 155, 173, 163, 165, 167, 147, 143, 257, 230, 195, 622, 623, 574, 579, 584, 589, 609, 623, 618, 617, 626, 661, 658, 662, 607, 575, | 6, 4, 5, 7, 16, 15, 17, 18, 19, 9, 8, 10, 11, 12, 14, 13, 29, 27, 28, 26, 20, 150, 151, 154, 153, 155, 156, 157, 158, 162, 161, 250/1024, 158, 161, 162, 164, 192, 191, 189, 191, 529, 148, 149, 247, 246, 248, 249, 250, 251, 232, 231, 193, 196, 194, 621, 528, 620, 572, 573, 580, 581, 583, 585, 586, 587, 588, 610, 611, 612, 606, 621, 620, 619, 616, 615, 615, 654, 660, 656, 657, 697, 698, 699, 25, 26, 155, 173, 163, 165, 167, 147, 143, 257, 230, 195, 622, 623, 574, 579, 584, 589, 609, 623, 618, 617, 626, 661, 658, 662, 607, 575, |
| कटनी | रीठी | मोहास | 3, 2, 4, 5, 7, 11, 25, 24, 36, 95, 96, 125, 124, 6, 127, 128, 129, 132, 131, 95, 96, 97, 123, 98, 99, 120, 121, 118, 133, 137, 136, 142, 141, 143, 144, 820, 821, 823, 145, | 3, 2, 4, 5, 7, 11, 25, 24, 36, 95, 96, 125, 124, 6, 127, 128, 129, 132, 131, 95, 96, 97, 123, 98, 99, 120, 121, 118, 133, 137, 136, 142, 141, 143, 144, 820, 821, 823, 10, 38, 40, 119, 140, 806, 816/1, 816, /2 , 145 |
| कटनी | रीठी | घौरसी (वीरान) | 24, 23, 53, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 7, 6, 5, 4, 3, 36, 35, 37, 34, 38, 32, 31, 30, 25, 29, 27, 28, 26, 46, 20, 8, 9, 39, | 24, 23, 53, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 7, 6, 5, 4, 3, 36, 35, 37, 34, 38, 32, 31, 30, 25, 29, 27, 28, 26, 46, 20, 8, 9, 39, |
| कटनी | रीठी | भरतपुर | 201, 202, 212, 213, 214, 216, 223, 669, 664, 663, 662, 661, 660, 659, 658, 645, 641, 642, 643, 294, 291, 292, 290, 288, | 201, 202, 212, 213, 214, 216, 223, 669, 664, 663, 662, 661, 660, 659, 658, 645, 641, 642, 643, 294, 291, 292, 290, 288, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|-----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 290, 288, 289, 286, 287, 283, 282, 280, 277, 276, 279, 278, 275, 225, 226, 273, 227, 230, 231, 238, 234, 235, 620, 599, 637, 638, 643, 1030, 1035, 1033, 1032, 1110, 1112, 1113, 1118, 1117, 638, 637, 1113, 1118, 1117, 638, 637, 1195, 1212, 1139, 1141, 1136, 1137, 1212, 1139, 1141, 1136, 1137, 1134, 1135, 1119, 1121, 293, 194, 211, 293, 1116, 211, 210, | 289, 286, 287, 283, 282, 280, 277, 276, 279, 278, 275, 225, 226, 273, 227, 230, 231, 238, 234, 235, 616, 619, 620, 599, 637, 638, 643, 1030, 1035, 1033, 1032, 1110, 1112, 1113, 1118, 1117, 638, 637, 1195, 1212, 1139, 1141, 1136, 1137, 1134, 1135, 1119, 1121, 200, 199, 203, 210, 211, 209, 222, 668, 666, 648, 644, 293, 194, 295, 296, 283, 284, 302, 241, 239, 236, 645, 644, 1035, 1106, 1107, 1108, 1111, 1115, 1086, 1145, 1146, 1144, 1133, 619, 770, 1103, |
| कटनी | रीठी | लाटपहाड़ी | 1, 6, 10, 11, 26, 2, 38, 39, 27, 113, 114, 116, 115, 118, 122, 121, 123, 120, 138, 139, 140, 163, 43, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 96, 97, 98, 168, 170, 171, 195, 196, 194, 197, 222, 223, 224, 225, 226, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 99, 109, 110, 111, 248, 249, 250, 251, 252, 129, 124, 42, 193, | 1, 6, 10, 11, 26, 2, 38, 39, 27, 112, 113, 114, 116, 115, 118, 122, 121, 123, 138, 140, 163, 43, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 96, 97, 98, 168, 170, 171, 195, 196, 194, 197, 222, 223, 224, 225, 226, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 99, 109, 110, 111, 259, 248, 249, 250, 251, 252, 117, 120, 139, 141, 167, 40, 41, 42, 95, 169, 186, 192, 198, 229, 228, 240, 241, 264, 263, 262, 259, 257, 139, 5, 4, 7, 9, 12, 25, 58, 95, 166, 230, |
| कटनी | रीठी | बड़गांव | 3934, 3921, 3922, 3923, 3924, 3920, 3918, 3919, 3917, 3495, 3915, 3911, 3913, 3910, 3500, 3499, 3498, 3497, 3496, 2907, 3987, 3938, 3939, 3940, 3941, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3952, 3954, 3955, 3956, 3482, 3480, 3479, 3446, 3450, 3247, 3246, 3497, 3496, 2907, 2906, 2909, 2910, 2911, 2912, 2914, 2916, 2940, 2942, 2943, 2944, 2936, 3247, 3246, 3244, 3243, 3240/4579, 3241, 3242, 3218, 3219, 3217, 3216, 3215, 3214, 3189, 3188, 3055, 3187, 3178, 3144, 3145, 3113, 3112, 3091, 3090, 3080, 3081, 3078, 3056, 2944, 2944, 2950, 2947, 2952, 2953, 2954, 2955, 2955, 2966, 3019, 3020, 3024, 3025, 3063, 3061, 1489, 1488, 1493, 1490, 1491, 1501, 1502, 1551, 1587, 1567, 1429, 1427, 1425, 1424, 1418, 1488, 1493, 1490, 1491, 1501, 1549, 1553, 1589, 1587, 1567, 1429, 1485, 1428, 1427, 1425, 1424, 1418, 1417, 1397, 1396, 1392, 1387, 1587, 1589, 1592, 1627, 1629, 1630, 1631, 1633, 1634, 1635, 1359, 1358, 1352, 1351, 1348, 1347, 1345, 1346, 1336, 1335, 1299, 1277, 4546, 1278, 1297, 1279, 1280, 1281, 1283, 3925, 3927, 3904, 3905, 3906, 3907, 3506, 3503, 3942, 3943, 3946, 3949, 3953, 3957, 3491, 3450, 3515, 3516, 2904, 2915, 2902, 2917, 2939, 2937, 2938, | 3934, 3921, 3922, 3923, 3924, 3920, 3918, 3919, 3917, 3495, 3915, 3911, 3913, 3910, 3500, 3499, 3498, 3497, 3496, 2907, 3987, 3938, 3939, 3940, 3941, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3952, 3954, 3955, 3956, 3482, 3480, 3479, 3446, 3450, 3247, 3246, 3244, 3243, 3240/4579, 3241, 3242, 3218, 3219, 3217, 3216, 3215, 3214, 3189, 3188, 3055, 3187, 3178, 3144, 3145, 3113, 3112, 3091, 3090, 3080, 3081, 3078, 3056, 1486, 2944, 2950, 2947, 2952, 2953, 2954, 2955, 2955, 2966, 3019, 3020, 3024, 3025, 3063, 3061, 1489, 1488, 1493, 1490, 1491, 1501, 1502, 1551, 1549, 1553, 1589, 1587, 1567, 1429, 1485, 1428, 1427, 1425, 1424, 1418, 1417, 1397, 1396, 1392, 1387, 1359, 1587, 1589, 1592, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1633, 1634, 1635, 1359, 1358, 1352, 1351, 1348, 1347, 1345, 1346, 1336, 1335, 1299, 1277, 4546, 1278, 1297, 1279, 1280, 1281, 1283, 3925, 3927, 3904, 3905, 3906, 3907, 3506, 3503, 3942, 3943, 3946, 3949, 3953, 3957, 3491, 3450, 3515, 3516, 2904, 2915, 2902, 2917, 2939, 2937, 2938, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 1297, 1279, 1280, 1281, 1283, 1344, 4647, 1246, 3240, 3186 | 3253, 3220, 3211, 3190, 3191, 3185, 2931, 21457, 2956, 2961, 2964, 2972, 3021, 3028, 3143, 3114, 3092, 3082, 3059, 1485, 1423, 1393, 1495, 1498, 1590, 1591, 1625, 1349, 1343, 1344, 1298, 1637, 1270, 1344, 4647, 1246, 3240, 3186, 3179, 3076, 2963, 1337 |

II)

"खण्ड-अ"

| अ. क्र. | अधिसूचित मार्ग का नाम | सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में) | राज्यमार्ग में आने वाले जिले |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | बड़ागांव सलैया मार्ग राज्य राजमार्ग-14 | 8.6 | कटनी |

"खण्ड-ब"

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| कटनी | रीठी | बडगाँव | 2950, 3146, 3147, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3055, 3158, 3158/4580, 3159, 3166, 3167, 3168, 3172, 3173, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3183/4580, 3147, 3167, 3177, 3184, 3195, 3196, 3197, 3202, 3203, 3204, 3225, 3227, 3228, 3286, 3325, 3326, 4066, 4067, 4068, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4081, 4082, 4083, 4085, , 4086, 4087, 4119, 4120, 4121, 4123, 4126, 4128, 4130, 4134, | 2950, 3102, 3135, 3136, 3137, 3138, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3055, 3158, 3158/4580, 3159, 3166, 3167, 3168, 3172, 3173, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3183/4580, 3147, 3167, 3177, 3184, 3191, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3227, 3228, 3286, 3323, 3324, 3325, 3326, 3229, 3230, 3231, 3286, 3324, 3944, 4066, 4067, 4068, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, , 4086, 4087, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4126, 4128, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, |
| कटनी | रीठी | अमगवां | 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 444, 445, 454, 455, 456, 476, 477, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 489, 490, 491, 492, 504, 505, 506, 514. | 312, 417, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, , 442, 443, 444, 445, 453, 454, 455, 456, 457, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 489, 490, 491, 492, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 521, 522. |
| कटनी | रीठी | गुरजीकला | 132, 133, 182, 183, 185, 186, 320, 676, 677, 678, 679, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 837, 838, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 853, 854, 855, 914, 916, 917, 918, 1074, 1077, , 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, | 128, 129, 132, 133, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 317, 320, 321, 322, 323, 618, 620, 621, 669, 670, 671, 672, 675, 676, 680, 676, 677, 678, 679, 680, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 837, 838, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|-------|---|--|
| | | | 1086, 1087, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1235, 1266, 1267, 1297, 1298, 1299, 1300, 1311, 1313, 1314, 1315, 1325, 1326, 1328, 1342, 1343, 1344, 1346, 1347, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1370, 1371, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1379, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1448, 1452, 1453, 1454, 1456, 1457, 1458, 1460, 1465, 1466, 1467, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1484, 1485, 1489, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1660, 1661, 1662, 1664, 1666, 1673, 1674, 1677, 1686, 1688, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, | 845, 846, 847, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 870, 871, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 1074, 1077, 1078, , 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1111, 1115, 1235, 1244, 1245, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1306, 1307, 1308, 1301, 1302, 1303, 1310, 1311, 1313, 1314, 1315, 1316, 1323, 1324, 1325, 1326, 1328, 1329, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1346, 1347, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366,.. 1367, 1368, 1370, 1371, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1379, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390, 1402, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1448, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1460, 1465, 1466, 1467, 1468, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1484, 1485, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1494, 1498, 1642, 1643, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1660, 1661, 1662, 1664, 1666, 1673, 1674, 1677, 1681, 1682, 1686, 1689, 1690, 1691, 1688, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1749, 1751, 1752, 1753, 2239, 2694, |
| कटनी | रीठी | पाली | 80, 81, 82, 83, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 222, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 240, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 286, 289, 290, 291, 293, 294, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 372, 373, 374, 375, 376, 377, | 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 222, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 237, 238, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 260, 262, 263, 264, 265, 266, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अंतर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर) |
|------|-------|--------|---|---|
| | | | 378, 379, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 444, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 476, 477, 478, 480, 481, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 493, 494, 533, 534, 540. | 267, 268, 269, 271, 272, 273, 276, 286, 289, 290, 291, 293, 294, 296, 297, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332, 333, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 476, 477, 478; 479, 480, 481, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 493, 494, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 546, 547. |
| कटनी | रीठी | अमगवां | 2065, 2067, 2706, 2659, 2660, 2682, 2683, 2684, 2687, 2688, 2689, 2708, 2709, 2711, 2712, 2713, 2714, 2716, 2718, 2722, 2729, 2732, 2733, 2734, 2735, 2740, 2742, 2743, 3835, 3828, 3822, 3821, 4125, 4121, 4123, 4120, 4117, 4148, 4128, 4095, 4116, 4115, 4114, 4117, 4148, 4108, 3930, 3929, 3915, 3913, 3911, 3910, 2706, 4153, 4154, 4176, 4179, 4181, 4075, 4076, 4078, 4079, 4082, 4084, 4085, 4086, 4087, 4092, 3928, 3915, 3913, 3911, 3910, 2706, 4196, 4153, 4154, 4176, 4179, 4181, 4075, 4076, 4078, 4079, 4082, 4084, 4085, 4086, 4087, 4092, 3891, 3892, 5096, 5100, 5172, | 2065, 2067, 2706, 2659, 2660, 2682, 2683, 2684, 2687, 2688, 2689, 2708, 2709, 2711, 2712, 2713, 2714, 2716, 2722, 2729, 2732, 2733, 2734, 2735, 2739, 2740, 2742, 2743, 3835, 3828, 3822, 3821, 4125, 4121, 4123, 4120, 4117, 4148, 4128, 4095, 4116, 4115, 4114, 4107, 4108, 3930, 3929, 3899, 3928, 3915, 3913, 3911, 3910, 2706, 4196, 4153, 4154, 4176, 4179, 4181, 4075, 4076, 4078, 4079, 4082, 4084, 4085, 4086, 4087, 4092, 3891, 3892, 5096, 5100, 5172, |

राज्य राजमार्ग अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन से एक माह के अंतर्गत या ग्राम में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इनमें से जो भी कालावधि पश्चातवर्ती हो कोई व्यक्ति लिखित में अपनी आपत्ति या सुझाव राजमार्ग प्राधिकारी (प्रबंध संचालक/संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सड़क विकास निगम) को प्रस्तुत कर सकता है या राजमार्ग प्राधिकारी के समक्ष उपरिथित हो सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

पृ. क्र. एफ-23-02-2015-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-23-02-2015-सा.-उन्नीस, दिनांक 7 अप्रैल 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

No. F. 23-02/2015/मेन/19

Bhopal, the 7th April 2015

In exercise of the powers conferred by clause (1) of section 12 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam 2004 (No. 11 of 2005) the State Government hereby propose for the roads as specified in Part-A of the schedule as per specification given below in Part-B of the schedule to be the Building line and Control line.

S C H E D U L E**I****Part-A**

| S.No. | Name of State Highway | Total Length (in Km.) | Name of Districts on the way |
|-------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Damoh-Katni SH-14 | 117.90 | Damoh, Panna, Katni |

Part-B**Details of land in between Building Lines and Control Lines**

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Damoh | Damoh | Dharam pura | 177, 175, 174, 173, 180, 188, 198, 199, 200, 210, 211, 280, 279, 278, 277, 272, 270, 271, 250, 249, 213, 214/2, 214/1, 215, 216, 217, 218, 249, 222, 221, 220, 279, 281, 276, 255, 212, 280, 282, | 177, 178, 175, 174, 173, 180, 188, 198, 199, 200, 210, 211, 280, 279, 278, 277, 272, 270, 271, 250, 249, 213, 214/2, 214/1, 215, 216, 217, 218, 249, 222, 221, 220, 182, 180, 181, 208, 212, 283, 276, 275/1, 273, 266, 269, 255, 254, 247, 248, 255, 276, 282, 225, 224 |
| Damoh | Damoh | Samanna Raiyatwari | 15, 17/1, 18/1, 18/2, 37, 36, 20, 21, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, | 15, 17/1, 18/1, 18/2, 37, 36, 20, 21, 23/1, 23/2, 24, 25, 27/1, 27/2, 40, 26 |
| Damoh | Damoh | Samanna Mall | 475, 476, 477/1, 477/2, 478, 479, 483, 484, 490, 335, 334, 332, 322, 321, 318, 319, 317, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 303, 306, 303, 182/1, 187/1, 163, 164, 160, 161, 158, 159, 154, 152, 153, 151, 492, 493, 494, 496, 495, 498, 500, 501/1, 201/2, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 515, 516, 514, 518, 519/2, 520/2, 521, 522/1, 522/2, 523, 497, 513/1_3, 519/1, 519/5, 539/1, 565, 566/1, 567, 568/1, 569.537/1, | 475, 476, 477/1, 477/2, 478, 479, 483, 484, 490, 335, 334, 332, 322, 321, 318, 319, 317, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 303, 182/1, 187/1, 163, 164, 160, 161, 158, 159, 154, 152, 153, 151, 492, 493, 494, 496, 495, 498, 500, 501/1, 201/2, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 515, 516, 514, 518, 519/2, 520/2, 521, 522/1, 522/2, 523, 474, 481, 482, 487, 459, 332, 323, 325, 324, 337, 317, 316, 326, 285, 286, 287, 290, 313, 305, 304, 301, 195, 182/1, 194, 186, 162, 165, 169/2, 149549, 546, 5455, 543, 542, 497, 541, 564/4, 564/3, 564/2, 584, 568/1, 569, |
| Damoh | Damoh | Karaiya Hajari | 218/1, 218/2, 218/3, 219/2, 220, 223/2, 224, 230, 258, 259, 260, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 281, 282, 284, 285, 286, , 240, 241, 243, 245, 254, 253, 225. | 218/1, 218/2, 218/3, 219/2, 220, 223/2, 224, 230, 258, 259, 260, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 263, 261, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 230, 240, 241, 245, 254.253, 225, 263, 261, 239. |
| Damoh | Damoh | Bhadouli | 37, 245, 248, 250, 257, 258, 259, 260, 217, 285, 289, 290, 294, 295, 297, | 37, 245, 248, 250, 257, 258, 259, 260, 217, 285, 289, 290, 294, 295, 297, 298, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|----------------|---|--|
| | | | 298, 304, 305, 309, 314, 315, 316/1, 316/2, 316/3, 410, 721/2, 718, 716, 713/2, 414, 704, 703, 702/2, 701, 700/23, 695/3, 694, 693, 692/2, 709, 707, 247, 286, 296, 303, 311, 711/2, 70 | 304, 305, 309, 314, 315, 316/1, 316/2, 316/3, 410, 721/2, 718, 716, 713, 243, 246, 247, 250, 253, 411, 412/1, 413/1, 705, 284, 286, 414/5, 414/2, 702/2, 701, 700/2, 695/2, 695/3, 693, 692/2, 291, 296, 301, 303, 308, 311, 312, 307, 317, 711/2, 713, 712, 701/1, 701/3, 709, 710, , 247, 286, 296, 303, 311, 711/2, 70, 244, 291, 300, |
| Damoh | Damoh | Anu | 1712, 1713, 1706, 1709, 1706, 1701, 1700, 1695, 1694, 1692, 1691, 1679, 1678, 17101793, 1794, 1796, 17971800/11808, 1807, 1806, 1805, 1804 | 1712, 1713, 1706, 1709, 1706, 1701, 1700, 1695, 1694, 1692, 1691, 1679, 1678, 585, 586, 698/3, 699, 700, 978, 979, 993, , 994, 995, 996, 997, 998, 1001, 1677, 1674, 1676, 1788, 1790, 1792, 1794, 1796, 1797, 1800/1808, 1806, 1805, 1804, 1809, 1820/2, 1820/1, 999/1. |
| Damoh | Damoh | Gunji | 672/2, 669, 640, 639, 638, 619, 618, 615, 614, 612, 611, 607, 606, 594, 593, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 687, 667/1, 668, 642, 641, 637, 608, 605, 604, 592, 685, 686, 739, 667/2, | 672/2, 669, 640, 639, 638, 619, 618, 615, 614, 612, 611, 607, 606, 594, 593, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 687, 667/1, 668, 642, 641, 637, 608, 605, 604, 592, 685, 686, 739, 667/2, |
| Damoh | Damoh | Bamhouri Gunji | 24, 23, 22, 21, 20/1, 20/2, 18, 15, 15/2, 15/1, 10/1, 11/2, 9, 169, 170, 308, 309., 310/1, 313, 314, 27/1, 29, 30/1, 24, 31/2, 178, 32, 38, 39, 40, 318, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 314, 315, 297, 296, 295, 294, 287, 292, 288/1,19/2, 16, 17, 304/2, 40, 299, 333, | 24, 23, 22, 21, 20/1, 20/2, 18, 15, 15/2, 15/1, 10/1, 11/2, 9, 169, 170, 308, 309., 310/1, 313, 314, 27/1, 29, 30/1, 24, 31/2, 178, 32, 38, 39, 40, 318, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 314, 315, 297, 296, 295, 294, 287, 292, 288/1,19/2, 16, 17, 304/2, 40, 299, 333, |
| Damoh | Damoh | Biltara Sadak | 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 7, 23, 24, 35/3, 35/4, 35/1, 35/2, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 76, 98, 103, 102, 121, 122, 123, 125, 119, 126, 128, 144, 147, 152, 149, 153, 156, 157, 158, 159/2, 159/1, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 132, 131, 133, 131, 133, 135, 136, 140, 139, 141, 142, 143, 144, 149, 152, 153, 156, 157, 129, 128, 26, 125, 123, 122, 121, 102, 103, 110, 118, 110, 103, 126, 21, 22/1, 54, 53, 50, 49, 94, 97, 5, 134, 137,145, 154, 155, 118, 168, | 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 27, 23, 24, 35/3, 35/4, 35/1, 35/2, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 76, 98, 103, 102, 121, 122, 123, 125, 119, 126, 128, 144, 147, 152, 149, 153, 156, 157, 158, 159/2, 159/1, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 132, 131, 133, 135, 136, 140,139,141,142,143, 168, 40, 42/2, 97, 95,119,188,144, 149, 152, 153, 156, 157, 129, 128, 26, 125, 123, 122, 121, 102, 103, 110, 118, 110, 103, 126, 21, 22/1, 54, 53, 50, 49, 94, 97, 5, 134, 137,145, 154, 155, 118, 168, |
| Damoh | Damoh | Hinouti Ginjai | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19/2, 16/1, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19/2, 16/1, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6, 2/1, 2/2, 31, 30, 20, 21, 22, 54, |
| Damoh | Damoh | Hardwani Khurd | 11, 12, 13, 14, 15, 36, 35, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 58, 57, 126, 123, 121, 120, 118, 119, 108, 106, 105, 104, 103, 104, 66, 65, 63, 61, 60 | 11, 12, 13, 14, 15, 36, 35, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 58, 57, 126, 123, 121, 120, 118, 119, 108, 106, 105, 104, 66, 65, 63, 61, 60 |
| Damoh | Damoh | Ghat Pipariya | 280, 281, 294, 295, 296, 297, 298, 145, 147, 148, 148, 174, 175, 176, 177, 190, 193/1, 194/1, 194/2, 194/3, | 280, 281, 294, 295, 296, 297, 298, 145, 147, 148, 174, 175, 176, 177, 190, 193/1, 194/1, 194/2, 194/3, 197/2, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|-----------|---|---|
| | | | 197/2, 197/3, 198, 226, 227, 228, 236, 303, 304, 305, 306/2, 307, 308, 311, 310, 312, 314, 315, 316, 316, 317, 318, 319, 320, 325/4, 321, 354, 397, 394, 409, 411, 414, 392, 237, 265, 269-72, 267, 275, 273/1, 274, | 197/3, 198, 226, 227, 228, 236, 303, 304, 305, 306/2, 307, 308, 311, 310, 312, 314, 315, 316, 316, 317, 318, 319, 320, 325, 350, 146, 178, 192, 20/2, 225, 229/1, 229/2, 313, 344, 342 |
| Damoh | Patera | Ghughari | 56, 70, 73 | 71, 56, 70, 73 |
| Damoh | Damoh | Surkhi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 21, 121, 122, 123, 124, 125, | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 21, 121, 122, 123, 124, 125, 120, 26, 38, 39 |
| Damoh | Patera | Padari | 59, 57, 55, 54, 56, 68, 69, 70, 72/9, 72/4, 72/5, 72/7, 53, 9, 11, 12, 13, 14, 8, 23, 24, 31/1, 31/2, 31/3, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 52, 31/3, 32/2, 32/1, 34/1, 35, 36, 37, 38/3, 38/5, 39/3, 83, 7, 82, | 59, 57, 55, 54, 56, 68, 69, 70, 72/9, 72/4, 72/5, 72/7, 53, 9, 11, 12, 13, 14, 8, 23, 24, 31/1, 31/2, 31/3, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 52, 31/3, 32/2, 32/1, 34/1, 35, 36, 37, 38/4, 38/5, 39/3, 58, 10, 6, 7, 22, 25, 86, 82, 83, 38/2, 38/1, |
| Damoh | Patera | Gata | 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 91, 89/2, 89/1, 81, 88, 78/2, 78/1, 76, 51, 51/2, 49, 4, 5, 6, 8, 7, 10/1, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20/2, 20, 2/1-7, 86, 51/1, 12/11. | 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 91, 89/2, 89/1, 81, 88, 78/2, 78/1, 76, 51, 51/2, 49, 4, 5, 6, 8, 7, 10/1, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20/2, 20, 86, 75/1, 52, 10/3, 16, 18, 25/1, 24, 22, 28, 29 |
| Damoh | Patera | Cheelghat | 378, 379, 380, 381/1, 382, 405, | 378, 379, 380, 381/1, 382, 405, 377 |
| Damoh | Damoh | Kumhari | 529, 530, 515, 514, 513, 512, 511, 510, 509, 478, 476/3, 476/2, 473/2, 475, 474, 434, 437, 433, 432, 438, 532, 533, 561/1, 561/2, 562, 563, 564, 626, 628, 629, 630, 632, 646, 647, 651, 652, 653, 654, 655, 732, 528, 525, 524, 523, 516, 517, 518, 519, 504, 508, 480, 479, 477, 476/1, 568, 565, 625, 624, 633, 645, 648, 665, 663, 658, 729, 881, 882, 880, 884, 899, 901/1, 900, 902, 916, 917, 918/1, 1103, 1104, 1105, 1095, 749, 751, 768, 770, 771, 777, 779, 780, 879, 878, 875, 885, 891, 887, 9894, 1102, 749, 767, 794, 792, 788, 787, 782, 874, 871, 872, 1115, 918/1, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1072, 1071, 107, 1068, 1046, 1044, 1043873, 1112, 1113, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1049, 1048, 477, 476/1, 645, 648, 769, 1103, 1104, 1095, 1073, 1130, | 529, 530, 515, 514, 513, 512, 511, 510, 509, 478, 476/3, 476/2, 473/2, 475, 474, 434, 437, 433, 432, 438, 532, 533, 561/1, 561/2, 562, 563, 564, 626, 628, 629, 630, 632, 646, 647, 651, 652, 653, 654, 655, 732, 528, 525, 524, 523, 516, 517, 518, 519, 504, 508, 480, 479, 477, 476/1, 568, 565, 625, 624, 633, 645, 648, 665, 663, 658, 729, 881, 882, 880, 884, 899, 901/1, 900, 902, 916, 917, 918/1, 1103, 1104, 1105, 1095, 749, 751, 768, 770, 771, 777, 779, 780, 879, 878, 875, 885, 891, 887, 9894, 1102, 749, 767, 794, 792, 788, 787, 782, 874, 871, 872, 1115, 918/1, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1072, 1071, 107, 1068, 1046, 1044, 1043, 873, 1112, 1113, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1049, 1048, 1102, 1104, 1094, 872, 1115, 1121, 1135, 1133, 1132, 1131, 1130, 1050, 1048, 505, 471, 472, 473, 441, 440, 438, 644, 649, 655, 904, 1102, 767, |
| Damoh | Patera | Gudari | 101, 95, 96, 97, 98, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 131, 132, 130, 129, 128, 127, 126, 107, 205, 204, 109, 110, 111, 112, 72, 49, 48, 47, 272, 273, 274, 114, 123, 115, 124, 126, 127, 47, 276, 277, 343, 350, 349, 348, 344 | 101, 95, 96, 97, 98, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 131, 132, 130, 129, 128, 127, 126, 107, 205, 204, 109, 110, 111, 112, 72, 49, 48, 47, 272, 273, 274, 114, 123, 115, 124, 126, 127, 125, 47, 276, 277, 343, 350, 349, 348, 344, 278, 348, 351, 345, 352, 57 |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|----------|---|---|
| Panna | Repura | Kuakheda | 51/2, 52/2, 52/1, 51/1, 55, 56/1, 57, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 297, 298.299, 300, 316, 296, 294, 283, 282, 284, 280, 261/2, 261/1, 316, 321, 322, 326, 327, 328, 329, 330, 332/3, 332/1, 259, 250, 257, 256, 223, 253, 216, 198, 197, 196, 195, 196, 195, 152, 153, 150, 151, 151, 149, 154, 155, 148, 141, 143, 144, 50, 54, 83, 92, 91, 94, 90, 98, 139, 138, 99, 280, 281, 288, 289, 290, 291, 293, 295, 296, 302, 315, 316, 325, 328, 332/2, 142, 137, 132, 145, 157, 155, 156, 160, 161, 194, 203, 201, 199, 200 | 51/2, 52/2, 52/1, 51/1, 55, 56/1, 57, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 297, 298.299, 300, 316, 296, 294, 283, 282, 284, 280, 261/2, 261/1, 316, 321, 322, 326, 327, 328, 329, 330, 332/3, 332/1, 259, 250, 257, 256, 223, 253, 216, 198, 197, 196, 195, 152, 153, 150, 151, 149, 154, 155, 148, 141, 143, 144, 50, 54, 83, 92, 91, 94, 90, 98, 139, 138, 99, 280, 281, 288, 289, 290, 291, 293, 295, 296, 302, 315, 316, 325, 328, 332/2, 142, 137, 132, 145, 157, 155, 156, 160, 161, 194, 203, 201, 199, 200 |
| Panna | Repura | Khusra | 694, 695, 692, 691, 690, 696, 688, 689, 698, 697, 699, 700, 701, 704, 705, 710, 705, 710, 702, 754, 755, .756, 757, 757, 759, 760, 761, 762, 770, 763, 764, 785, 786, 787, 799, 798, 800, 802, 803, 805, 806, 807, 817, 803, 805, 806, 807, 817, 814, 821, 818, 819, 820, 822, 823, 824, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 839, 834, 835, 836, 839, 841, 840, 843, 834, 835, 836, 839, 841, 840, 843, 693, 683, 687, 712, 711, 713, 709, 706, 707, 708, 723, 752, 753, 751, 757, 758, 744, 771, 772, 768, 765, 767, 766, 797, 801, 804, 807, 813, 821, 911, 912, 913, 910, 874, 873, 870, 871, 868, 846, 774, 782, 789, 770, 710, | 694, 695, 692, 691, 690, 696, 688, 689, 698, 697, 699, 700, 701, 704, 705, 710, 702, 754, 755, .756, 757, 759, 760, 761, 762, 770, 763, 764, 785, 786, 787, 799, 798, 800, 802, 803, 805, 806, 807, 817, 814, 813, 821, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 824, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 839, 834, 835, 836, 839, 841, 840, 843, 693, 683, 687, 712, 711, 713, 709, 706, 707, 708, 723, 752, 753, 751, 757, 758, 744, 771, 772, 768, 765, 767, 766, 797, 801, 804, 807, 813, 821, 911, 912, 913, 910, 874, 873, 870, 871, 868, 846, 774, 782, 789, 770, 710, |
| Panna | Repura | Bharwara | 240, 238, 235, 243, 247, 248, 249, 250/1, 251, 253, 254, 256, 230, 387/2, 255, 260, 262, 347, 346/4, 353, 638, 349, 639, 641, 642, 644, 653, 654, 655, 666, 669, 668, 678, 667, 680, 679, 680/2, 871, 869, 868, 346, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 712, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 697, 698, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 686, 687/2, 682, 683, 824, 822, 829, 830, 832, 246, 250/1, 832, 342, 334, 331, 701/1, 797, 816, | 240, 238, 235, 243, 247, 248, 249, 250/1, 251, 253, 254, 256, 230, 387/2, 255, 260, 262, 347, 346/4, 353, 638, 349, 639, 641, 642, 644, 644, 651, 654, 655, 666, 669, 668, 678, 667, 680, 679, 680/2, 871, 869, 868, 346, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 712, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 697, 698, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 686, 687/2, 682, 683, 824, 822, 829, 830, 832, 246, 250/1, 637, 645, 646, 648, 657, 670, 675, 677, 679, 879, 642, 334, 333, 713/2, 714, 698, 699, 767, 769, 695, 770, 778, 779, 684, 822, 832, 713/1-2, 237, 800, 817, 815, 819, 799 |
| Panna | Repura | Repura | 4286, 4287, 4288, 4355, 4358, 4359, 4387, 4284, 4281, 4280, 4243, 4242, 4238, 4237, 4236, 4230, 4366, 4386, 4385, 4421, 4422, 4571, 4576, 4999, 5008, 5009, 4992, 4991, 4992, 4991, 4990, 4989, 4988, 4901, 4899, 4897, 4869, 4898, 4856, 4864, 5682, 5686, 5687, 5690, 5692, 56934747, 4811, 4815, 4816, 4847, 4850, 4852, 5769, 5768, 5765, 5763, 5752, 5761, 5693, 5694, 5695, 5708, 5709, 5711, 5696, | 4286, 4287, 4288, 4355, 4358, 4359, 4387, 4284, 4281, 4280, 4243, 4242, 4238, 4237, 4236, 4230, 4289, 4352, 4369, 4368, 4282, 4247, 3985, 4281, 4248, 4249, 4253, 4230, 4366, 4386, 4385, 4421, 4422, 4571, 4576, 4999, 5008, 5009, 4992, 4991, 4368, 4384, 4391, 4417, 4423, 4572, 4575, 5016, 5010, 5011, 4982, 4237, 4161, 4581, 4725, 4727, 4741, 4745, 4992, 4991, 4992, 4991, 4990, 4989, 4988, 4901, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|-----------|---|--|
| | | | 5725, 5726, 5727, 5741, 5742, 5751, 5761, 5759, 5757, 5755, 5756, 5800, 5803, 5804, 5810, 4357 | 4899, 4897, 4869, 4898, 4856, 4864, 5682, 5686, 5687, 5690, 5692, 5693, 4747, 4811, 4815, 4816, 4847, 4850, 4852, 5769, 5768, 5765, 5763, 5752, 5761, 4695, 4984, 4982, 4984, 4980, 4903, 4905, 4895, 4861, 4863, 5685, 5688, 5691, 5607, 5666, 4741, 4746, 4745, 4754, 4787, 4809, 4818, 4817, 4845, 4843, 4842, 5774, 5771, 5782, 5783, 5786, 5693, 5694, 5695, 5708, 5709, 5711, 5696, 5725, 5726, 5727, 5741, 5742, 5751, 5761, 5759, 5757, 5755, 5756, 5800, 5803, 5804, 5810, 5666, 5697, 5696, 5707, 5710, 5712, 5706, 5722, 5724, 5729, 5728, 5740, 5743, 5810, 5804, 4353, 4354, 4370, 436, 4391, 4317, |
| Katni | Katni | Majhgawan | 1, 2, 137, 136, 133, 132/2, 126, 124, 125, 123/2, 123/1, 122, 138, 139, 140, 141/2, 142, 334, 335, 338, 339, 123/2, 123/1, 122, 121/1, 108, 113, 101, 98, 99, 84, 85, 81, 82, 83, 66, 68, 65, 64, 340, 345, 346, 344, 348, 351, 443, 61/1, 61/2, 58/2, 57/1, 55, 50/1, 50/6, 50/5, 50/3, 50/4, 445/1-2, 457, 459/1, 462, 463, 464, 466, 474, 57/1, 50/1, 50/6, 50/5, 50/3, 50/4, 49, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 336 | 1, 2, 137, 136, 133, 132/2, 126, 124, 125, 123/2, 123/1, 122, 138, 139, 140, 141/2, 142, 334, 335, 338, 339, 123/2, 123/1, 122, 121/1, 108, 113, 101, 98, 99, 84, 85, 81, 82, 83, 66, 68, 65, 64, 340, 345, 346, 344, 348, 351, 443, 61/1, 61/2, 58/2, 57/1, 55, 50/1, 50/6, 50/5, 50/3, 50/4, 445/1-2, 457, 459/1, 462, 463, 464, 466, 474, 57/1, 50/1, 50/6, 50/5, 50/3, 50/4, 49, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 135, 144, 145/1, 146/1, 143, 153, 155, 331, 337, 336, 102, 96, 80, 79, 70, 71, 72, 329, 343, 350, 60/2, 56/1, 56/2, 449, 450, 456, 476, 474, 473, 476, 474, 473, 470, 469, |
| Katni | Katni | Chanhati | 26, 27, 29, 24, 30, 31, 32, 33, 7, 218, 219, 221, 222, 199, 223, 224, 230, 231, 236, 237, 238, 239, 240, 224, 225, 226, 167, 169, 165, 164, 164, 242, 254, 255, 256, 269, 270, 271, 28, 25, 23, 22, 34, 228, 217, 200, 197, 173, 174, 175, 170, 163, 246, 247, 248, 252, 256, 268, 272, 258 | 26, 27, 29, 24, 30, 31, 32, 33, 7, 218, 219, 221, 222, 199, 223, 224, 230, 231, 236, 237, 238, 239, 240, 224, 225, 226, 167, 169, 165, 164, 164, 242, 254, 255, 256, 269, 270, 271, 28, 25, 23, 22, 34, 228, 217, 200, 197, 173, 174, 175, 170, 163, 246, 247, 248, 252, 256, 268, 272, 258 |
| Katni | Katni | Devdogra | 23, 24, 25, 16, 15, 158, 35, 34, 33, 26, 29, 31, 30, 156, 28, 27, 157, 155, 210, 209, 198, 14, 195, 194, 193, 208, 200/1, 200/2, 236, 237, 243, 245, 246, 275, 192 | 23, 24, 25, 16, 15, 158, 35, 34, 33, 26, 29, 31, 30, 156, 28, 27, 157, 155, 210, 209, 198, 14, 195, 194, 193, 208, 200/1, 200/2, 236, 237, 243, 245, 246, 275, 192, 21, 20, 18, 31, 38/2, 38/3, 211, 206, 207/1, 244, 247, 168, 169, 170, 191/3, 191/6, 191/7, |
| Katni | Katni | Koodho | 2, 7, 8/1, 10, 11, 13, 14, 15, 142, 143, 139, 135, 131, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 205, 215, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 225, 222, 181, 80, 228, 134 | 2, 7, 3, 8/1, 10, 11, 13, 14, 15, 142, 143, 139, 135, 131, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 205, 215, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 225, 222, 181, 80, 228, 3, 138, 120, 152, 203, 204, 206, 227, 223, 231, 229, 230, 79, 82, 134 |

| | | | | |
|-------|-------|-----------------|--|---|
| Katni | Katni | Hardua | 332, 333, 334, 335, 336, 337, 348, 352, 353, 355, 441, 446, 447, 448, 451, 554, 556, 555, 654, 657, 658, 659, 686, 687, 688, 713, 712, 715, 716, 717, 719, 720, 721, 718, 723, 724, 725, 726, 652, 648, 647, 630, 629, 628, 627, 626, 624, 625, 622, 619, 617, 559, 568, 570, 572, 573, 6574, 576, 657, | 332, 333, 334, 335, 336, 337, 348, 352, 353, 355, 441, 446, 447, 448, 451, 554, 556, 555, 654, 657, 658, 659, 686, 687, 688, 713, 712, 715, 716, 717, 719, 720, 721, 718, 723, 724, 725, 726, 652, 648, 647, 630, 629, 628, 627, 626, 624, 625, 622, 619, 617, 559, 568, 570, 572, 573, 6574, 576, 331, 328, 339, 338, 360, 434, 440, 453, 452, 456, 689, 690, 560, 569, 575, 651, 646, 641, 634, 621, 553, |
| Katni | Katni | Rampur (Veeran) | 142, 143, 124, 122, 123, 121, 117, 116, 115, 113, 148, 149, 147, 145, 146, 163, 164, 165, 168, 176, 177, 178, 179, 184, 186, 189, 191, 192, 141, 140, 74, 129, 130, 91, 125, 128, 127, 120, 119, 92, , 104, 107, 11, 112, 150, 151, 152, 162, 167, 175, 180, 187, 183, 193, 191, 194, 195, 162, 168, 188, | 142, 143, 124, 122, 123, 121, 117, 116, 115, 113, 148, 149, 147, 145, 146, 163, 164, 165, 168, 176, 177, 178, 179, 184, 186, 189, 191, 192, 141, 140, 74, 129, 130, 91, 125, 128, 127, 120, 119, 92, , 104, 107, 11, 112, 150, 151, 152, 162, 167, 175, 180, 187, 183, 193, 191, 194, 195, 162, 168, 188, |
| Katni | Katni | Patehara | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 52, 328, 324, 328, 311, 310, 325, 309, 314, 306, 296, 294, 295, 292, 331, 334, 335, 336, 369, 372, 374, 382, 375, 434, 435, 433, 437, 440, 455, 456, 460, 455, 456, 460, 476, 293, 292, 290, 287, 286, 268, 270, 287, 286, 268, 270, 269, 476, 477, 478, 494, 490, 480, 482, 483, 484, 485, 488, 487, 33, 34, 35, 38, 45, 49, 53, 54, 323, 318, 305, 297, 284, 333, 343, 342, 338, 340, 370, 373, 383, 432, 456, 457, 458, 500, 499, 489, 487, 486, 491, 281, 291, 289, 288, 285, 271, 272, 493, | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 52, 328, 324, 328, 311, 310, 325, 309, 314, 306, 296, 294, 295, 292, 331, 334, 335, 336, 369, 372, 374, 382, 375, 434, 435, 433, 437, 440, 455, 456, 460, 476, 293, 292, 290, 287, 286, 268, 270, 269, 476, 477, 478, 494, 490, 480, 482, 483, 484, 485, 488, 487, 33, 34, 35, 38, 45, 49, 53, 54, 323, 318, 305, 297, 284, 333, 343, 342, 338, 340, 370, 373, 383, 432, 456, 457, 458, 500, 499, 489, 487, 486, 491, 281, 291, 289, 288, 285, 271, 272, 493, |
| Katni | Rithi | Devgaon | 223, 3, 39, 40, 46, 48, 50, 51, 53, 191, 52, 56, 59, 68, 67, 74, 71, 73, 117, 75, 116, 119, 121, 112, 122, 222, 221, 219, 225, 217, 214, 216, 215, 213, 200, 198, 192, 193, 195, 774, 773, 779, 778, 777, 778, 777, 783, 782, 128, 130, 131, 136, 138, 144, 181, 190, 784, 785, 786, 886, 887, 885, 876, 891, 888, 890, 896, 897, 903, 964, 965, 968, 969, 987, 986, 781, 904, | 223, 3, 39, 40, 46, 48, 50, 51, 53, 191, 52, 56, 59, 68, 67, 74, 71, 73, 117, 75, 116, 119, 121, 112, 122, 222, 221, 219, 225, 217, 214, 216, 215, 213, 200, 198, 192, 193, 195, 774, 773, 779, 778, 777, 783, 782, 128, 130, 131, 136, 138, 144, 181, 147, 182, 189, 190, 784, 785, 786, 886, 887, 885, 876, 891, 888, 890, 896, 897, 903, 964, 965, 968, 969, 987, 986, 4, 41, 42, 43, 38, 61, 63, 65, 77, 81, 82, 86, 111, 224, 229, 231, 195, 196, 293, 769, 767, 768, 781, 111, 132, 141, 180, 183, 787, 884, 880, 879, 877, 875, 874, 893, 905, 962, 971, 974, 975, 984, 985, 988, 781, 904, 779, |
| Katni | Rithi | Madhadeori | 449,447 | 449,447 |
| Katni | Rithi | Jamuniya | 792, 791, 788, 785, 784, 772, 770, 769, 761, 747, 795, 798, 799, 800, 801, 802, 848, 849, 848, 849, 850, 855, 854, 855, 856, 857, 858, 746, 747, 734, 725, 724, 723, 722, 709, 706, 707, 695, 867, 866, 868, 877, 878, 876, 880, 881, 786, 771, 814, 813, 812, 852, 859, 726, 727, 722, 705, 694, 859, | 792, 791, 788, 785, 784, 772, 770, 769, 761, 747, 795, 798, 799, 800, 801, 802, 848, 849, 850, 858, 854, 855, 856, 857, 858, 746, 747, 734, 725, 724, 723, 709, 706, 707, 695, 867, 866, 868, 877, 878, 876, 880, 881, 786, 771, 814, 813, 812, 852, 859, 726, 727, 722, 705, 694, 859, |
| Katni | Rithi | Chikhala | 16, 20, 18, 19, 17, 22, 26, 27, 30, 34, 21, 39, | 16, 20, 18, 19, 17, 22, 26, 27, 30, 28, 28, 34, 21, 39, 25, 32, 33, 31, 38, 40, |

| | | | | |
|-------|-------|--------------|---|--|
| Katni | Rithi | Patounha | 234/922, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 232, 244, 245, 247, 252, 254, 258, 268, 270, 271, 279, 232, 804, 288, 270, 271, 279, 804, 803, 808, 810, 801, 803, 800, 799, 796, 795, 794, 793, 154, 155, 171, 173, 189, 190, 191, 230, 229, 281, 657, 241, 853, 852, 242, 243, 251, 259, 281, 282, 283, 329, 330, 331, 336, 342, 343, 785, 786, 788, 789, 288, 266, 267, 272, 277, 817, 798, 794, | 234/922, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 232, 244, 245, 247, 252, 254, 258, 268, 270, 271, 279, 232, 804, 288, 270, 271, 279, 804, 803, 808, 810, 801, 803, 800, 799, 796, 795, 794, 793, 154, 155, 171, 173, 189, 190, 191, 230, 229, 281, 657, 241, 853, 852, 242, 243, 251, 259, 281, 282, 283, 329, 330, 331, 336, 342, 343, 785, 786, 788, 789, 288, 266, 267, 272, 277, 817, 798, 794, |
| Katni | Rithi | Deori Kala | 328, 327, 329, 344, 347, 353, 352, 380, 540, 539, 541, 542, 543, 538, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 553, 658, 657, 356, 360, 359, 357, 375, 374, 378, 377, 376, 378, 379, 494, 516, 518, 517, 519, 524, 525, 528, 527, 529, 532, 533, 560, 559, 536, 556, 656, 980, 979, 981, 976, 975, 973, 660, 982, 984, 985, 981, 534, 988, 989, 332, 331, 330, 348, 382, 659, 359, 361, 365, 358, 374, 373, 377, 372, 514, 520, 526, 530, 563, 561, 558, 557, 655, 996, 997, 995, 994, 993, 991, 339, 990, | 328, 327, 329, 344, 347, 353, 352, 380, 540, 539, 541, 542, 543, 538, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 553, 658, 657, 356, 360, 359, 357, 375, 374, 378, 377, 376, 378, 379, 494, 516, 518, 517, 519, 524, 525, 528, 527, 529, 532, 533, 560, 559, 536, 556, 656, 980, 979, 981, 976, 975, 973, 660, 982, 984, 985, 981, 534, 988, 989, 332, 331, 330, 348, 382, 659, 359, 361, 365, 358, 374, 373, 377, 372, 514, 520, 526, 530, 563, 561, 558, 557, 655, 996, 997, 995, 994, 993, 991, 339, 990, |
| Katni | Rithi | Hardware | 637, 638, 636, 635, 648, 647, 649, 651, 652, 1236, 1231, 1210, 1209, 1207, 1240, 1242, 1245, 1271, 1322, 1321, 1323, 1324, 1325, 1334, 1333, 1336, 1335, 1337, 1338, 1339, 1238, 1369, 1196, 1195, 1188, 1187, 1183, 1182, 1180, 1178, 1175, 1173, 1172, 1171, 1169, 1168, 1238, 1371, 1382, 1383, 1391, 1409, 1410, 1413, 1414, | 637, 638, 636, 635, 648, 647, 649, 651, 652, 1236, 1231, 1210, 1209, 1207, 1240, 1242, 1245, 1271, 1322, 1321, 1323, 1324, 1325, 1334, 1333, 1336, 1335, 1337, 1338, 1339, 1238, 1369, 1196, 1195, 1188, 1187, 1183, 1182, 1180, 1178, 1175, 1173, 1172, 1171, 1169, 1168, 1238, 1371, 1382, 1383, 1391, 1409, 1410, 1413, 1414, 631, 632, 633, 639, 640, 642, 647, 645, 1236, 1232, 1230, 1211, 1244, 1245, 1246, 1274, 1320, 1321, 1318, 1331, 1332, 1347, 1335, 1346, 1340, 1196, 1194, 1189, 1186, 1181, 1174, 1165, 1167, 1374, 1381, 1380, 1384, 1395, 1415, 1414, |
| Katni | Rithi | Jhari kheda | 416, 415, 413, 414, 411, 412, 410, 409, 425, 487, 488, 489, 497, 496, 499, 422, 499, 422, 421, 423, 526, 530, 525, 523, 519, 518, 523, 519, 518, 517, 516, 515, 513, 512, 506, 505, 504, 502, 501, 407, 408, 428, 426, 486, 490, 493, 499, 420, 521, 520, 510, 514, 511, 507, 508, 562, 561, 563, 567, | 416, 415, 413, 414, 411, 412, 410, 409, 425, 487, 488, 489, 497, 496, 499, 422, 421, 423, 526, 530, 525, 523, 519, 518, 517, 516, 515, 513, 512, 506, 505, 504, 502, 501, 407, 408, 428, 426, 486, 490, 493, 499, 420, 521, 520, 510, 514, 511, 507, 508, 562, 561, 563, 567, |
| Katni | Rithi | Kachhar Gaon | 2, 3, 12, 11, 10, 9, 24, 29, 31, 30, 4, 5, 7, 6, 8, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 33, 40, 41, 33/1, 43, 128, 129, 130, 131, 138, 140, 139, 137 | 2, 3, 12, 11, 10, 9, 24, 29, 31, 30, 4, 5, 7, 6, 8, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 33, 40, 41, 33/1, 43, 128, 129, 130, 131, 138, 140, 139, 25, 28, 36, 35, 137 |

| | | | | |
|-------|-------|------------------|--|--|
| Katni | Rithi | Ahir gawan | 2/2, 2/1, 3, 4/1, 3, 4/2, 4/4, 4/3, 4/5, 8, 9, 10, 13, 19/1, 25, 19/2, 27, 34, 35, 52, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 53, 60, 59, 65, 66/1, 66/2, 67, | 2/2, 2/1, 3, 26, 4/1, 3, 4/2, 4/4, 4/3, 4/5, 8, 9, 10, 13, 19/1, 26, 25, 19/2, 27, 34, 35, 52, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 53, 60, 59, 65, 66/1, 66/2, 67, 7, 5, 9, 12, 48, 49, 50/1, |
| Katni | Rithi | Mamar | 1, 6, 7, 9, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 505, 498, 484, 509, 13, 14, 12, 15, 11, 561, 459, 460, 466, 465, 462, 463, 511, 482, 510, 20. | 1, 6, 7, 9, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 505, 498, 484, 509, 13, 14, 12, 15, 11, 561, 459, 460, 466, 465, 462, 463, 511, 482, 510, 5, 4, 498, 494, 503, 16, 17, 20, 467, 465, 475, 479, 480, 20. |
| Katni | Rithi | Rithi | 762, 763, 764, 765, 739, 738/1, 737, 736, 724, 719, 716, 717, 718, 707, 703, 697, 700, 696, 770, 773, 774, 802, 803/1, 803/3, 804/2, 508, 806/1, 806/2, 817, 844, 848, 697, 700, 610, 605, 599, 598, 593, 594, 590, 589, 578, 576, 574, 572, 857, 969, 985, 984, 985, 1039, 1043, 1044, 1045, 1126, 1047, 804/1, 805, 579, 1049, 761, 767, 740/1, 740/3, 735, 725, 722, 721, 723, 720, 715, 710, 709, 705, 708, 691, 694, 982, 650, 689, 687, 843, 686, 779, 778, 777, 808, 807, 843, 865, 691, 964, 692, 62, 624, 621, 620, 619, 610, 580, 588, 575, 574, 865, 1094, 877, 980, 981, 1038, 1035/1, 1134, 1046, | 762, 763, 764, 765, 739, 738/1, 737, 736, 724, 719, 716, 717, 718, 707, 703, 697, 700, 696, 770, 773, 774, 802, 803/1, 803/3, 804/2, 508, 806/1, 806/2, 817, 844, 848, 697, 700, 610, 605, 599, 598, 593, 594, 590, 589, 578, 576, 574, 572, 857, 969, 985, 984, 985, 1039, 1043, 1044, 1045, 1126, 1047, 804/1, 805, 579, 1049, 761, 767, 740/1, 740/3, 735, 725, 722, 721, 723, 720, 715, 710, 709, 705, 708, 691, 694, 982, 650, 689, 687, 843, 686, 779, 778, 777, 808, 807, 843, 865, 691, 964, 692, 62, 624, 621, 620, 619, 610, 580, 588, 575, 574, 865, 1094, 877, 980, 981, 1038, 1035/1, 1134, 1046, |
| Katni | Rithi | Barhatha | 62, 63, 64, 65, 66, 69, 72, 73, 74, 79, 85/2, 85/1, 84/1, 87, 86, 88, 105, 107, 108, 104, 152, 153, 151, 155, 156, 150, 149, 148/1, 146/1, 144, 143/1, 138, 122, 121, 110, 83 | 62, 63, 64, 65, 66, 69, 72, 73, 74, 79, 85/2, 85/1, 84/1, 87, 86, 88, 105, 107, 108, 104, 152, 153, 151, 155, 156, 150, 149, 148/1, 146/1, 144, 143/1, 138, 122, 121, 110, 60, 68, 70/1, 80, 83, 89, 146/2, 137, |
| Katni | Rithi | Umaria | 6, 4, 5, 7, 16, 15, 17, 18, 19, 9, 8, 10, 11, 12, 14, 13, 29, 27, 28, 26, 20, 150, 151, 154, 153, 156, 157, 158, 162, 161, 250/1024, 158, 161, 162, 164, 192, 191, 189, 191, 529, 148, 149, 247, 246, 248, 249, 250, 251, 232, 231, 193, 196, 194, 621, 528, 572, 573, 580, 581, 583, 585, 586, 587, 588, 610, 611, 612, 606, 621, 620, 619, 616, 615, 654, 660, 656, 657, 697, 698, 699, 163, 607, 155, | 6, 4, 5, 7, 16, 15, 17, 18, 19, 9, 8, 10, 11, 12, 14, 13, 29, 27, 28, 26, 20, 150, 151, 154, 153, 156, 157, 158, 162, 161, 250/1024, 158, 161, 162, 164, 192, 191, 189, 191, 529, 148, 149, 247, 246, 248, 249, 250, 251, 232, 231, 193, 196, 194, 621, 528, 620, 572, 573, 580, 581, 583, 585, 586, 587, 588, 610, 611, 612, 606, 621, 620, 619, 616, 615, 654, 660, 656, 657, 697, 698, 699, 25, 26, 155, 173, 163, 165, 167, 147, 143, 257, 230, 195, 622, 623, 574, 579, 584, 589, 609, 623, 618, 617, 626, 661, 658, 662, 607, 575 |
| Katni | Rithi | Mohas | 3, 2, 4, 5, 7, 11, 25, 24, 36, 95, 96, 125, 124, 6, 127, 128, 129, 132, 131, 95, 96, 97, 123, 98, 99, 120, 121, 118, 133, 137, 136, 142, 141, 143, 144, 820, 821, 823, 145, | 3, 2, 4, 5, 7, 11, 25, 24, 36, 95, 96, 125, 124, 6, 127, 128, 129, 132, 131, 95, 96, 97, 123, 98, 99, 120, 121, 118, 133, 137, 136, 142, 141, 143, 144, 820, 821, 823, 10, 38, 40, 119, 140, 806, 816/1, 816/2, 145 |
| Katni | Rithi | Ghousri (Viraan) | 24, 23, 53, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 7, 6, 5, 4, 3, 36, 35, 37, 34, 38, 32, 31, 30, 25, 29, 27, 28, 26, 46, 33, 8, | 24, 23, 53, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 7, 6, 5, 4, 3, 36, 35, 37, 34, 38, 32, 31, 30, 25, 29, 27, 28, 26, 46, 20, 8, 9, 39, |
| Katni | Rithi | Bharatpur | 201, 202, 212, 213, 214, 216, 223, 669, 664, 663, 662, 661, 660, 659, | 201, 202, 212, 213, 214, 216, 223, 669, 664, 663, 662, 661, 660, 659, 658, 645, |

| | | | | |
|-------|-------|------------|---|---|
| | | | 658, 645, 641, 642, 294, 291, 292, 290, 288, 289, 286, 287, 283, 282, 280, 277, 276, 279, 278, 275, 225, 226, 273, 227, 230, 231, 238, 234, 235, 620, 599, 637, 638, 643, 1030, 1035, 1033, 1032, 1110, 1112, 1113, 1118, 1117, 638, 637, 1195, 1212, 1139, 1141, 1136, 1137, 1134, 1135, 1119, 1121, 293, 194, 211, 293, 1116, 211, 210, | 641, 642, 643, 294, 291, 292, 290, 288, 289, 286, 287, 283, 282, 280, 277, 276, 279, 278, 275, 225, 226, 273, 227, 230, 231, 238, 234, 235, 616, 619, 620, 599, 637, 638, 643, 1030, 1035, 1033, 1032, 1110, 1112, 1113, 1118, 1117, 638, 637, 1195, 1212, 1139, 1141, 1136, 1137, 1134, 1135, 1119, 1121, 200, 199, 203, 210, 211, 209, 222, 668, 666, 648, 644, 293, 194, 295, 296, 283, 284, 302, 241, 239, 236, 645, 644, 1035, 1106, 1107, 1108, 1111, 1115, 1086, 1145, 1146, 1144, 1133, 619, 770, 1103, |
| Katni | Rithi | Lat Pahadi | 1, 6, 10, 11, 26, 2, 38, 39, 27, 113, 114, 116, 115, 118, 122, 121, 123, 120, 138, 139, 140, 163, 43, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 96, 97, 98, 168, 170, 171, 195, 196, 194, 197, 222, 223, 224, 225, 226, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 99, 109, 110, 111, 248, 249, 250, 251, 252, 129, 124, 42, 193, | 1, 6, 10, 11, 26, 2, 38, 39, 27, 112, 113, 114, 116, 115, 118, 122, 121, 123, 138, 140, 163, 43, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 96, 97, 98, 168, 170, 171, 195, 196, 194, 197, 222, 223, 224, 225, 226, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 99, 109, 110, 111, 259, 248, 249, 250, 251, 252, 117, 120, 139, 141, 167, 40, 41, 42, 95, 169, 186, 192, 198, 229, 228, 240, 241, 264, 263, 262, 259, 257, 139, 5, 4, 7, 9, 12, 25, 58, 95, 166, 230, |
| Katni | Rithi | Badgaon | 3934, 3921, 3922, 3923, 3924, 3920, 3918, 3919, 3917, 3495, 3915, 3911, 3913, 3910, 3500, 3499, 3498, 3497, 3496, 2907, 3987, 3938, 3939, 3940, 3941, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3952, 3954, 3955, 3956, 3482, 3480, 3479, 3446, 3450, 3247, 3246, 3497, 3496, 2907, 2906, 2909, 2910, 2911, 2912, 2914, 2916, 2940, 2942, 2943, 2944, 2936, 3247, 3246, 3244, 3243, 3240/4579, 3241, 3242, 3218, 3219, 3217, 3216, 3215, 3214, 3189, 3188, 3055, 3187, 3178, 3144, 3145, 3113, 3112, 3091, 3090, 3080, 3081, 3078, 3056, 1486, 2944, 2950, 2947, 2952, 2953, 2954, 2955, 2966, 3019, 3020, 3024, 3025, 3063, 3061, 1489, 1488, 1493, 1490, 1491, 1501, 1502, 1551, 1549, 1553, 1589, 1587, 1567, 1429, 1485, 1428, 1427, 1425, 1424, 1418, 1417, 1397, 1396, 1392, 1387, 1587, 1589, 1592, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1633, 1634, 1635, 1359, 1358, 1352, 1351, 1348, 1347, 1345, 1346, 1336, 1335, 1299, 1277, 4546, 1278, 1298, 1297, 1279, 1280, 1281, 1283, 1344, 4647, 1246, 3240, 3186 | 3934, 3921, 3922, 3923, 3924, 3920, 3918, 3919, 3917, 3495, 3915, 3911, 3913, 3910, 3500, 3499, 3498, 3497, 3496, 2907, 3987, 3938, 3939, 3940, 3941, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3952, 3954, 3955, 3956, 3482, 3480, 3479, 3446, 3450, 3247, 3246, 3497, 3496, 2907, 2906, 2909, 2910, 2911, 2912, 2914, 2916, 2940, 2942, 2943, 2944, 2936, 3247, 3246, 3244, 3243, 3240/4579, 3241, 3242, 3218, 3219, 3217, 3216, 3215, 3214, 3189, 3188, 3055, 3187, 3178, 3144, 3145, 3113, 3112, 3091, 3090, 3080, 3081, 3078, 3056, 1486, 2944, 2950, 2947, 2952, 2953, 2954, 2955, 2966, 3019, 3020, 3024, 3025, 3063, 3061, 1489, 1488, 1493, 1490, 1491, 1501, 1502, 1551, 1549, 1553, 1589, 1587, 1567, 1429, 1485, 1428, 1427, 1425, 1424, 1418, 1417, 1397, 1396, 1392, 1387, 1359, 1587, 1589, 1592, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1633, 1634, 1635, 1358, 1352, 1351, 1348, 1347, 1345, 1346, 1336, 1335, 1299, 1277, 4546, 1278, 1297, 1279, 1280, 1281, 1283, 3925, 3927, 3904, 3905, 3906, 3907, 3506, 3503, 3942, 3943, 3946, 3949, 3953, 3957, 3491, 3450, 3515, 3516, 2904, 2915, 2902, 2917, 2939, 2937, 2938, 3253, 3220, 3211, 3190, 3191, 3185, 2931, 21457, 2956, 2961, 2964, 2972, 3021, |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 3028, 3143, 3114, 3092, 3082, 3059, 1485, 1423, 1393, 1495, 1498, 1590, 1591, 1625, 1349, 1343, 1344, 1298, 1637, 1270, 1344, 4647, 1246, 3240, 3186, 3179, 3076, 2963, 1337 |
|--|--|--|--|--|

II**Part-A**

| S.No. | Name of State Highway | Total Length (in Km.) | Name of Districts on the way |
|-------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Badagaon- Salaiya SH- 14 | 8.6 | Katani |

Part-B**Details of land in between Building Lines and Control Lines**

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|-----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Katani | Rithi | Badgaon | 2950, 3146, 3147, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3055, 3158, 3158/4580, 3159, 3166, 3167, 3168, 3172, 3173, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3183/4580, 3147, 3167, 3177, 3184, 3195, 3196, 3197, 3202, 3203, 3204, 3225, 3227, 3228, 3286, 3325, 3326, 4066, 4067, 4068, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4081, 4082, 4083, 4085, , 4086, 4087, 4119, 4120, 4121, 4123, 4126, 4128, 4130, 4134, | 2950, 3102, 3135, 3136, 3137, 3138, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3055, 3158, 3158/4580, 3159, 3166, 3167, 3168, 3172, 3173, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3183/4580, 3147, 3167, 3177, 3184, 3191, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3227, 3228, 3286, 3323, 3324, 3325, 3326, 3329, 3230, 3231, 3286, 3324, 3944, 4066, 4067, 4068, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, , 4086, 4087, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4126, 4128, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, |
| Katani | Rithi | Amgawan | 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 444, 445, 454, 455, 456, 476, 477, 478, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 489, 490, 491, 492, 504, 505, 506, 514. | 312, 417, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, , 442, 443, 444, 445, 453, 454, 455, 456, 457, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 489, 490, 491, 492, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 521, 522, |
| Katani | Rithi | Gurjikala | 132, 133, 182, 183, 185, 186, 320, 676, 677, 678, 679, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 853, 854, 855, 914, 916, 917, 918, 1074, 1077, , 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1235, 1266, 1267, 1297, 1298, 1299, 1300, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1325, 1326, 1328, 1342, 1343, 1344, 1346, 1347, 1349, 1350, 1351, 1352, | 128, 129, 132, 133, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 317, 320, 321, 322, 323, 618, 620, 621, 669, 670, 671, 672, 675, 676, 680, 676, 677, 678, 679, 680, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 870, 871, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 1074, 1077, 1078, , 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m, either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m, either sides of the road) |
|----------|--------|---------|---|---|
| | | | 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1370, 1371, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1379, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1448, 1452, 1453, 1454, 1456, 1457, 1458, 1460, 1465, 1466, 1467, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1484, 1485, 1489, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1660, 1661, 1662, 1664, 1666, 1673, 1674, 1677, 1686, 1688, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, | 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1111, 1115, 1235, 1244, 1245, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1306, 1307, 1308, 1301, 1302, 1303, 1310, 1311, 1313, 1314, 1315, 1316, 1323, 1324, 1325, 1326, 1328, 1329, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1346, 1347, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1370, 1371, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1379, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390, 1402, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1448, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1460, 1465, 1466, 1467, 1468, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1484, 1485, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1494, 1498, 1642, 1643, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1660, 1661, 1662, 1664, 1666, 1673, 1674, 1677, 1681, 1682, 1686, 1689, 1690, 1691, 1688, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699; 1700, 1701, 1702, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1749, 1751, 1752, 1753, 2239, 2694, |
| Katani | Rithi | Pali | 80, 81, 82, 83, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 222, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 240, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 286, 289, 290, 291, 293, 294, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 444, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 476, 477, 478, 480, 481, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 493, 494, 533, 534, 540. | 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 222, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 237, 238, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 276, 286, 289, 290, 291, 293, 294, 296, 297, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332, 333, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|--------|---------|---|---|
| | | | | 467, 468, 469, 470, 471, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 493, 494, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 546, 547. |
| Katani | Rithi | Amgawan | 2065, 2067, 2706, 2659, 2660, 2682, 2683, 2684, 2687, 2688, 2689, 2708, 2709, 2711, 2712, 2713, 2714, 2716, 2722, 2729, 2732, 2733, 2734, 2735, 2739, 2740, 2742, 2743, 3835, 3828, 3822, 3821, 4125, 4121, 4123, 4120, 4117, 4148, 4128, 4095, 4116, 4115, 4114, 4107, 4108, 3930, 3929, 3899, 3928, 3915, 3913, 3911, 3910, 2706, 4196, 4153, 4154, 4176, 4179, 4181, 4075, 4076, 4078, 4079, 4082, 4084, 4085, 4086, 4087, 4092, 3891, 3892, 5096, 5100, 5172, | 2065, 2067, 2706, 2659, 2660, 2682, 2683, 2684, 2687, 2688, 2689, 2708, 2709, 2711, 2712, 2713, 2714, 2716, 2722, 2729, 2732, 2733, 2734, 2735, 2739, 2740, 2742, 2743, 3835, 3828, 3822, 3821, 4125, 4121, 4123, 4120, 4117, 4148, 4128, 4095, 4116, 4115, 4114, 4107, 4108, 3930, 3929, 3899, 3928, 3915, 3913, 3911, 3910, 2706, 4196, 4153, 4154, 4176, 4179, 4181, 4075, 4076, 4078, 4079, 4082, 4084, 4085, 4086, 4087, 4092, 3891, 3892, 4175, 4183, 4079, 4081, 4101, 3818, 3824, 3826, 3836, 3895, 3855, 3028, 3019, 3018, 3017, 2717, 2722, 3912, 3919, 3931, 4106, 4099, 2066, 2744, 2745, 2743, 2746, 2726, 2728, 2722, 2661, 2690, 2787, 2704, 5096, 5100, 5172, |

Under Section 12(2) of Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, any or all persons affected by such notification who may wish to make any objection or suggestion with respect to the issue of such notification, may submit their objections or suggestions in writing to the Highway Authority (Managing Director/Divisional Manager M.P. Road Development Corporation Ltd.) or appear before such authority within one month of the publication of the notification in the official Gazette or within 15 days from the date of the publication of the notification in the village, whichever period expires later .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ-23-03-2014/सा./19 मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 12 (1) के निवंधनों के अंतर्गत निम्न अनुसूची के खण्ड-अ में वर्णित राज्य राजमार्ग के लिए खण्ड-ब में अंकित भूमि विवरण के अनुरूप भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखा घोषित करता है :—

I)

खण्ड-“अ”

| अ.क्र. | अधिसूचित मार्ग का नाम | सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में) | राज्यमार्ग में आने वाले ज़िले |
|--------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | मन्दसौर-सीतामऊ मार्ग (राज्य राजमार्ग क्र.-14) | 44.00 | मन्दसौर |

खण्ड -“ब”

| ज़िला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर) |
|---------|---------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| मन्दसौर | मन्दसौर | टोड़ी | 72, 169, 170, 65, 180, 188, 189, 187, 190, 226, 181, 227, 228, 229, 236, 244, 182, 186, 185, 246, 247, 245, 248, 250, 225 | 72, 170, 171, 65, 180, 187, 190, 226, 181, 227, 228, 231, 230, 229, 236 244, 182, 183, 185, 246, 247, 248, 250, 249, 225 |
| मन्दसौर | मन्दसौर | बहादरी | 98, 105, 106, 107, 108, 160, 161, 162, 164, 165, 176, 177, 178, 179, 99, 104, 180, 100, 101, 102, 103, | 98, 105, 106, 107, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 176, 177, 178, 179, 100, 101, 102, 103, |
| मन्दसौर | मन्दसौर | महोम्मदपुरा | 420, 421, 423, 426, 427, 428, 429, 430, 436, 438, 439, 440, | 420, 421, 423, 426, 427, 428, 429, 430, 436, 438, 439, 440, 441 |
| मन्दसौर | मन्दसौर | बाजखेड़ी | 361, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418 | 361, 411, 412, 414, 415, 416, 418, 417, 365, 419 |
| मन्दसौर | मन्दसौर | चांगली | 583, 578, 581, 582, 572, 569, 567, 564, 563, 562, 561, 559, 558, 610, 611, 640, 642/652, 642, 644, 645, 646, 648, 584, 585, 586, 588, 589, 591, 592, 594, 595, 596, 599, 600, 602, 607, 606, 577, 608, 609, 598, 605 | 583, 580, 578, 582, 572, 570, 569, 567, 564, 563, 562, 561, 559, 558, 611, 640, 642/652, 642, 644, 645, 646, 648, 585, 586, 588, 589, 591, 592, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 602, 603, 604, 605, 607, 606, 581, 577 |
| मन्दसौर | मन्दसौर | अरनीया निजामुद्दीन | 257/850, 61, 62, 63, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 99/847, 99, 103, 106, 108, 109, 111, 110, 140, 137, 138, 139, 136, 129, 130, 131, 132, 254, 255, 253, 250, 249, 248, 247, 246, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 232, 233, 230, 143, 220, 221, 222, 142, 141, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 107, 257, 247 | 61, 62, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 76, 99/847, 100, 99, 103, 106, 108, 109, 111, 110, 140, 137, 138, 139, 136, 129, 130, 131, 132, 133, 254, 255, 256, 253, 250, 249, 248, 244, 243, 245, 247, 246, 240, 241, 242, 239, 237, 236, 235, 234, 232, 233, 230, 229, 226, 143, 220, 221, 222, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 107, 257, 223 |
| मन्दसौर | मन्दसौर | डिगांवमाली | 190, 191, 192, 182, 183, 180, 181, 79, 178, 193, 168, 170, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 160, 85, 86, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 71, 195, 69, 196, 465, 466, | 190, 183, 180, 179, 178, 169, 168, 170, 162, 163, 160, 87, 88, 86, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 71, 69, 196, 465, 466, 456, 454, 453, 452, 450, 448, 449, 375, 370, 371, 372, 373, 374, 367, 365, 366, 643, 644, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर) |
|---------|---------|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 467, 468, 469, 194, 469, 465, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 375, 368, 369, 370, 367, 366, 642, 639, 638, 637, 628, 627, 620, 616, 615, 614, 613, 644, 641, 640, 636, 634, 633, 630, 631, 629, 626, 623, 622, 619, 618, 617, 664, 610, 612, 611, 608, 606, 605, 603, 600, 602, 598, 599, 596, 597, 593, 592, 591, 575, 574, 570, 571, 572, 573, 487, 486, 484, 483, 482, 481, 478, 479, 479, 472, 84, 621, 604, 491, 490, 70, 368, 480, 488, 489 | 646, 647, 641, 640, 636, 635, 634, 633, 630, 631, 632, 629, 625, 626, 623, 622, 619, 618, 617, 664, 610, 612, 611, 608, 606, 605, 603, 600, 602, 598, 599, 596, 597, 593, 592, 591, 575, 574, 570, 571, 572, 573, 487, 486, 484, 483, 482, 481, 478, 479, 479, 472, 84, 621, 604, 491, 490, 70, 368, 480, 488, 489 |
| मन्दसौर | मन्दसौर | बर्डिया गूजर | 305, 50, 49, 51, 55, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 75, 74, 76, 77, 78, 79, 105, 106, 248, 267, 268, 269, 270, 286, 288, 287, 297, 299, 298, 304, 303, 309, 308, 307, 305, 306, 409, 410, 417, 418, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 548, 549, 604, 606, 607, 618, 619, 620, 621, 622, 624, 626, 627, 628, 631, 632, 220 | 49, 51, 54, 55, 58, 57, 59, 62, 63, 65, 66, 73, 75, 74, 78, 87, 79, 105, 106, 248, 267, 268, 269, 270, 286, 285, 284, 288, 287, 297, 299, 304, 303, 309, 308, 307, 306, 313, 409, 411, 410, 417, 418, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 548, 547, 550, 549, 604, 606, 607, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 631, 632, 220 |
| मन्दसौर | मन्दसौर | बांसाखेड़ी | 31, 35, 36, 37, 52, 54, 58, 59, 60, 95, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 159, 161, 162, 163, 204, 205, 206, 207, 256, 233, 234, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 245, 248, 255, 274, 275, 273, 270, 271, 272, 260, 259, 257, 284, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 366, 367, 368, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 386, 495, 496, 497 | 30, 31, 33, 35, 36, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 60, 95, 92, 93, 94, 97, 88, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 159, 161, 162, 163, 204, 205, 206, 201, 202, 208, 207, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 254, 255, 274, 275, 273, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 260, 262, 259, 258, 257, 284, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 366, 367, 368, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 386, 495, 496, 497, 236 |
| मन्दसौर | मन्दसौर | नेतावली | 381, 359, 360, 358, 356, 357, 431, 430, 428, 420, 419, 418, 417, 931, 932, 937, 940, 941, 942, 384, 385, 386, 386/1013, 388, 389, 390, 391, 408, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 382 | 381, 361, 359, 360, 355, 356, 357, 431, 430, 428, 420, 419, 418, 421, 931, 932, 937, 940, 941, 942, 384, 385, 386, 386/1013, 388, 389, 390, 408, 391, 410, 411, 412, 414, 415, 382 |
| मन्दसौर | मन्दसौर | रुपावली | 223, 224, 225, 227, 228, 230, 220, 221, 222, 227/486, 219, 234, 235, 236, 238, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 298, 306, 304, 303, 312, 320, 319, 398, 395, 396, 397, 399, 383, 384, 390, 391, 6, 19, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 137, 218, 217, 212, 213, 214, 206, 207, 208, 205, 201, 198, 195, 196, 193, 192, 182, 175, 169, 171, 172, 307, 305, 315, 316, 317, 318, 311, 404, 403, 402, 400, 401, 459, 462, 463, 466, 467, 468, 484, 194/494 | 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 233, 234, 236, , 238, 245, 248, 250, 251, 252, 297, 303, 312, 320, 321, 345, 319, 398, 395, 383, 384, 390, 391, 6, 19, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 137, 217, 212, 213, 214, 211, 209, 206, 207, 208, 205, 201, 195, 198, 197, 196, 192, 182, 183, 181, 176, 177, 175, 174, 169, 171, 172, 173, 307, 305, 313, 314, 315, 316, 317, 311, 404, 403, 402, 400, 401, 458, 459, 460, 463, 466, 467, 468, 484, |
| मन्दसौर | मन्दसौर | चिरमोलिया | 41, 43, 45, 36, 46, 48, 47, 49, 50, 51, 119, 122, 123, 124, 184, 185, 186, 190, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 215, 245, 248, 323, 324, 325, 321, 322, 320, 319, 312, 311, 310, 306, | 41, 43, 42, 37, 44, 45, 36, 46, 48, 47, 49, 50, 51, 119, 120, 122, 123, 124, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 181, 191, 192, 196, 198, 200, 199, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 245, 248, 323, 324, 325, 321, 320, 319, 318, 317, 312, 311, 310, 305, 306, 307, 308, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर) |
|---------|---------|-----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 307, 308, 309, 304, 303, 299, 301, 296, 249, 294, 295, 291, 265, 263, 264, 259, 257, 252, 250, | 309, 304, 303, 299, 300, 301, 296, 294, 295, 291, 265, 266, 261, 262, 263, 264, 259, 257, 252, 250 |
| मन्दसौर | मन्दसौर | बिलांत्री | 18, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 479, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 151, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 318/1136, 476, 477, 478, 475, 474, 473, 464, 465, 466, 467, 457, 447, 445, 446, 438, 504, 505, 506, 507, 508, 503, 499, 498, 497, 486, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 483, 484, 485, 481, 480, 937, 938, 939, 940, 942, 943, 944, 941, 945, 953, 954, 956, 957, 962, 963, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 1000/1133 | 18, 20, 21, 23, 26, 28, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 151, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 318/1136, 476, 477, 478, 473, 464, 465, 466, 467, 461, 460, 459, 458, 456, 457, 447, 448, 445, 446, 438, 504, 505, 506, 507, 508, 503, 499, 502, 500, 498, 483, 485, 484, 486, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 481, 480, 937, 939, 940, 941, 945, 932, 933, 936, 946, 947, 945, 953, 954, 956, 957, 955, 958, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 1000/1133 |
| मन्दसौर | सीतामऊ | हानड़ी | 304, 150, 157, 152, 183, 184, 190, 199, 200, 202, 201, 244, 279, 275, 278, 276, 277, 280, 281, 283, 289, 328, 329, 331, 341, 342, 345, 348, 346, 383, 384, 385, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 413, 414, 416, 417, 418, 419, | 304, 150, 149, 157, 151, 152, 183, 184, 190, 197, 198, 199, 200, 209, 210, 202, 203, 244, 245, 246, 279, 275, 277, 278, 276, 281, 283, 284, 282, 289, 328, 329, 331, 341, 342, 345, 351, 348, 346, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 392, 395, 394, 393, 413, 414, 416, 417, 418, 419 |
| मन्दसौर | सीतामऊ | सीतामऊ | 359, 359/1312, 358, 356, 355/1221, 355, 354, 353, 352, 346, 346/1285, 346/1193, 344, 340, 340/1192, 337, 339, 324, 315, 316, 314, 313, 310, 309, 311, 308, 299, 297, 298, 296, 280, 281, 282, 276, 277, 278, 275, 274, 250, 249/1251, 249, 241, 229, 239, 238, 237, 236, 235, 140, 140/1264, 137, 619, 360, 597, 599, 598, 612/1223, 602, 596, 603, 608, 608/1470, 741, 789, 786, 784, 778, 779, 780, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 399/1303, 399, 401, 435, 436, 437, 438, 436/1387, 439, 440, 443, 441, 456, 457, 458, 515, 516, 517, 518, 519, 530, 531, 530/1378, 529, 532, 536, 537, 561, 562, 564, 584, 585, 592, 594, 595, 595/1279, 589, 590, 591, 747, 742, 743, 772, 776, 770/1389, 779/1207, 777, 341, 279, 452, 1387/436 | 359, 359/1312, 358, 356, 355/1221, 355, 354, 353, 352, 346, 346/1285, 340, 346/1193, 344, 337, 338 340/1192, 339, 324, 315, 316, 317, 319, 313, 312, 310, 311, 307, 308, 300, 299, 297, 298, 296, 280, 281, 282, 276, 278, 280/1300, 275, 274, 250, 249/1251, 249, 246, 241, 229, 240, 239, 238, 236, 235, 140, 140/1264, 137, 618, 617, 597, 599, 600, 612/1223, 602, 596/1222, 596, 603, 608, 607/1203, 741, 789, 786, 787, 788, 785, 784, 780, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 399/1303, 399, 401, 435, 436, 437, 438, 436/1387, 439, 440, 443, 441, 456, 457, 458, 515, 516, 517, 518, 519, 530, 531, 530/1378, 529, 532, 536, 537, 561, 562, 564, 584, 585, 592, 594, 595/1279, 593, 589, 590, 588, 747, 746, 745, 742, 743, 772, 776, 770/1388, 770/1389, 343, 341, 1470/608, 452 |
| मन्दसौर | सीतामऊ | लदूना | 9, 10, 11, 12, 13, 731, 741, 742, 752, 753, 754, 748, 755, 757, 759, 761, 762, 763, 765, 701, 770, 762, 763, 764, 765, 701, 770, 771, 772, 775, 776, 777, 792, 793, 663, 662, 659, 654, 654/1848, 655, 221, 219, 226, 237, 238, 239, 240, 260, 259, 256, 257, 258, 286, 287, 290, 293, 294, 295, 296, 299, 580, 582, 583, 579, 570, 571, 577, 573, 574, 569, 568, 567, 566, 578, 579, 580, 1853/1589, 1589, 1591, 867, 826, 823, 824, 825, 821, 820, 819/1923, 816, 817, 815, 818, 814, 813, 812, 810, 809, 808, 807, 806, 779, 780, 824, 825, 821, 820, 819/1923, 817, 782, 783, 784, 785, 786, 788, 789, 790, 660, 653, | 9, 10, 11, 12, 13, 731, 741, 742, 752, 753, 748, 755, 756, 757, 759, 761, 762, 763, 765, 701, 770, 771, 772, 775, 776, 777, 792, 793, 663, 662, 659, 654, 654/1848, 655, 221, 219, 226, 237, 238, 239, 240, 260, 259, 256, 257, 258, 286, 287, 290, 293, 294, 295, 296, 299, 580, 582, 583, 579, 570, 571, 577, 573, 574, 569, 568, 567, 566, 578, 579, 580, 1853/1589, 1589, 1591, 867, 826, 823, 824, 825, 821, 820, 819/1923, 816, 817, 815, 818, 814, 813, 812, 810, 809, 808, 807, 806, 779, 780, 824, 825, 821, 820, 819/1923, 817, 782, 783, 784, 785, 786, 788, 789, 790, 660, 653, |

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर) |
|---------|--------|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 816, 814, 813, 812, 810, 809, 808, 807, 806, 778, 779, 780, 781, 782, 784, 788, 789, 790, 660, 652, 220/1925, 228, 224, 233, 242, 243, 249, 249/1850, 241, 250, 254, 255, 288, 253, 292, 592, 582/1865, 581, 578, 576, 576/1924, 1578, 1579, 1582, 1580, 1584, 1591, 658, 210, 211, 212, 213, 218, 649, 642, 590, 591, 253, 1588, 1853/1589, 1821/220 | 650, 652, 651, 645, 225, 226, 224, 225, 228, 232, 242, 243, 244, 249, 250, 254, 292, 592, 588, 589, 586, 588/1895, 581, 578, 576, 576/1924, 1578, 1579, 1582, 1580, 1584, 1591, 658, 210, 211, 212, 213, 218, 649, 642, 590, 591, 253, 1588, 1841/211 |
| मन्दसौर | सीतामऊ | धन्धेडा | 490, 152, 154, 156, 158, 159, 165, 163, 164, 128, 129, 126, 127, 123, 123/686, 122, 97, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 195, 196, 197, 199, 191, 166, 167, 279, 297/679, 280, 281, 297, 298, 299, 300, 314, 315, 316, 317, | 490, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 139, 128, 129, 126, 127, 123, 120, 123/686, 121, 122, 92, 93, 96, 98, 99, 195, 196, 197, 199, 191, 166, 167, 175, 176, 279, 280, 281, 297, 298, 299, 300, 314, 313, 318, 319, 317, |
| मन्दसौर | सीतामऊ | दलावदा | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 75, 76, 77, 78, 79, 104, 100, 101, 102, 103, 233, 235, 236, 239, 240, 241, 237, 229, 227, 228, 226, 224, 225, 277, 278, 279, 282, 283, 300, 301, 392/1290, 125, 124, 123, 121, 122, 120, 119, 117, 118, 112, 158, 110, 111, 109, 105, 106, 107, 108, 177, 191, 191/1276, 192, 193, 194, 196, 199, 200, 201, 204, 205, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 302, 304, 191/1276 | 27, 30, 32, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 75, 76, 77, 78, 82, 79, 100, 101, 102, 241, 102, 241, 242, 243, 237, 232, 229, 234, 227, 228, 225, 277, 278, 279, 282, 283, 284, 300, 392/1290, 125, 124, 123, 121, 122, 120, 117, 118, 116, 112, 158, 159, 109, 105, 106, 107, 108, 177, 178, 179, 180, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 302, 304, 49 |
| मन्दसौर | सीतामऊ | दीपाखेडा | 180, 181, 182, 196, 197, 198, 197/1701, 197/1707, 198/1705, 199, 200, 203, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 1466, 713, 714, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1473, 1475, 1476, 1478, 1477, 1478/1716, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1509, 1510, 1, 178, 179, 164, 177, 176, 176/1704, 175, 174, 173, 172, 167, 168, 169, 170, 171, 165, 166, 120, 121, 118, 116, 720, 721, 1395, 1396, 1399, 1400, 1402, 1401, 1403, 1404/1695, 1404, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1451, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1459, 1460, 1515, 1514, 1518, 1511, 1512, 740, 741, 738, 736, 735, 734, 733, 731, 732, 729, 730, 726, 724, 725, 722, 391, 390, 412, 408, 409, 409/1683, 1409/1685, 409/1689, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 718, 409/1699, 716, 1450, 1513, 1518, | 181, 182, 196, 197, 198, 197/1701, 197/1707, 198/1705, 199, 200, 202, 204, 203, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 713, 714, 1467, 1468, 1469, 689, 1472, 1470, 1473, 1475, 1476, 1478, 1477, 1492, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1509, 1510, 1499, 1, 178, 179, 163/1, 163/4, 164, 177, 176, 176/1704, 174, 173, 172, 167, 168, 169, 170, 171, 120, 119, 118, 113, 117, 115, 116, 720, 721, 1395, 1396, 1399, 1400, 1398, 1406, 1402, 1403, 1404/1695, 1445, 1447, 1448, 1404, 1419, 1450, 1451, 1462, 1461, 1463, 1464, 1459, 1515, 1514, 1517, 1518, 1513, 1512, 740, 741, 738, 737, 736, 735, 734, 733, 731, 730, 729, 724, 725, 727, 722, , 708, 709, 711, 713, 714, 715, 716, 718, 419, 420, 416, 409/1699 409/1689, 408, 412, 408/1710, 390, 391, 389, 409/1685, 409/1683, 123, 124, 122, 108, 1397, 1359, 1516, 728, 717 |
| मन्दसौर | सीतामऊ | धतुरीया | 1, 5, 6, 9, 10, 28, 25/1, 26/2, 21, 20, 22, 23, 24, 213, 186, 187, 188, 189, 190, 178, 194, 205, 196, 195, 157, 151, 156, 155, 152, 153, 141, 208, 207, 206, 202, 200, 204, 197, 199, 195, 154, 3/2/2, 3/2, 4/3, 195/3/1, 195/2 154/2, 20/1, 20/2, 3/2/1, 3/1/1, 17, 20/4 | 1, 5, 6, 9, 10, 28, 25/1, 26/2, 21, 20, 24, 30, 213, 186, 187, 188, 189, 190, 178, 179, 192, 193, 194, 196, 195, 157, 151, 156, 152, 153, 142, 141, 208, 207, 206, 202, 203, 200, 204, 197, 199, 195, 154, 3/1/1, 3/2/2, 3/2, 4/3, 29, 195/3/1, 154/2 |

II)

“खण्ड-अ”

| अ. क्र. | अधिसूचित मार्ग का नाम | सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में) | राज्यमार्ग में आने वाले जिले |
|---------|---|------------------------------|------------------------------|
| | मन्दसौर-प्रतापगढ़ मार्ग (राज्य राजमार्ग क्र.-14) | 8.850 | मन्दसौर |

खण्ड -“ब”

| जिला | तहसील | ग्राम | भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मीटर दोनों ओर) | नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर) |
|---------|---------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| मन्दसौर | मन्दसौर | मन्दसौर | 2218, 2301, 2303, 2304, 2312, 2313, 2314, 2302, 2244, 2242, 2243, 2236, 2235, 2220, 2219, 2238, 2062, 2063, 2064, 2065, 2061, 2039, 2060, 2059, 2058, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2213, 2211, 2204, 2201, 2200, 2194, 2195, 2198, 2196, 2197, 2199, 2188, 2189, 2176, 2177, 2178, 2174, 2175, 2173, 2155, 2151, 2152, 2153, 2154, 2146, 2067, 2068, 2065, 2066, 2071, 2078, 2079, 2085, 2086, 2087, 2086, 2087, 2090, 2091, 2094, 2095, 2097, 2216, 2217 | 2304, 2305, 2308, 2312, 2313, 2314, 2306, 2301, 2302, 2245, 2247, 2248, 2246, 2242, 2241, 2236, 2235, 2220, 2219, 2038, 2062, 2063, 2061, 2039, 2060, 2059, 2058, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2215, 2211, 2204, 2201, 2193, 2194, 2195, 2190, 2192, 2188, 2189, 2186, 2187, 2176, 2177, 2178, 2173, 2171, 2172, 2170, 2155, 2156, 2145, 2150, 2146, 2067, 2068, 2066, 2071, 2078, 2079, 2085, 2086, 2087, 2088, 2090, 2091, 2095, 2094, 2097, 2301, 2216, 2213, 2215 |
| मन्दसौर | मन्दसौर | माल्या खेडी | 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 161, 162, 163, 169, 171, 191, 192, 193, 242, 243, 244, 257, 258, 265, 266, 269, 272, 218, 173, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 293, 294, 310, 311, 312, 313, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 386, 392, 394, 395, 398, 399, 404, 405, 406, 411, 412, 413 | 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 161, 162, 163, 168, 169, 171, 191, 192, 193, 242, 243, 244, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 268, 267, 266, 269, 270, 272, 218, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 293, 295, 294, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 369, 382, 377, 378, 386, 392, 394, 395, 396, 395/438, 397, 398, 399, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 433, 434 |
| मन्दसौर | मन्दसौर | गलिया खेडी | 222, 223, 224, 225, 229, 230, 310, 309, 308, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 231 | 222, 223, 224, 225, 229, 230, 310, 309, 308, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 305, 231 |
| मन्दसौर | मन्दसौर | अचेरी | 38, 40, 41, 42, 43, 46, 45, 82, 83, 96, 97, 98, 99, 120, 121, 128, 129, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 172, 158, 159, 47, 53, 54, 52, 51, 49, 50, 48, 81, 80, 193, 192, 194, 190, 189, 188, 185, 183, 184, 182, 180, 181, 189, 194, 86, 122, 82 | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 23, 35, 34, 43, 46, 45, 83, 96, 97, 99, 120, 122, 128, 129, 173, 174, 175, 176, 177, 172, 158, 159, 54, 52, 51, 50, 81, 80, 79, 193, 192, 194, 190, 191, 189, 207, 210, 211, 212, 213, 188, 187, 186, 185, 183, 184, 229, 180, 181, 86, 130, 167 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

पृ. क्र. एफ-23-02-2014-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-23-02-2014-सा-उन्नीस, दिनांक 7 अप्रैल 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 7th April 2015

No. F-23-03-2014 / Gen. / 19 In exercise of the powers conferred by clause (1) of section 12 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam 2004 (No. 11 of 2005) the State Government hereby declares for the roads as specified in Part-“A” of the schedule as per specification given below in Part-“B” of the schedule to be the Building line and Control line.

I)

Part-“A”

| S.No. | Name of State Highway | Total Length (in Km.) | Name of Districts on the way |
|-------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Mandsaur-Sitamau SH-14 | 44.00 | Mandsaur |

Part-“B”

Details of land in between Building Lines & Control Lines

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|----------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mandsaur | Mandsaur | Todi | 72, 169, 170, 65, 180, 188, 189, 187, 190, 226, 181, 227, 228, 229, 230, 236, 244, 182, 186, 185, 246, 247, 245, 248, 250, 225 | 72, 170, 171, 65, 180, 187, 190, 226, 181, 227, 228, 231, 230, 229, 236 244, 182, 183, 185, 246, 247, 248, 250, 249, 225 |
| Mandsaur | Mandsaur | Bahadari | 98, 105, 106, 107, 108, 160, 161, 162, 164, 165, 176, 177, 178, 179, 99, 104, 180, 100, 101, 102, 103, | 98, 105, 106, 107, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 176, 177, 178, 179, 100, 101, 102, 103, |
| Mandsaur | Mandsaur | Mahommad Pura | 420, 421, 423, 426, 427, 428, 429, 430, 436, 438, 439, 440, | 420, 421, 423, 426, 427, 428, 429, 430, 436, 438, 439, 440, 441 |
| Mandsaur | Mandsaur | Bajkhedi | 361, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418 | 361, 411, 412, 414, 415, 416, 418, 417, 365, 419 |
| Mandsaur | Mandsaur | Changli | 583, 578, 581, 582, 572, 569, 567, 564, 563, 562, 561, 559, 558, 610, 611, 640, 642/652, 642, 644, 645, 646, 648, 585, 586, 588, 589, 591, 592, 594, 595, 596, 599, 600, 602, 607, 606, 577, 608, 609, 598, 605 | 583, 580, 578, 582, 572, 570, 569, 567, 564, 563, 562, 561, 559, 558, 611, 640, 642/652, 642, 644, 645, 646, 648, 585, 586, 588, 589, 591, 592, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 602, 603, 604, 605, 607, 606, 581, 577 |
| Mandsaur | Mandsaur | Araniya Nizamuddin | 257/850, 61, 62, 63, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 99/847, 99, 103, 106, 108, 109, 111, 110, 140, 137, 138, 139, 136, 129, 130, 131, 132, 254, 255, 253, 250, 249, 248, 247, 246, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 232, 233, 230, 143, 220, 221, 222, 142, 141, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 107, 257, 247 | 61, 62, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 76, 99/847, 100, 99, 103, 106, 108, 109, 111, 110, 140, 137, 138, 139, 136, 129, 130, 131, 132, 133, 254, 255, 256, 253, 250, 249, 248, 244, 243, 245, 247, 246, 240, 241, 242, 239, 237, 236, 235, 234, 232, 233, 230, 229, 226, 143, 220, 221, 222, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 107, 257, 223 |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) | |
|----------|----------|-----------|--|--|--|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| Mandsaur | Mandsaur | Bilantree | 18, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 479, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 151, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 318/1136, 476, 477, 478, 475, 474, 473, 464, 465, 466, 467, 457, 447, 445, 446, 438, 504, 505, 506, 507, 508, 503, 499, 498, 497, 486, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 483, 484, 485, 481, 480, 937, 938, 939, 940, 942, 943, 944, 941, 945, 953, 954, 956, 957, 962, 963, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 1000/1133 | 18, 20, 21, 23, 26, 28, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 151, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 318/1136, 476, 477, 478, 473, 464, 465, 466, 467, 461, 460, 459, 458, 456, 457, 447, 448, 445, 446, 438, 504, 505, 506, 507, 508, 503, 499, 502, 500, 498, 483, 485, 484, 486, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 481, 480, 937, 939, 940, 941, 945, 932, 933, 936, 946, 947, 945, 953, 954, 956, 957, 955, 958, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 1000/1133 | | |
| Mandsaur | Sitamau | Hanadi | 304, 150, 157, 152, 183, 184, 190, 199, 200, 202, 201, 244, 279, 275, 278, 276, 277, 280, 281, 283, 289, 328, 329, 331, 341, 342, 345, 348, 346, 383, 384, 385, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 413, 414, 416, 417, 418, 419, | 304, 150, 149, 157, 151, 152, 183, 184, 190, 197, 198, 199, 200, 209, 210, 202, 203, 244, 245, 246, 279, 275, 277, 278, 276, 281, 283, 284, 282, 289, 328, 329, 331, 341, 342, 345, 351, 348, 346, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 392, 395, 394, 393, 413, 414, 416, 417, 418, 419 | | |
| Mandsaur | Sitamau | Sitamau | 359, 359/1312, 358, 356, 355/1221, 355, 354, 353, 353, 352, 346, 346/1285, 346/1193, 344, 340, 340/1192, 337, 339, 324, 315, 316, 314, 313, 310, 309, 311, 308, 299, 297, 298, 296, 280, 281, 282, 276, 277, 278, 275, 274, 250, 249/1251, 249, 241, 229, 239, 238, 237, 236, 235, 140, 140/1264, 137, 619, 360, 597, 599, 598, 612/1223, 602, 596, 603, 608, 608/1470, 741, 789, 786, 784, 778, 779, 780, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 399/1303, 399, 401, 436, 437, 438, 439, 441, 456, 457, 458, 515, 516, 517, 518, 519, 530, 531, 530/1378, 536, 537, 561, 561/1256, 562, 563, 564, 584, 585, 592, 594, 595, 595/1279, 589, 590, 591, 747, 742, 743, 772, 776, 770/1389, 779/1207, 777, 341, 279, 452, 1387/436 | 359, 359/1312, 358, 356, 355/1221, 355, 354, 353, 352, 346, 346/1285, 340, 346/1193, 344, 338 340/1192, 339, 324, 315, 316, 317, 319, 313, 312, 310, 311, 307, 308, 300, 299, 297, 298, 296, 280, 281, 282, 276, 278, 280/1300, 275, 274, 250, 249/1251, 249, 246, 241, 229, 240, 239, 238, 236, 235, 140, 140/1264, 137, 618, 617, 597, 599, 600, 612/1223, 602, 596/1222, 596, 603, 608, 607/1203, 741, 789, 786, 787, 788, 785, 784, 780, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 399/1303, 399, 401, 435, 436, 437, 438, 436/1387, 439, 440, 443, 441, 456, 457, 458, 515, 516, 517, 518, 519, 530, 531, 530/1378, 529, 532, 536, 537, 561, 562, 564, 584, 585, 592, 594, 595/1279, 593, 589, 590, 588, 747, 746, 745, 742, 743, 772, 776, 770/1388, 770/1389, 343, 341, 1470/608, 452 | | |
| Mandsaur | Sitamau | Ladoona | 9, 10, 11, 12, 731, 741, 742, 752, 753, 754, 748, 755, 757, 759/1899, 760, 762, 763, 764, 765, 701, 770, 771, 772, 775, 776, 777, 792, 793, 663, 662, 659, 654, 654/1848, 655, 221, 219, 226, 237, 238, 239, 240, 260, 259, 256, 257, 258, 286, 287, 290, 293, 294, 295, 296, 299, 580, 582, 583, 579, 570, 571, 577, 573, 574, 569, 568, 567, 566, 578, 579, 580, 1853/1589, 1589, 1591, 867, 826, 823, 824, 825, 821, 820, 819/1923, 816, 817, 815, 818, 814, 813, 812, 810, 809, 808, 807, 806, 779, 780, 782, 783, 784, 785, 786, 788, 789, 790, 660, 653, 650, 652, 651, 645, 225, 226, 224, 225, 228, 232, 242, 243, 244, 249, 250, 254, 292, 592, 588, 589, 586, 588/1895, 581, 578, 576, 576/1924, 1578, 1579, 1582, 1580, 1584, 1591, 658, 210, 211, 212, 213, 218, 649, 642, 590, 591, 253, 1588, 1841/211 | 9, 10, 11, 12, 13, 731, 741, 742, 752, 753, 748, 755, 756, 757, 759, 761, 762, 763, 765, 701, 770, 771, 772, 775, 776, 777, 792, 793, 663, 662, 659, 654, 654/1848, 655, 221, 219, 226, 237, 238, 239, 240, 260, 259, 256, 257, 258, 286, 287, 290, 293, 294, 295, 296, 299, 580, 582, 583, 579, 570, 571, 577, 573, 574, 569, 568, 567, 566, 578, 579, 580, 1853/1589, 1589, 1591, 867, 826, 823, 824, 825, 821, 820, 819/1923, 816, 817, 815, 818, 814, 813, 812, 810, 809, 808, 807, 806, 779, 780, 782, 783, 784, 785, 786, 788, 789, 790, 660, 653, 650, 652, 651, 645, 225, 226, 224, 225, 228, 232, 242, 243, 244, 249, 250, 254, 292, 592, 588, 589, 586, 588/1895, 581, 578, 576, 576/1924, 1578, 1579, 1582, 1580, 1584, 1591, 658, 210, 211, 212, 213, 218, 649, 642, 590, 591, 253, 1588, 1841/211 | | |

| District | Tehsil | Village | Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road) | Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) |
|----------|---------|------------|--|--|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| Mandsaur | Sitamau | Dhandedha | 490, 152, 154, 156, 158, 159, 165, 163, 164, 128, 129, 126, 127, 123, 123/686, 122, 97, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 195, 196, 197, 199, 191, 166, 167, 279, 297/679, 280, 281, 297, 298, 299, 300, 314, 315, 316, 317, | 490, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 139, 128, 129, 126, 127, 123, 120, 123/686, 121, 122, 92, 93, 96, 98, 99, 195, 196, 197, 199, 191, 166, 167, 175, 176, 279, 280, 281, 297, 298, 299, 300, 314, 313, 318, 319, 317, |
| Mandsaur | Sitamau | Dalavda | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 75, 76, 77, 78, 79, 104, 100, 101, 102, 103, 233, 235, 236, 239, 240, 241, 237, 229, 227, 228, 226, 224, 225, 277, 278, 279, 282, 283, 300, 301, 392/1290, 125, 124, 123, 121, 122, 120, 119, 117, 118, 112, 158, 110, 111, 109, 105, 106, 107, 108, 177, 178, 179, 180, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 302, 304, 191/1276 | 27, 30, 32, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 75, 76, 77, 78, 82, 79, 100, 101, 102, 241, 242, 243, 237, 232, 229, 234, 227, 228, 225, 277, 278, 279, 282, 283, 284, 300, 392/1290, 125, 124, 123, 121, 122, 120, 117, 118, 116, 112, 158, 159, 109, 105, 106, 107, 108, 177, 178, 179, 180, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 302, 304, 49 |
| Mandsaur | Sitamau | Deepakheda | 180, 181, 182, 196, 197, 198, 197/1701, 197/1707, 198/1705, 199, 200, 203, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 1466, 713, 714, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1473, 1475, 1476, 1478, 1479, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1509, 1510, 1, 178, 179, 164, 177, 176, 176/1704, 175, 174, 173, 172, 167, 168, 169, 170, 171, 165, 166, 120, 121, 118, 116, 720, 721, 1395, 1396, 1399, 1400, 1402, 1401, 1403, 1404/1695, 1404, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1451, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1459, 1460, 1515, 1514, 1518, 1511, 1512, 740, 741, 738, 737, 736, 735, 734, 733, 731, 730, 726, 724, 725, 722, 391, 390, 412, 408, 409, 409/1683, 1409/1685, 409/1689, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 718, 409/1699, 716, 1450, 1513, 1518, | 181, 182, 196, 197, 198, 197/1701, 197/1707, 198/1705, 199, 200, 202, 204, 203, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 713, 714, 1467, 1468, 1469, 689, 1472, 1470, 1473, 1475, 1476, 1478, 1477, 1492, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1509, 1510, 1499, 1, 178, 179, 163/1, 163/4, 164, 177, 176, 176/1704, 174, 173, 172, 167, 168, 169, 170, 171, 120, 119, 118, 113, 117, 115, 116, 720, 721, 1395, 1396, 1399, 1400, 1398, 1406, 1402, 1403, 1404/1695, 1445, 1447, 1448, 1404, 1419, 1450, 1451, 1462, 1461, 1463, 1464, 1459, 1515, 1514, 1517, 1518, 1513, 1512, 740, 741, 738, 737, 736, 735, 734, 733, 731, 730, 729, 724, 725, 727, 722, , 708, 709, 711, 713, 714, 715, 716, 718, 419, 420, 416, 409/1699 409/1689, 408, 412, 408/1710, 390, 391, 389, 409/1685, 409/1683, 123, 124, 122, 108, 1397, 1359, 1516, 728, 717 |
| Mandsaur | Sitamau | Dhaturiya | 1, 5, 6, 9, 10, 28, 25/1, 26/2, 21, 20, 22, 23, 24, 213, 186, 187, 188, 189, 190, 178, 194, 205, 196, 195, 157, 151, 156, 155, 152, 153, 141, 208, 207, 206, 202, 200, 204, 197, 199, 195, 154, 3/2/2, 3/2, 4/3, 195/3/1, 195/2 154/2, 20/1, 20/2, 3/2/1, 3/1/1, 17, 20/4 | 1,5,6,9,10,28,25/1, 26/2, 21, 20, 24, 30, 213, 186, 187, 188, 189, 190, 178, 179, 192, 193, 194, 196, 195, 157, 151, 156, 152, 153, 142, 141, 208, 207, 206, 202, 203, 200, 204, 197, 199, 195, 154, 3/1/1, 3/2/2, 3/2, 4/3, 29, 195/3/1, 154/2 |

II)

Part-“A”

| S.No. | Name of State Highway | Total Length (in Km.) | Name of Districts on the way |
|-------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Mandsaur-Pratapgarh SH-14 | 8.850 | Mandsaur |

Part-“B”

Details of land in between Building Lines & Control Lines

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मझौली, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. 425-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा के द्वारा जलमग्नीय पुल का निर्माण किया जाना है, इस कारण धारा-11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|---------|--------------------------------|--|----------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सीधी | मझौली | शंकरपुर | 0.33 | कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रीवा। | जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु। |

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रामपुर नैकिन, दिनांक 6 अप्रैल 2015

क्र. 386-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा के द्वारा जलमग्नीय पुल का निर्माण किया जाना है, इस कारण धारा-11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------------|----------|--------------------------------|--|----------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सीधी | रामपुर नैकिन | बजरंगगढ़ | 0.20 | कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रीवा। | जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु। |

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 388-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा के द्वारा जलमगनीय पुल का निर्माण किया जाना है, इस कारण धारा-11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------------|--------|-----------------------------|--|----------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | (5) | (6) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| सीधी | रामपुर नैकिन | मगरोहर | 0.06 | कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रीवा. | जलमगनीय पुल निर्माण हेतु। |

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 390-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा के द्वारा जलमगनीय पुल का निर्माण किया जाना है, इस कारण धारा-11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------------|--------|-----------------------------|--|----------------------------|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | (5) | (6) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| सीधी | रामपुर नैकिन | मगरोहर | 0.28 | कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रीवा। | जलमगनीय पुल निर्माण हेतु। |

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्र. 724-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम | भूमि का वर्णन | | धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|------|--------|------------|---------------|--|---|-------------------------------|
| | | | (4) | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| रीवा | सिरमौर | मनवाही 452 | 0.016 | कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.). | बाणसागर परियोजना की कटकी सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर ¹ स्थित सम्पत्तियों का अर्जन. | |

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

राजगढ़, दिनांक 7 अप्रैल 2015

क्र. 2134-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन | | धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------|--------|---------------|--------------------------------|--|--|
| | | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजगढ़ | राजगढ़ | देवलीचारण | 2.492 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़. | चोतरा तालाब डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित 5 ग्रामों की भूमि का भूमि का अर्जन. |
| | | चोतरा | 1.307 | | |
| | | धुलेन | 0.963 | | |
| | | दुबली | 0.350 | | |
| | | सुस्तानी | 1.135 | | |
| | | योग . . | 6.247 | | |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2136-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | भूमि का वर्णन | | धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------|--------|---------------|--------------------------------|--|---|
| | | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजगढ़ | राजगढ़ | अताईखेड़ा | 0.120 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़. | अताईखेड़ा तालाब की नहर में प्रभावित शेष भूमि का भू-अर्जन. |
| | | योग . . | 0.120 | | |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2138-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम | भूमि का वर्णन | | धारा-4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------|--------|---------|--------------------------------|--|--|----------------------------|
| | | | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | (4) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| राजगढ़ | राजगढ़ | खैरासी | 0.090 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़. | खैरासी तालाब की नहर में शेष प्रभावित भूमि का भू-अर्जन. | |
| | | योग . . | 0.090 | | | |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 27 मार्च 2015

पत्र क्र. 327-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि पिपरियांकला-भैरोघाट मार्ग में हिस्सन नदी पर पुल का निर्माण किया गया है। उक्त पुल को पूर्व में निर्मित मार्ग से जोड़ने हेतु आंशिक भू-अर्जन किया जाना आवश्यक है और इस कारण अधिनियम की धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम | भूमि का वर्णन | | धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------|--------|-------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|
| | | | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) | (4) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| जबलपुर | शहपुरा | पिपरियांकला | 0.10 | कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि., सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर. | पिपरियांकला भैरोघाट मार्ग में हिस्सन नदी पर पुल पहुँचमार्ग निर्माण हेतु. | |
| | | योग . . | 0.10 | | | |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवनारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 9 मार्च 2015

क्र. 52-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—हनुमना
- (ग) ग्राम—टटिहरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —6.246 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

700/1

0.121

700/2

0.162

555/1

0.194

555/3

0.182

555/6

0.401

555/2

0.223

555/4

0.170

555/7

0.166

709/5

0.810

496/1

0.219

490/1

0.138

530/1

1.586

525

0.105

532

1.052

517

0.299

738/1

0.061

738/2

0.061

733/1

0.101

733/2

0.134

730/3

0.041

732/125

0.020

योग . . 6.246

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जुड़ा तालाब बांध एवं नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 20 मार्च 2015

क्र. 370-भू-अर्जन-प्र.क्र. 44-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—पॉचपुला उत्तर (पुरक प्रकरण) निजी कृषि भूमि.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.810 हेक्टर.

| सर्वे नं. | क्षेत्रफल हे. | पूर्व में प्रकाशित धारा-6 | | संशोधित धारा-6 | रिमार्क |
|-------------------|---------------|---------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| | | (3) | (4) | (5) | |
| 252/2, 612/1 | 0.405 | 253/2, 612/1 | 0.405 | सर्वे क्रमांक में त्रुटि के कारण. | |
| 733/2 | 0.101 | 733/2 | 0.101 | यथावत | |
| 735/5 | 0.304 | 733/5 | 0.304 | सर्वे क्रमांक में त्रुटि के कारण. | |
| 784/1, 792/2 | 1.331 | विलोपित | विलोपित | पूर्व प्रकरण में सम्मिलित होने से. | |
| कुल क्षेत्रफल योग | 2.141 | | | 0.810 | |

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लोअरगोइ परियोजना बड़वानी, बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण.

नोट:—भूमि का नक्शे (साइट प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी लोअरगोइ परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

जबलपुर, दिनांक 27 मार्च 2015

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम दो में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कॉलम 3 में उल्लेखित भूमि के रक्कड़े का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा 4 के अंतर्गत एतत् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शास. भूमि की आवश्यकता लोक परियोजना के लिए है। चूंकि सिहोरा बायपास का निर्माण पूर्व में हो चुका है एवं उक्त मार्ग से आवागमन प्रचलित है। उक्त बायपास में निजी भूमि शामिल है फलस्वरूप उक्त भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक है। भूमि सड़क शासकीय पूर्व में दर्ज हो चुकी है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—सिहोरा
- (ग) ग्राम—सिहोरा
- (घ) क्षेत्रफल—0.081 हेक्टर.

| खसरा नम्बर | अर्जित रक्कड़ा (हेक्टर में) |
|------------|--------------------------------|
| (1) | (2) |
| 127/2 | 0.081 |
| योग . . | 0.081 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिहोरा बायपास मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय राजस्व सिहोरा में देखा जा सकता है।

पत्र. क्र. 321-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम दो में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम 3 में उल्लेखित भूमि के रक्कड़े का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा 4 के अंतर्गत एतत् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शास. भूमि की आवश्यकता लोक परियोजना के लिए है।

चूंकि ग्राम-बेलखेड़ा एवं बरकछार, तहसील-शहपुरा, जिला-जबलपुर में बेलखेड़ा-कटाई-बरमान मार्ग के कि. मी. 3/10 में हिरन नदी पर पुल पहुंच मार्ग का कार्य चल रहा है, केवल छूटे हुए आंशिक रक्कड़े का ही अर्जन किया जा रहा है। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—बरकछार
- (घ) क्षेत्रफल—0.02 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रक्कड़ा

(हेक्टर में)

| (1) | (2) |
|------------------------|------|
| 81/2 (ग्राम-बरकछार) | 0.02 |
| कुल रक्कड़ा 2 किता . . | 0.02 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बेलखेड़ा-कटाई-बरमान मार्ग के कि.मी. 3/10 में हिरन नदी पर पुल पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) कार्यालय यंत्री, लो. नि. वि. सेतु संभाग, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवनारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

दमोह, दिनांक 30 मार्च 2015

क्र. क-भू.अ.वि.अ.-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की अनुसूची के पद पर (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि का अर्जन

- (क) जिला—दमोह
- (ख) तहसील—दमोह

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| (ग) ग्राम—जुझार, मैली, रियाना सलैया. | (1) | (2) |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.25 हेक्टेयर. | 932 | 0.01 |
| खसरा नंबर (1) | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) | 933 |
| ग्राम—जुझार, प.ह.न. 55/38 | 922 | 0.02 |
| 66 | 935 | 0.02 |
| 74/26/2 | 936/1 | 0.01 |
| 74/23 | 936/2 | 0.01 |
| 74/24 | 819 | 0.01 |
| 74/35 | 818 | 0.01 |
| 74/38 | 815 | 0.01 |
| 74/39 | 814 | 0.01 |
| 74/10 | 820 | 0.01 |
| 74/13 | 860 | 0.01 |
| 74/17 | 358/ | 0.01 |
| योग . . | 357 | 0.01 |
| | 358/2 | 0.01 |
| | 361 | 0.01 |
| ग्राम—मैली रियाना 18/61 | 360 | 0.01 |
| 227 | 362 | 0.01 |
| 229/2 | 364 | 0.01 |
| योग . . | 363 | 0.01 |
| | 367 | 0.01 |
| ग्राम—सलैया, प.ह.न. 15 | 368 | 0.01 |
| 1041/1 | 369 | 0.01 |
| 1041/2 | 370 | 0.01 |
| 1042/1 | 371/1 | 0.01 |
| 1042/2 | 371/2 | 0.01 |
| 1043 | 371/3 | 0.01 |
| 1049 | 371/4 | 0.01 |
| 1050/1 | 346 | 0.01 |
| 1050/2 | 344 | 0.01 |
| 1061 | 340 | 0.01 |
| 1060 | 343 | 0.01 |
| 1053 | 342 | 0.01 |
| 1054 | 341 | 0.01 |
| 1055 | 277 | रास्ता P.W.D. |
| 1052 | 808 | 0.01 |
| 970 | योग . . | 0.62 |
| 969 | योग ग्राम जुझार . . | 1.60 |
| 968/1 | योग ग्राम मैली रियाना . . | 0.03 |
| 968/2 | योग ग्राम सलैया . . | 0.62 |
| 968/3 | महायोग . . | 2.25 |

| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दमोह नगर के जुझारघाट पेयजल के योजना इनटेंकवेल, सब स्टेशन पाईप लाइन और रास्ता बनाने के निर्माण किये जाने बाबत् के कार्य हेतु. | (1) | (2) |
|--|-------|-------|
| | 162/2 | 0.174 |
| | 212/1 | 0.075 |
| | 212/2 | 0.079 |
| | 213 | 0.685 |
| | 227 | 0.015 |
| | योग . | 1.186 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2015

रा. प्र. क्र. 1 अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक-सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बुरहानपुर
- (ख) तहसील—बुरहानपुर
- (ग) ग्राम—बड़गाँवमाफी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.186 हेक्टेयर.

बुरहानपुर—देढ़तलाई राजमार्ग क्र. 50 के उन्नयन/
चौड़ीकरण कार्य एवं टोल प्लाजा

ग्राम—बड़गाँवमाफी

| खसरा नंबर (1) | अर्जित रकमा (हे. में) (2) |
|---------------------|---------------------------------|
| 74 | 0.005 |
| 161 | 0.153 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बुरहानपुर-देढ़तलाई राजमार्ग क्र. 50 के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य एवं टोल प्लाजा निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड संभाग क्र. 1, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. आईरिन सिंधिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 6 अप्रैल 2015

नस्ती क्र. 56-2013-एलए-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-21-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
- (ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—देशगांव

(घ) अर्जित रकबा—9.98 हेक्टेयर.

| खसरा क्रमांक | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) |
|-----------------|-------------------------------|
| (1) | (2) |
| 258 | 0.51 |
| 264/1 | 0.84 |
| 264/2 | 0.74 |
| 263 | 0.30 |
| 262 | 0.22 |
| 261 | 0.05 |
| 260 | 0.04 |
| 230/2 | 0.18 |
| 238/2 | 0.50 |
| 230/1 | 2.00 |
| 255/3 | 0.18 |
| 250 | 0.45 |
| 311 | 0.05 |
| 268 | 0.14 |
| 269 | 0.03 |
| 255/2 | 0.21 |
| 252 | 0.15 |
| 266/1 | 0.30 |
| 266/2 | 0.07 |
| 271 | 0.11 |
| 272 | 0.41 |
| 206 | 0.30 |
| 207/1 | 0.17 |
| 207/2 | 0.85 |
| 222 | 0.37 |
| 224/1 | 0.27 |
| 224/2 | 0.54 |
| कुल रकबा . . | 9.98 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—नावली तालाब योजना के बांध एवं झूब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2015

संशोधित

प्र. क्र. 03-अ-82-2013-14.—मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 09 जनवरी 2015 के भाग 01 में प्रकाशित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने से भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) के अन्तर्गत धारा 06 का प्रकाशन कराया गया था। उक्त अनुसूची के सरल क्रमांक 6 पर वर्णित भूमि खसरा क्रमांक 194/4/2 रकबा 0.061 है। के स्थान पर निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित भूमि पढ़ा जावे:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (ड) जिला—भोपाल
- (च) तहसील—बैरसिया
- (छ) ग्राम—बरखेडाकलां

सरल क्रमांक खसरा नम्बर रकबा हेक्टर में

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | | |
|---|---------|-------|
| 6 | 199/4/2 | 0.061 |
|---|---------|-------|

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—आंकिया-बरखेडाकलां-डोगरगांव-नजीराबाद मार्ग (बी.ओ.टी.एन्युटी योजना) निर्माण हेतु। 2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भोपाल/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बैरसिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत बरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.